

## भूमिका ।

इस बातको सब भारतवासी जानते हैं कि, उत्तराखण्ड अतिपवित्र पुण्यभूमि प्रायः तपस्याका परम स्थान है वडेपडे राजा महाराजा ज्ञानी ध्यानी इसी उत्तराखण्डमें अपनी चरमा व्यतीत करते थे यहीं नरनारायणका पुण्यमय पवित्र आश्रम है । बद्रीनारायणका निवासस्थान सहस्रों तीर्थोंका एक निकेतन है जिसमें कैलासस्थान तो महादिव्य परमपुण्यद्रायक है यहीं भगवान् भवानीपति अपने गणोसहित विराजमान होकर भक्तोंको अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ प्रदान करतेहैं । यद्यपि बद्रीकैदारनाथजीका दर्शन उत्तराखण्डके यात्री करतेहैं परन्तु साधन और जप तप करनेसे साक्षात् शक्रका भी दर्शन होसکتा है और भी वडेपडे आश्रय यह प्राणी देखसकताहै यद्यपि योगधारणा ध्यान समाधिसे कैलासनाथ प्रसन्न होते हैं पर सदेह कैलासजन्मेका मार्ग और उसमें विघ्नोंकी निवृत्ति अन्य बातहै, यह बात इस कैदारकल्प नामक महा गुप्त ग्रन्थके द्वारा जानी जाती है । इसमें कैलास जानेका मार्ग और उसके मार्गमें जो विघ्नों उनके दूरकरनेके मंत्र इस गुप्तग्रन्थमें लिखे हुएहैं यह ग्रन्थ सर्व सुलभ नहीं हमको इसकी जितनी प्रति मिलीं सवही महा अशुद्ध मिलीं जिससे अर्थकी सगति लगानी महाकठिन होगई और ग्रन्थके शुद्धकरणमें भी बहुत परिश्रम हुआ । इस ग्रन्थके पाठ करनेसे और इसका अर्थ विचारनेसे बड़ा पुण्य होता है कैलास-मार्ग स्फुटित होजाता है वडेपडे गुप्त और दिव्यमार्गजो कैलासमें हैं उनका भेद खुलजाताहै कैमे साधकको भगवान् शक्र दर्शन देतेहैं किस मन्त्रसे सदेह यह पुरप कैलासपतिका दर्शन करसकता- है यह सब कथाएँ महात्म्य सहित इसमें लिखीहैं । पुराण ही हमारा धर्म, पुराण ही दिव्यज्ञान, दिव्यपथ पुराणवृत्तका प्रदर्शक है पुराणहीसे वेदार्थ प्रकाश होता है पुराणके अन्तर्गतही यह कैदारकल्प है सर्वमाधारणजो अलम्ब्यलाम पट्टुचानेके निमित्त इमपरमोत्तम ग्रन्थका हमने श्रीमान् महाराज वहादुरकी आज्ञासे भापाटीका किया हमको पूरी आशाहै कि यह ग्रन्थ अनलोकन कर सनातनधर्मी पाठकोंक आनन्दकी सीमा न रहेगी कैलास मार्गका भेद जाननेके उत्सुक पाठकवृन्द इसको अत्रय अत्रो-वनर लाभ उठागें और देवाधिदेव भगवान् शक्रकी कृपा लाभरेंगे इसकी टीका करनेमें यथासाध्य शुद्धताकी चेष्टा कीहै कुछ रहगई हों तो दूसरी आवृत्तिमें वहसत्र ठीक होजायेंगी ।

श्रीमान् गोत्राक्षण प्रतिपालरू, प्रताप्रिय, परमोदार श्री १०८ महाराजा रामनारायणसिंहजू देव वहादुर पट्टुमा हजारोग्राम बगालको हम अनेक धन्यवाद देते हैं कि, जिनके पितावृद्धि और धर्म उस्ताहसे इम प्रथम भापानुवाद हुआ है श्रीमान्के सद्गुणोंके उल्लेख करनेमें इतना ही बहुत है कि, इस समय श्रीमान् विद्या और धर्मशुद्धिमें पूर्ण यत्नान हैं, इसके अन्तर परमोदार श्रीमान् धर्मार्ति गैमरान श्रीकृष्णदासजीको धन्यवाद देतेहैं जो कि अति प्राचीन ग्रन्थोंका उद्धारकर जगत् उपकार करतेहैं ॥ आजरूठ श्रीमान्की आज्ञानुसार श्रीबद्रीनारायण भक्तिरसामृत-काव्याल्पिकके ५० मन्त्र नन्द शर्मा भक्ति तथा ग्रन्थके ३४ प्रयोगोंका भा० टी० करवाते हैं आशा है कि वे भी शीघ्र ही प्रकाशित होंगे ॥

ज्वालाप्रसादमिश्र-दिन्दारपुरा-सदादावाद ।



श्रीकेदारेश्वराय नमः ।

## अथ केदारकल्पः ।

भाषाटीकासहितः ।

मङ्गलम् ।

ॐ द्वे भार्य्ये सिद्धिवुद्धी तदनु सहचरे ऋद्धिवृद्धी गुणाब्धे द्वौ पुत्रौ  
लक्ष्मणौ सकलगुणमयौ मंडपे कल्पवृक्षः ॥ गेहे यस्य प्रभुत्वं  
परममृतसमं मोदकाखंडमिश्रं भूयाद्भूतैर्गणेशः सकलगुणकुला-  
नन्दकारी कुटुंबः ॥ १ ॥ कण्ठे यस्य लसत्करालगरलं गंगा-  
जलं मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थिता ॥  
नंदिस्कंदगणाधिराजसहितः श्रीविश्वनाथः प्रभुः काशीमन्दि-  
रसंस्थितो हि सकलं कुर्वीत नो मंगलम् ॥ २ ॥ ॐ भालेऽब्जो-  
दोहा—श्रीदेवी जगदम्बिका, श्रीशंकर भगवान् ।

वन्दनकर टीका लिखूं, भक्तनको सुखदान ॥

सिद्धि और बुद्धि जिनकी दो भार्या हैं । ऋद्धि और वृद्धि जिनकी, दो,  
दासी हैं । लक्ष्य और लाभ जिनके सकलगुण मंडित दो पुत्र हैं, जो  
भक्तोंका मनोरथ पूर्णकरनेको कल्पवृक्ष हैं । जिनके घरमें महान् अमृत  
है जिनको मोदक और खांड प्रियहै । वह गणेशजी अपने गणोंके  
साथ कुटुम्बभरको मंगलकारी हों ॥ १ ॥ जिनके कण्ठमें करालविष, मस्तक-  
पर गंगानल, वामअंगमें हिमालयकी कन्या पार्वती भवानी भार्यारूपसे स्थित  
हैं । नंदि स्कंद आदि अपने गणोंसे अधिष्ठित, प्रभु श्रीविश्वनाथ काशीधाममें

५थ गले करालगरलं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजराज-  
 तनया सर्वांगभूतिः स्थिता ॥ दुंदुबिस्कंदगणादिनंदिसहितः  
 श्रीविश्वनाथः प्रभुः काशीमंदिरसंस्थितोऽखिलगुरुर्देयात्सदा  
 मंगलम् ॥ ३ ॥ श्रीश्वर उवाच ॥ ॐ कैलासदर्शनं पुण्यं सर्व-  
 दैव न संशयः ॥ येन देहेन यत्कर्म क्रियते कर्मकर्तृभिः ॥ १ ॥  
 तदेहे तेन लभ्यं स्यात्कल्पकोटिशतैरपि ॥ इदं देहायुतेनैव कर्मणो  
 लभते फलम् ॥ २ ॥ अतोऽधर्मसमूहेन नैनं धर्मं तु लोपयेत् ॥  
 पद्मं त्वष्टदलं कुर्यात्तत्र पूजां समाचरेत् ॥ ३ ॥ ध्यायेच्छ्रीशं-  
 करं तत्र पार्वतीवल्लभं हरम् ॥ उपचारैः षोडशभिः सर्वशक्तिसम-  
 न्वितैः ॥ ४ ॥ बलिप्रदानं कुर्वीत पुनः सर्वजनाप्रियः ॥  
 वाञ्छिताँल्लभते कामान्भुक्तिमुक्ती च विन्दति ॥ ५ ॥ एवं सिद्धेन  
 मंत्रेण साधयेत्स्वमनोरथम् ॥ यस्य कोपं समासाद्य कंपते  
 देवता भयात् ॥ ६ ॥ इन्द्राद्या वशगा भूत्वा तं नमस्यंति साध-  
 कम् ॥ चक्रवर्ती भवेद्भूपो यदीच्छेच्छिववल्लभः ॥ ७ ॥ एतत्ते

स्थित हुए सदा हमारा मंगल करै ॥ २ ॥ जिनके मस्तकपर चन्द्रमा, कण्ठम  
 करालविष, मस्तकमें गंगाजी, वामअंगमें गिरिराजकी पुत्री और सब अंगमें  
 विभूति स्थितहै, दुंदुबिराज, स्कन्दादि, नंदिआदिके सहित समर्थ प्रभु विश्वनाथजी  
 काशीके मन्दिरमें स्थित हुए सब जगत्के गुरु सदा सबको मंगलदें ॥३॥ ईश्वर  
 बोले । सदाही सबको कैलासके दर्शनसे पुण्य होता है, इसमें सन्देह नहीं । कर्म  
 करनेवाले जिस देहसे जो कर्म करतेहैं ॥१॥सौकरोड कल्पोंमेंभी उसदेहसे वह कर्म  
 प्राप्त नहीं होताहै।इस देहसेही कर्मोंका फल नहीं अगले जन्मोंमेंभी मिलताहै॥२॥  
 इससे धर्मसमूहमें पडकर इस शिवात्मक धर्मका लोप न करै । आठ दलका पद्म  
 बनाकर उसमें शिवपूजन करै ॥ ३ ॥ पार्वतीके प्रिय भगवान शंकरका ध्यान  
 धरै, अपनी शक्तिभर सोलह प्रकारसे भगवानका पूजन करै ॥ ४ ॥ फिर सब  
 जगत्को प्रिय होनेवाली बलिदे । इससे मनवाञ्छित फलकी प्राप्ति और भुक्ति  
 मुक्ति मिलतीहै ॥५॥ इसप्रकार सिद्ध मंत्रसे अपने मनोरथोंको सिद्ध करै जिसके  
 कोपके भयसे देवताभी कंपित होतेहैं ॥ ६ ॥ इन्द्रादिक सब देवता और साधक  
 जिनको प्रणाम करतेहैं, जो शिवकी प्रियता चाहै वह चक्रवर्ती होजाताहै ॥७॥ हे

कथितं पुत्र महापथविचारणम् ॥ अनित्यमसुखं लोकसिद्धिं  
प्राप्य भजस्व माम् ॥ ८ ॥ इदं पुत्र तव स्नेहान्मया गुह्यं प्रका-  
शितम् ॥ न देयं धनलुब्धेभ्यो न देयं देवनिन्दके ॥ ९ ॥ नास्तिके  
चैव दुर्वुद्धौ तथा चुम्बकवृत्तये ॥ १० ॥ ॥ ॐ इति श्रीरुद्रया-  
मले केदारकल्पे श्रीश्वरकार्तिकेयसंवादे अघोरमंत्रसाधनप्रकारे  
पंचयोगेन्द्रसाधनजीवन्मुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महापथे शिवदर्शने  
सदेहकैलासगमनं नाम प्रथमः पटलः ॥ १ ॥

पुत्र ! यह तुमसे महामार्गका विचार कहा अनित्य और सुखरहित इस लोकमें  
इस अभिप्रायको प्राप्त होकर मेरा भजन करो ॥ ८ ॥ हे पुत्र ! तुम्हारे स्नेहसे मैंने  
यह गुप्त बात प्रकाश की है । धनके लोभी देवनिन्दकको यह कभी न देना ॥ ९ ॥  
नास्तिक दुर्वुद्धि तथा चुम्बकवृत्तिवालेकोभी न देना ॥ १० ॥

इति श्रीरुद्रयामले केदारकल्पे भाषाटीकायां प्रथमः पटलः ॥ १ ॥

## द्वितीयः पटलः ।

॥ श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ ॐ अस्य श्रीअघोरमंत्रस्य अघोर ऋषिः  
बृहती छन्दः श्रीकालाग्निः रुद्रो देवता ह्रीं वीजं हुँ फट् स्वाहा  
शक्तिः अघोरप्रसादसिद्धयर्थे जपे विनियोगः ॥ इति संकल्पः ॥  
अथ षडङ्गन्यासः ॥ ॐ ह्राँ अंगुष्ठाभ्यां नमः ॥ ॐ ह्रीं तर्जनी-  
भ्यां नमः ॥ ॐ ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः ॥ ॐ ह्रँ अनामिकाभ्यां  
नमः ॥ ॐ ह्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॥ ॐ ह्रः करतलकरपृ-  
ष्ठाभ्यां नमः ॥ इति षडङ्गन्यासः ॥ अथ हृदयादिन्यासः ॥  
ॐ ह्राँ हृदयाय नमः ॥ ॐ ह्रीं शिरसे स्वाहा ॥ ॐ ह्रूं शिखायै  
वपट् ॥ ॐ ह्रँ कवचाय हुम् ॥ ॐ ह्रौं नेत्रत्रयाय वौपट् ॥ ॐ ह्रः

श्रीईश्वर बोले । इस अघोर मंत्रका अघोर ऋषि बृहती छन्द कालाग्नि रुद्रदे-  
वता ह्रींवीज हुँफट्स्वाहाशक्ति अघोरप्रसाद सिद्धिके निमित्त जपमें विनियोगहै  
ऐसा संकल्पकरके षडङ्गन्यास मूलके अनुसार करे । फिर हृदयादिन्यास करे ।  
अथ ध्यान । कैलासके ऊपर स्थित चन्द्रकलासे स्फुरापमान जटामंडलसे संयुक्त

अस्त्राय फट् ॥ इति हृदयादिन्यासः ॥ अथ ध्यानम् ॥ ॐ कैला-  
 सासनमीश्वरं शशिकलास्फूर्जजटामंडलं नासालोकनतत्परं  
 त्रिनयनं वीरासनाध्याश्रितम् ॥ मुद्राटंककरं च जानुविलसद्वीरी  
 प्रसन्नाननं कक्षावद्धभुजंगमं मुनिवृतं वन्दे महेशं परम् ॥ १ ॥  
 इति ध्यानम् ॥ अथ जपमंत्रः ॥ ॐ क्रौं हुं फट् स्वाहा ॥  
 अथ जपसमर्पणम् ॥ ॐ गुह्याद्गुह्यतरं गुह्यं गृहाणास्मत्कृतं  
 जपम् ॥ सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादान्महेश्वर ॥ २ ॥ अनेन  
 जपेन एतावत्संख्याकेन श्री अघोररूपो रुद्रः प्रीयताम् ॥ इति  
 जपसमर्पणम् ॥ अथ स्तोत्रं पठेत् ॥ श्रीश्वर उवाच ॥ ॐ नमः  
 कामाय रुद्राय नमो मोक्षवपुर्भूते ॥ नमो नादात्मने तुभ्यं नमो  
 विन्दुकलात्मने ॥ ३ ॥ नमोऽस्तु लिंगरूपाय लिंगातीताय ते  
 नमः ॥ त्वं माता सर्वलोकान त्वमेव जगतः पिता ॥ ४ ॥ त्वं  
 भ्राता त्वं सुहृन्मित्रं त्वं प्रियस्त्वं पितामहः ॥ नमस्ते भगवन्रुद्र  
 भास्करामिततेजसे ॥ ५ ॥ नमो भवाय रुद्राय परमांबुमयाय  
 च ॥ शर्वाय शितिरूपाय सदा सुरभिणे नमः ॥ ६ ॥ पशूनां  
 पतये चैव पावकामिततेजसे ॥ अतिभीमाय सौम्याय अमृताय

योगसमाधिमें नासिकाको अवलोकन करते हुए तीननेत्र वीरासनपर स्थित मुद्रा-  
 टंक करमें जानुसे शोभित पार्वतीसे प्रसन्नमुख, कक्षामें भुजंग बांधेहुए मुनिव्रतधारी  
 महेश्वरको नमस्कार करताहूँ ॥ १ ॥ इति ध्यानम् । जपका मंत्र । ॐ हुं फट् स्वाहा ।  
 जपका समर्पण कहते हैं। गुप्तसेमो गुप्त यह मेरा जप आप स्वीकार करें । हे देव महेश्वर !  
 आपके प्रसादसे मुझको सिद्धिहो ॥ २ ॥ इस इतनी संख्याके जपसे श्री अघोर  
 रुद्र मुझसे प्रसन्नहो इति जपसमर्पण । अथ स्तोत्रपाठ । ईश्वर बोलेकामरूप रुद्र  
 मोक्षरूपी शरीरधारी नाद आत्मा विन्दुकलायुक्त शंकरको नमस्कार है ॥ ३ ॥  
 लिंगरूप लिंगसे रहित आपके निमित्त नमस्कारहै। तुमही सबलोककी माता और  
 जगतके पिताहो ॥ ४ ॥ तुमही भाई तुमही सुहृद तुमही मित्र तुमही प्रिय और  
 तुमही पितामह हो ॥ ५ ॥ भयं रुद्र परम अम्बुमय शर्व शितिकंठ सुरभीरूप आ-  
 पका नमस्कार है ॥ ६ ॥ पशुपति पावक अमिततेजस्वी, अतिभीम, अतिसौम्य

नमोनमः ॥ ७ ॥ उग्राय यजमानाय नमस्ते कर्मयोगिने ॥  
 पार्थिवानां तु लिंगानां यन्मया पूजनं कृतम् ॥ ८ ॥ तेन मे  
 भगवान् रुद्रो वाञ्छितार्थं प्रयच्छतु ॥ इदं स्तोत्रं पठेद्यस्तु पूजाकाले  
 विधानतः ॥ ९ ॥ चक्रवर्ती भवेद्राजा सोऽन्ते शिवपुरं व्रजेत् ॥  
 ॥ १० ॥ इति श्रीरुद्रयामले केदारकल्पे ईश्वरकार्तिकेयसंवादे  
 पंचयोगेन्द्रसाधनजीवन्मुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महापथे शिवदर्शने  
 सदेहकैलासगमने सदाशिवाघोरस्तोत्रं नाम द्वितीयः  
 पटलः ॥ २ ॥

दर्शन, अमृतरूप आपको नमस्कार है ॥ ७ ॥ उग्र, यजमान कर्मयोगी आपको नमस्कार है। पार्थिवलिंगोंका जो मैंने पूजन किया है ॥ ८ ॥ उससे भगवान् रुद्र मुझे मन वांछित फलप्रदान करें। पूजाके समय विधानसे जो कोई इस स्तोत्रको पढ़ता है ॥ ९ ॥ वह चक्रवर्ती राजा होकर अन्तमें शिवजीके लोकको जाता है ॥ १० ॥

इति श्रीरुद्रयामले केदारकल्पे भाषाटीकाया शिवाघोरस्तोत्रवर्णनं नाम द्वितीयः पटलः ॥ २ ॥

## तृतीयः पटलः ।

॥ श्रीश्वर उवाच ॥ ॐ अस्य श्रीसदाशिवकवचस्य भृगु ऋषिः  
 अनुष्टुप्छंदः श्रीसदाशिवो देवता कैलासप्राप्त्यर्थं जपे विनियोगः  
 ॥ इति संकल्पः ॥ अथ कवचम् ॥ ॐ शिवो मेऽग्रतः पातु  
 शंभुर्वं पातु पृथतः ॥ त्रिपुरारिर्वाामपार्श्वे दक्षिणे मदनान्तकः ॥  
 ॥ १ ॥ ॐ ऊर्ध्वं पातु विशालाक्षो ह्यधः कनकपिंगलः ॥ पार्व्व-  
 तीवल्लभो जानू जंघे पश्चीश्वरः प्रभुः ॥ २ ॥ पादौ मे पातु

श्रीश्वर बोले । इस श्रीसदाशिवकवचका भृगु ऋषि अनुष्टुप्छन्द । सदाशिव-  
 देवता । कैलास प्राप्तिके अर्थ जपमें विनियोग है ऐसा संकल्पकरके कवच पठे ।  
 ॐ आगे शिव मेरी रक्षा करें । पीठकी ओरसे शंभु रक्षा करें। बाई ओर त्रिपुरारी  
 दक्षिण ओरसे मदनान्तक मेरी रक्षा करें ॥ १ ॥ विशालाक्ष ऊपरकी ओरसे  
 नीचेसे कनकपिंगल, जानुकी पार्वतीवल्लभ, जाँघोंकी पश्चीश्वर प्रभु रक्षा करें ॥ २ ॥  
 सर्वेश मेरे दोनों चरणोंकी, कालाग्नि रक्षक दोनों हाथोंकी। सर्वज्ञ मेरे शिरकी, देव-

सर्वेशः करौ कालाग्निरक्षकः ॥ शीर्षं मे पातु सर्वज्ञः कर्णौ देवेश्वरः सदा ॥३॥ गुह्यं गुह्येश्वरः पातु हृदयं हृदयेश्वरः ॥ सर्वाङ्गं सर्वदेवेशः कामिनीवल्लभः कटिम् ॥ ४ ॥ यदिदं कवचं वश्यं देवानामपि दुर्लभम् ॥ एतस्य पठनादेव भूतप्रेतपिशाचकाः ॥५॥ न हि संति सदा सर्वे योगिन्योविघ्नकारकाः ॥ इदं कवचमज्ञात्वा यस्तु मंत्रं शिवात्मकम् ॥ अघोरं जपतेऽवश्यं तस्य विघ्नः पदेपदे द्रुतस्मात्सर्वप्रयत्नेन यदीच्छेदात्मनो हितम् ॥ विज्ञाय कवचं पूर्वं एश्चाज्जपमुपाचरेत् ॥७॥ इति श्रीकेदारकल्पे रुद्रयामलतंत्रे ईश्वरकार्तिकेयसंवादे पंचयोगेन्द्रसाधनजीवन्मुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महापथे शिवदर्शने सदैहकैलासगमने अघोरकवचं नाम तृतीयः पटलः ॥३॥

श्वर सदा कानोंकी रक्षा करें ॥ ३ ॥ गुह्येश्वर मेरे गुह्यस्थानकी सदा रक्षा करें । सब देवताओंके ईश्वर मेरे सर्वाङ्गकी रक्षा करें । कामिनीवल्लभ मेरे कमरकी रक्षा करें ॥४॥ जो जितेन्द्रिय होकर देवताओंकोभी दुर्लभ इस कवचका पाठ करतेहैं तो इसके पाठसे भूत प्रेत पिशाच ॥ ५ ॥ तथा योगिनी आदि कोई विघ्न नहीं करसकतेहैं । इस कवचको बिना जाने जो शिवात्मक मंत्रको ॥ ६ ॥ अघोरसंज्ञक शिवात्मक मंत्रको जपतेहैं तो उनको पदपदमें विघ्न होताहै, इससे सब प्रयत्नोंसे अपना हित साधनकरें ॥ ७ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे रुद्रयामले शिवकवचवर्णनं नाम तृतीयः पटलः ॥ ३ ॥

## चतुर्थः पटलः ।

॥ अथ पार्थिवपूजाविधिः ॥ श्रीश्वर उवाच ॥ प्रथममासनमंत्रः ॥

ॐ. पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः कूर्मो देवता सुतलं छंदः

अथ पार्थिवपूजाविधि । ईश्वर बोले पहले आदिमें आसनमंत्र हे विनियोग पढ़के पृथिवीति यह मंत्र पढ़े, हे पृथिवी तुमने लोक धारण किये हैं तुमको विष्णुने

आसनोपवेशे विनियोगः इति संकल्पः । पृथिव त्वया धृता  
लोका देवि त्वं विष्णुना धृता ॥ त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु  
चासनम् ॥ इति आसनमंत्रः ॥ ॐ अपसर्पतु ते भूता ये भूता  
भुवि संस्थिताः ॥ ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यंतु शिवाज्ञया ॥ २ ॥  
इति दिग्बंधः ॥ ॐ ह्रीं ह्राय नमः ॥ इति मृदाहरणम् ॥ ॐ ह्रीं  
ह्रीं महेश्वराय नमः ॥ इति संघटनम् ॥ ॐ ह्रीं शूलपाणये  
नमः ॥ इति स्थापनम् ॥ अथ ध्यानम् ॥ ध्याये नित्यं महेशं रजत-  
गिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीति-  
हस्तं प्रसन्नम् ॥ पद्मासीनं समंतात्स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं  
विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॥ १ ॥  
इति ध्यानम् ॥ कैलासं ध्यात्वा ॥ वामनासापुटे अंजलिं समा-  
नीय पुष्पं क्षिपेत् ॥ ॐ पिनाकधृग्यावत्त्वां पूजयामि तावत्त्वं  
स्थिरो भव ॥ ॐ महादेवस्य प्राणाः, वाक्, मनः, सर्वेन्द्रियाणि,  
जीव, इह स्थिताः ॥ ॐ आर्द्धींक्रों हंसः त्वक्चक्षुःश्रोत्रघ्राणा इहागत्य  
सुखं चिरं तिष्ठंतु स्वाहा ॥ इति प्राणप्रतिष्ठा ॥ ॐ पिनाकधृक्

धारण किया है, हे देवि ! तुम मुझको धारण करके आसनको पवित्र करो ॥ १ ॥  
इति आसनम् । अब दिग्बंध कहते हैं । अपसर्पन्तिविति । जो प्राणी इस स्थानपर हैं वे  
यहांसे चले जायें और जो प्राणी विघ्नकरनेवाले हैं वे शिवकी आज्ञासे नष्ट हों । इति  
दिग्बंधः । ॐ ह्रीं ह्राय नमः । इससे मट्टी लावै । ॐ ह्रीं ह्रीं महेश्वराय नमः । इससे  
संघट्ट करै । ॐ ह्रीं ह्रीं शूलपाणये नमः । इससे प्रतिष्ठा स्थापन करै ।  
अथ ध्यान-जो महेश रजतगिरिके सदृश, चारुचन्द्रभूषणवाले, रत्नभूषणकी  
सदृश उज्ज्वलांगयुक्त, हस्तमें परशु, मृग, अभय और वर धारण किये प्रसन्न  
रूप, पद्मासनपर बैठे हुये, सभी दिशाओंसे अमरगणोंसे स्तुत, व्याघ्राम्बर पहने-  
हुये, विश्वके आद्य, विश्वबीज, समस्त भयहरण करनेवाले हैं मैं उनको ध्यानगो-  
चर करता हूँ ॥ इति ध्यानम् ॥ कैलासका ध्यान करै । वामनासापुंटेसे ध्यान करै ।  
फिर पुष्प छोड़ै । और कहै हे पिनाकधारिन् जबतक तुम्हारी पूजा करूं जबतक  
तुम यहाँ स्थिर हो । महादेवके प्राण वाणी मन इन्द्रिय आत्मा सब इस मूर्तिमें  
स्थित हों । आर्द्धींक्रोंहंसः । यहमंत्र पढ़कर कहै । त्वचा चक्षुःश्रोत्र घ्राण सब यहाँ



इह सन्निहितो भव ॥ १ ॥ ॐ शिवाय नमः ॥ आवाहनम् ॥ २ ॥  
 ॐ शिवाय नमः ॥ आसनम् ॥ ३ ॥ ॐ शिवाय नमः पाद्यम्  
 ॥ ४ ॥ ॐ शिवाय नमः ॥ पादावनेजनम् ॥ ५ ॥ ॐ शिवाय नमः  
 अर्घ्यम् ॥ ६ ॥ ॐ शिवाय नमः ॥ मधुपर्कः ॥ ७ ॥ ॐ ह्यंर्द्धी  
 पशुपतये नमः स्नानम् ॥ ८ ॥ ॐ शिवाय नमः ॥ आचमनीयम्  
 ॥ ९ ॥ ॐ शिवाय नमः वस्त्रम् ॥ १० ॥ ॐ शिवाय नमः अलं  
 कारः ॥ ११ ॥ ॐ शिवाय नमः सुगंधः ॥ १२ ॥ ॐ ईशानाय  
 नमः दीपः ॥ अथावरण पूजा ॥ ॐ शर्वाय क्षितिमूर्त्तये नमः  
 ॥ १ ॥ ॐ भवाय जलमूर्त्तये नमः ॥ २ ॥ ॐ रुद्राय अग्निमू-  
 र्तये नमः ॥ ३ ॥ ॐ उत्राय वायुमूर्त्तये नमः ॥ ४ ॥ ॐ  
 भीमाय आकाशमूर्त्तये नमः ॥ ५ ॥ ॐ पशुपतये यजमानमू-  
 र्तये नमः ॥ ६ ॥ ॐ महादेवाय सोममूर्त्तये नमः ॥ ७ ॥ ॐ ईशा-  
 नाय सूर्यमूर्त्तये नमः ॥ ८ ॥ इति आवरणपूजा ॥ ॐ शिवाय  
 नमः ॥ श्रीखण्डचन्दनं समर्पयामि ॥ २१ ॥ ॐ शिवाय नमः  
 रक्तचन्दनं समर्पयामि ॥ २२ ॥ अक्षतं समर्पयामि ॥ २३ ॥ ॐ शिवाय  
 नमः पुष्पं समर्पयामि ॥ २४ ॥ ॐ शिवाय नमः अधीरगुलाले  
 समर्पयामि ॥ २५ ॥ ॐ शिवाय नमः धूपं समर्पयामि ॥ २६ ॥  
 ॐ शिवाय नमः दीपं समर्पयामि ॥ २७ ॥ ॐ शिवाय नमः ॥  
 नैवेद्यं समर्पयामि ॥ २८ ॥ ॐ शिवाय नमः फलताम्बूले सम-

आकर सुरसे चिरकालतक निवास करें । इति प्राणप्रतिष्ठा । हे पिनाकधारिन् तुम  
 यहाँ स्थित हो । ॐ शिवाय नमः । यह मंत्र पढ़कर आवाहन, आसन, पाद्य,  
 अवनेजन, दीप, मधुपर्क दे, ह्यंपशुपतये नमः । इससे स्नान करावै । शिवाय नमः  
 इससेही आचमन वस्त्र, अलंकार, गन्धसुगन्ध दे । फिर आवरणपूजा करै । शर्वाय  
 क्षितिमूर्त्तये नमः । इत्यादि आठ आवरण पूजाके मंत्रहैं इनकी पढ़े । इति आवरण  
 पूजा । फिर शिवाय नमः । यह मंत्र प्रत्येकवार पढ़के चन्दन, लालचन्दन, अक्षत,  
 पुष्प, अधीर, गुलाल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, ताम्बूल, आर्ति, नीराजन, प्रदक्षिणा

र्पयामि ॥२९॥ ॐ शिवाय नमः ॥ आरार्त्तिकं समर्पयामि ॥३०॥ ॐ  
 शिवाय नमः नीरांजनं समर्पयामि ॥३१॥ ॐ शिवाय नमः ॥  
 प्रदक्षिणं समर्पयामि ॥३१॥ ॐ शिवाय नमः ॥ ध्यानं स्तुस्तिपाठं  
 समर्पयामि ॥३३॥ ॐ शिवाय नमः ॥ अष्टोत्तरशतं मंत्रं जपेत् ॥  
 जपसमर्पणम् ॥ विसर्जनम् ॥ ३४ ॥ इति श्रीरुद्रयामले केदार-  
 कल्पे ईश्वरपार्वतीसंवादे पंचयोगेन्द्रसाधनजीवन्मुक्तये  
 परब्रह्मप्राप्तये महापथे शिवदर्शने सदेहकैलासगमने शिवाघोर-  
 पार्थिवपूजाघोरमंत्रसाधनप्रकारो नाम चतुर्थः पटलः ॥ ४ ॥

ध्यान, स्तुति, पाठ समर्पण करै यह ३३ मंत्रपूर्वक करै फिर जप समर्पणकर  
 विसर्जन करै ।

इति श्रीकेदारकल्पे ईश्वरपार्वतीसंवादे पूजाविधिर्गणनो नाम चतुर्थः पटलः ॥ ४ ॥

### पञ्चमः पटलः ।

श्रीश्वर उवाच ॥ ॐ शैलराजस्य पृष्ठे तु शृणु स्थानानि यानि वै ॥  
 अस्ति पुण्या महादेवी नदी वैतरणी शुभा ॥१॥ पितृणां तोय-  
 दानेन तृप्तिर्भवति पुष्कला ॥ तत्रापि परमं देवि पश्येद्द्रुद्रहिमाल-  
 यम् ॥ २ ॥ हिमालये तु चेदत्तं त्रुटिमात्रं हि कांचनम् ॥ तेन  
 दत्ता भवेत्सर्वा सप्तद्वीपा वसुंधरा ॥ ३ ॥ आत्मानं घातयेद्यस्तु  
 भृगुपृष्ठेषु मानवः ॥ इंद्रेण धारिते छत्रे रुद्रलोकं स गच्छति ॥४॥  
 गत्वा हिमालयं पुण्यं दृष्ट्वा माहेश्वरं पदम् ॥ वासात्संतारयेत्सद्यो

शिवजी बोले हे देवि ! हिमाचल पर्वतके षष्ठभागमें जितने स्थान हैं सो सुनो ।  
 तहां बड़ी शुभ पवित्र वैतरणी नदी है ॥ १ ॥ तहां जलदान करनेसे पितरों-  
 की सबप्रकार तृप्ति होती है । हे देवि ! और वहां बड़े हिमालय पर्वतका दर्शन  
 करै ॥ २ ॥ उस हिमालय पर्वतपर त्रुटिमात्रभी सोना दान करै तो मानो  
 उसने सातद्वीपवाली भूमिदानकी ॥ ३ ॥ जो मनुष्य पर्वतशिखरपरसे अपने  
 आपको नष्ट करै वह इन्द्रसे छत्रधारण कराता हुआ रुद्रलोकमें प्राप्त होता है ॥४॥  
 और पवित्र हिमालयको प्राप्त हो शिवजीके चरणारविन्दोंके दर्शनकर शीघ्र दश-

पूर्वान्दशापरान् ॥ ५ ॥ द्वितीयं मध्यमं स्थानं तत्र मध्ये  
 कृतं मया ॥ तत्र या स्यान्नदी पूज्या महापुण्या सरस्वती ॥ ६ ॥  
 तत्तुंगे सा प्रणष्टापि प्रभाते तु प्रकाशिता ॥ सरस्वती महाध्वाना  
 देवगन्धर्वसेविता ॥ ७ ॥ मध्यमं चोदकं पीत्वा गणो भवति  
 मध्यमः ॥ ब्रह्मसत्रं समासाद्य सर्वपापप्रणाशनम् ॥ ८ ॥ श्रीदेव्यु-  
 वाच ॥ मनुष्याणां हितार्थाय मया पृष्टो महेश्वर ॥ तन्मे कथय  
 देवेश यत्रैव संशयो महान् ॥ ९ ॥ स्वभावात्परमं धाम यथा  
 पुण्यमहं प्रभो ॥ श्रान्तुमिच्छामि तत्त्वेन युष्मद्वक्राद्विनिर्गतम्  
 ॥ १० ॥ श्रीश्वर उवाच ॥ शृणु देवि यथातथ्यं तीर्थसद्भाव-  
 मुत्तमम् ॥ यदहं संप्रवक्ष्यामि निखिलं तन्निवोध मे ॥ ११ ॥  
 तृतीयं तत्परं स्थानं केदारं चेति विश्रुतम् ॥ मच्छरीराद्विनिष्क्रान्तं  
 शुक्रार्यं पानमुत्तमम् ॥ १२ ॥ केदारमुदकं देवि ये पिबन्ति  
 महाजनाः ॥ मम तुल्यबलाः सर्वे सर्वे स्वच्छन्दगामिनः ॥ १३ ॥  
 त्रिशूलांकितहस्ताश्च सर्वे वै शूलपाणयः ॥ त्रिनेत्राश्च  
 पीढी पिछले और दश पीढी अगले वंशको तारताहै ॥ ५ ॥ और दूसरा  
 मध्यमस्थान मने उस पर्वतके मध्यमें कियाहै, तहां बड़ी पवित्र सरस्वती नदी  
 पृजनीयहै ॥ ६ ॥ उस ऊर्ध्वभूमिमें वह सरस्वती नदी नष्ट हुईभी प्रातःकाल प्रका-  
 शित होती है और देवता गन्धर्वोंसे सेवितहै, उसके ध्यान करनेसे ॥ ७ ॥ तथा  
 बीचमेंसे जलपान करै तो मध्यमगण होताहै, और सम्पूर्ण पापनाशक यज्ञोपवी-  
 तको धारण करै ॥ ८ ॥ देवी बोली है महेश्वर ! मनुष्योंके हितकी कामनासे  
 मैंने पूछा है। हे देवि ! जहां २ मुझे संशय है सो मुझसे कहो ॥ ९ ॥ हे  
 प्रभो ! जिस प्रकार यह परमधाम पवित्रहै सो विधिपूर्वक आपके सुखसे सुनना  
 चाहती हूँ ॥ १० ॥ शिवजी बोले हे पार्वति ! इस उत्तम तीर्थकी श्रेष्ठ महिमाको  
 ठीक २ श्रवण करो, जो मैं कहूंगा, सो सम्पूर्ण मुझसे सुनो ॥ ११ ॥ उससे  
 आगे केदारनामक स्थानहै, वह मेरे शरीरसे निकला शुक है और पान करने  
 योग्यहै ॥ १२ ॥ हे देवि ! जो महापुरुष केदारके उदक ( जल ) को पान करते  
 हैं वे मेरे समान पराक्रमी हो सब स्वेच्छान्वारी होते हैं ॥ १३ ॥ जिनके हाथोंमें  
 त्रिशूल चिह्नितहै, और त्रिशूल हाथमें लिये तीन नेत्रवाले सब गण मेरी भक्ति-

गणा भक्त्या सर्वेऽपि मत्पराक्रमाः ॥ १४ ॥ मन्दाकि-  
न्यां नरः स्नात्वा चार्चयित्वा वृषध्वजम् ॥ गणाधिपत्वं  
लब्ध्वा च कुलानामुद्धरेच्छतम् ॥ १५ ॥ तत्र मन्दाकिनी पुण्या  
नदीनामुत्तमा नदी ॥ द्रावयेत्सर्वपापानि स्तुता भवतु वा.नता  
॥ १६ ॥ तस्यां स्वर्गाद्द्युतायां तु शुचिस्नातो हि मानवः ॥ यः  
पिवेत्तत्र देवेशि वामहस्तेन वै जलम् ॥ १७ ॥ अंकितः स्यात्त्रिशू-  
लेन ललाटे नयनेन च ॥ गणो हि च समस्तस्तु पुनर्नावर्तको  
भवेत् ॥ १८ ॥ सर्वधर्मपरां प्राप्य सत्यं तु लभते गतिम् ॥ गण-  
पत्वमवाप्नोति यत्र तत्र मृतो नरः ॥ १९ ॥ तस्यास्तोयं शरीरस्थं  
मम लिंगाद्भिनिःसृतम् ॥ मृतो यत्र गतो वापि स्कंदस्य सदृशो  
भवेत् ॥ २० ॥ जन्मांतरसहस्रैस्तु बहुभिः शोधितो नरः ॥ ततो  
याति परं स्थानं केदारं तीर्थमुत्तमम् ॥ २१ ॥ केदारं प्रस्थि-  
तो देवि सर्वथ प्रियते नरः ॥ सोऽपि सर्वो गणो मह्यं भवत्यमरते-  
जसा ॥ २२ ॥ भस्मनो धारणं नित्यं शिवमंत्रः प्रदक्षिणम् ॥ केदारो-

करनेसे मेरे समान पराक्रमी होते हैं ॥ १४ ॥ मनुष्य मन्दाकिनी नदीमें स्नानकरके  
शिवजीको पूजकर उत्तम गणताको प्राप्त होके सौ कुलोंको उद्धार करता है ॥ १५ ॥  
वहां बड़ी पवित्र नदियोंमें श्रेष्ठ मन्दाकिनी गंगाकी अनेक प्रकारकी स्तु-  
तियोंसे ध्यान करै तो संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं ॥ १६ ॥ स्वर्गसे गिरती हुई उस  
नदीमें स्नानकर पवित्र हो, जो पुरुष वॉएँ हायसे, जल पीवै ॥ १७ ॥ वह  
त्रिशूलसे तथा मस्तकंपर नेत्रसे चिह्नित होवै उसको शिवका गण होना होता है ।  
और वह फिर जन्म धारण नहीं करता ॥ १८ ॥ वह परमधर्मको प्राप्त हो  
सद्गति ( मुक्ति ) को प्राप्त होता है वह मनुष्य चाहे जहां मरै शिवजीका  
उत्तम गण होता है ॥ १९ ॥ मेरे लिङ्गसे निकला केदारका जल जिसके शरीरमें  
स्थितहो वह मनुष्य जहां कहीं भी मरजाय तो स्वामिकार्तिकेयकी समान होता है  
॥ २० ॥ अनेक सहस्रों जन्मोंसे शुद्ध हुआ मनुष्य उत्तम केदार तीर्थको प्राप्त  
होता है ॥ २१ ॥ हे देवि ! केदारतीर्थपर जो कौई भी मरजाय वे सब देवताके  
समान तेजस्वी मेरे गण होते हैं ॥ २२ ॥ नित्यविभूतिका शिवमन्त्र दक्षिणा  
सहित धारण करना; केदारमें जलपान करनेकी सोलहवीं कलाको भी

दकपानस्य कलां माहति षोडशीम् ॥२३॥ अनेकानि सहस्राणि  
 क्रतूनां सुविशेषतः ॥ कलौ कृत्वा गतिर्नेपा केदारेण तु या भवेत्  
 ॥ २४ ॥ दिव्यवर्षसहस्राणि तपस्तप्त्वा तु पुष्करे ॥ न लभ्यते  
 गतिर्मर्त्यैः केदारेण तु या भवेत् ॥२५॥ भूतं भव्यं भविष्यं च सर्व-  
 लोकस्य यद्भवेत् ॥ सर्वं विधिवदस्माकं तद्भवेत्तीर्थमीदृशम् ॥२६॥  
 कैदारमुदकं पीत्वा यत्र देशे प्रपद्यते ॥ सोऽपि देशो भवेत्पूज्यः  
 किं पुनस्तस्य वांधवाः ॥ २७ ॥ आत्मा वै पुत्रनाम्ना तु ब्राह्मणो  
 वेदवान्भवेत् ॥ अंकितास्तु त्रिशूलेन ते पूज्याः सर्वदैवतैः ॥२८॥  
 पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च ॥ केदारोदकपा-  
 नस्य कलां नाहति षोडशीम् ॥ २९ ॥ वसेदीशानमासाद्य हिम-  
 पूर्णमहागिरौ ॥ यावत्तत्क्रमते च्छाया दृष्टिमात्रं तथा पुनः ॥३०॥  
 अंते वा यदि वा मध्ये ये मृता हिमवद्गिरौ ॥ तावत्ते दिवि तिष्ठन्ति  
 यावदिन्द्राश्चतुर्दश ॥ ३१ ॥ आत्मानं घातयेद्यस्तु प्रत्यक्षं च  
 हुताशने ॥ न तां गतिमवाप्नोति केदारेण तु या भवेत् ॥ ३२ ॥

नहीं पहुंचता है ॥ २३ ॥ कलियुगमें अनेक सहस्रों यज्ञ विधिपूर्वक करके वह  
 गति नहीं प्राप्त होती है जो केदारतीर्थसे मिलती है ॥ २४ ॥ मनुष्य पुष्करमें  
 दिव्यसहस्रवर्ष तप करके वैसी गति नहीं पाता है जैसी केदारके दर्शनसे मिलती  
 है ॥ २५ ॥ संसारमें भूत, भविष्य जो कुछ है वह मुझे विदित है ऐसा कोई उत्तम  
 तीर्थ नहीं है ॥ २६ ॥ केदारके जलको पीकर मनुष्य जिस देशमें चला जाय,  
 वह देशतक पूजनीय होता है फिर उसके वांधवोंकी क्या कहें ॥ २७ ॥ आत्मा पुत्र  
 नामसे प्रसिद्ध है ब्राह्मण वेदज्ञाता होवे यदि त्रिशूलसे अंकित हो तो विना वेदके  
 पढ़ेभी वह देवताके समान है ॥ २८ ॥ पृथ्वीपर जितने पुण्य तीर्थ और देवमंदिर  
 हैं वे सम्पूर्ण केदारमें जलपान करनेके सोलहवें भागकोभी नहीं पाते हैं ॥ २९ ॥  
 सुवर्णसे पूर्ण इस महापर्वतपर ईशानकी ओर जबतक छाया चली जाय ततनी दृष्टि  
 मात्रही नियास करे ॥ ३० ॥ हिमालय पर्वतपर अन्तमें वा मध्यमें जो पुरुष मरजाय  
 तो वे तबतक स्वर्गमें रहते हैं जबतक चीदह इंद्र रहते हैं ॥ ३१ ॥ जो मनुष्य प्रत्यक्ष  
 अपिमें अपनं आपकी गिराय नष्ट करे वहभी वैसी गतिको नहीं प्राप्त होता  
 जैसी केदारतीर्थसे मिलती है ॥ ३२ ॥ केदारके जलको एकवार पीकर तथा

सकृत्पीत्वा तु कैदारं वाराणस्यां सकृद्गतौ ॥ ब्रह्मविद्यां सकृज्जह्वां  
 न भवेत्पुनरालये ॥ ३३ ॥ विपमं दुर्गमं घोरं प्रविश्य हिमव-  
 द्गिरौ ॥ केदारस्योदकं पीत्वा मृतेनापि न शोच्यते ॥ ३४ ॥  
 सकृत्पीत्वा तु कैदारं मम तुल्यबलो भवेत् ॥ अदृश्यः सर्वभू-  
 तानां विचरेच्च यदृच्छया ॥ ३५ ॥ दिव्यान्तरिक्षपातालं यत्र  
 यत्र यथेच्छति ॥ मम देवि प्रसादेन क्रीडते कामरूपधृक् ॥ ३६ ॥  
 केदारस्य कथां दिव्यां पवित्रां पापनाशिनीम् ॥ ये स्मरन्ति  
 सदा भक्त्या ते चैव दिव्यदेवताः ॥ ३७ ॥ यावत्प्रधानात्पुरुषो  
 यावच्चाहं महेश्वरः ॥ मम देहस्वरूपेण यत्राहं तत्र ते मृताः ॥  
 ॥ ३८ ॥ एतच्च परमं गुह्यं तव देवि ह्युदाहृतम् ॥ यस्तु धारयते  
 नित्यं यश्चैव शृणुयान्नरः ॥ ३९ ॥ मुच्यते सर्वपापेभ्यो रुद्र-  
 लोकं स गच्छति ॥ ४० ॥

इति श्रीरुद्रयामलये केदारकल्पे श्रीश्वरदेवीसंवादे पंचयोगेन्द्रे  
 च्छासिद्धिजीवन्मुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महापथे शिवदर्शने सदेहकै-  
 लासगमनं नाम पंचमः पटलः ॥ ५ ॥

एकवार काशीमें जाके और एकवार ब्रह्मविद्या (अध्यात्मविद्या) को जपकर  
 फिर जन्म नहीं होता है ॥ ३३ ॥ कठिन तथा घोर दुर्गम प्रकारसे हिमालय पर्व-  
 तपर जाकर केदारके जलको पीकर मरकेभी नहीं शोकको प्राप्त होता है ॥ ३४ ॥  
 एकवार केदारके उदक (जल)को पीकर मेरे समान बली होता है सब प्राणियोंमें  
 अदृष्ट होकर अपनी इच्छासे भ्रमण करता है ॥ ३५ ॥ हे देवि ! स्वर्ग, अन्तरिक्ष  
 तथा पाताल लोकको वा जहां कहींभी वह जाना चाहता है मेरे प्रसादसे इच्छा-  
 चारी हो विचरता है ॥ ३६ ॥ जो मनुष्य केदारमाहात्म्यकी दिव्य पवित्रपापना-  
 शक कथाको भक्तिपूर्वक स्मरण करते हैं, वह दिव्यदेवता हैं ॥ ३७ ॥ जबतक  
 प्रधान पुरुष हैं । जबतक मैं महेश्वर हूँ, मेरे भक्त मरके मेरे स्वरूपमें हो जहां  
 मैं हूँ तहांही प्राप्त होते हैं ॥ ३८ ॥ हे देवि ! यह परम गोपनीय वार्ता तुमसे  
 कही, जो मनुष्य इसको नित्य सुनै अथवा धारण करे ॥ ३९ ॥ वह संपूर्ण पापोंसे  
 दूटता है और शिवलोकको प्राप्त होता है ॥ ४० ॥

इति श्रीकेदारकल्पे शिवपार्वतीसंवादे भाषाटीकाया पंचमः पटलः ॥ ५ ॥

## पृष्ठः पटलः ।

देव्युवाच ॥ ॐ क्षेत्राणां परमं क्षेत्रं तीर्थानां चैव यत्स्मृतम् ॥  
 प्रमाणं तस्य क्षेत्रस्य श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ १ ॥ श्रीश्वर  
 उवाच ॥ दक्षिणोत्तरतश्चैव पंचयोजनमायतः ॥ पूर्वपश्चिमतश्चैव यो-  
 जनत्रयमायतः ॥ २ ॥ तस्मिंस्तु पर्वते देवा ऋषयश्च तपोधनाः ॥  
 क्षेत्रस्य बाह्यतः सर्वे तपः कुर्वन्ति पुंगवाः ॥ ३ ॥ सिद्धगंधर्वयक्षाश्च  
 किन्नराद्यप्सरोगणाः ॥ केदारकाक्षिणः सर्वे समाराधनतत्पराः ॥ ४ ॥  
 न लभन्ते सुरा देवा ये चान्ये दिव्यजातयः ॥ यस्यैस्तु राक्षितं स्थानं  
 नन्दिस्कन्दपुरोगमैः ॥ ५ ॥ विनायको महाकाल ईशानश्च महा-  
 बलः ॥ जया च विजया चैव मोहिनी स्तंभिनी तथा ॥ ६ ॥  
 मम रूपधराः सर्वे क्षेत्रं रक्षन्ति सर्वदा ॥ पष्टिकोटिगणानां च क्षेत्र-  
 पालाः प्रकीर्तिताः ॥ ७ ॥ नदी चैव महाकालः सततं क्षेत्ररक्षकौ ॥  
 अहं तत्र स्थितो देवि त्वया सह वरानने ॥ ८ ॥ दृष्ट्वार्यै चैव केदारं  
 देवानामपि दुर्लभम् ॥ क्षेत्राणां परमं क्षेत्रं तीर्थानां तीर्थमुत्तमम्  
 ॥ ९ ॥ तत्र स्नात्वा दिवं यांति मुक्ताः संसारबंधनात् ॥ अक्षयाः

पार्वती बोली, क्षेत्रोंमें बड़ा क्षेत्र तीर्थोंमें उत्तमतीर्थ कहाँ है ? तथा उसक्षेत्रके  
 प्रमाणको सुननेकी इच्छाहै ॥ १ ॥ शिवजी बोले केदारक्षेत्र दक्षिण और उत्तरसे  
 पांचयोजन विस्तृत है, और पूर्वपश्चिमसे तीनयोजन विस्तृत है ॥ २ ॥ उस पर्व-  
 तपर तपस्वी, देवता और ऋषि, रहतेहैं और क्षेत्रके बाहरभी तप करतेहैं ॥ ३ ॥  
 और सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, किन्नरादिक तथा अप्सरायें संपूर्ण केदारकी इच्छा  
 करते हुए आराधनामें तत्परहैं ॥ ४ ॥ देवता और जो दिव्यजातिहैं वेभी केदा-  
 रको नहीं प्राप्त होते यह केदारस्थान स्कन्दआदि यक्षोंसे रक्षा किया हुआ है ॥ ५ ॥  
 विनायक, महाकाल, ईशान, महाबल और जया, विजया, तथा मोहिनी, और  
 स्तंभिनी, ॥ ६ ॥ भूरे स्वरूपको धारण किये सब निरंतर क्षेत्रकी रक्षा करतेहैं, और  
 साठकरोड क्षेत्रपालगण फहेंहैं ॥ ७ ॥ और नदी व महाकाल यहभी क्षेत्रकी  
 रक्षा करतेहैं हे देवि ! हे वरानने ! मैं तेरे साथ तहाँ स्थित हूँ ॥ ८ ॥ देवतोंकोभी  
 दुष्प्राप्य और दुर्लभ केदारक्षेत्र क्षेत्रोंमें उत्तम, तथा तीर्थोंमें श्रेष्ठ कहाँ है ॥ ९ ॥ वहाँ

परमाश्रैव मत्प्रसादाद्भवन्ति ते ॥ १० ॥ ब्रह्महत्याकृतश्चैव ये  
 चान्ये पापकारिणः। न पश्यन्त्यशुभं देवि शुद्धाश्चापि भवन्ति ते  
 ॥ ११ ॥ येषु येषु च काव्येषु यांति मामपि सुव्रते ॥ तेषु तेषु च  
 योगेषु जायन्ते मत्प्रसादतः ॥ १२ ॥ तावत्ते बहवो वर्णाः सर्वे  
 केदारकांक्षिणः ॥ केदारं चैव संप्राप्ताः सर्वे वर्णा द्विजातयः  
 ॥ १३ ॥ रश्मिभिर्मम संस्पृष्टा अवज्ञातास्तु ये नराः ॥  
 तत्र यांति परं देवि पूर्वं शतास्तु ते मया ॥ १४ ॥  
 पूर्वशतास्तु ये देवि ते भवन्ति गणेश्वराः ॥ तेषां च निर्मितं  
 देवि केदारोदकमुत्तमम् ॥ १५ ॥ तेन पीतेन मुच्यन्ते जन्मसं-  
 सारबंधनात् ॥ त्रिनेत्राः शूलहस्ताश्च शशांककितमूर्द्धजाः ॥ १६ ॥  
 व्याघ्रचर्मवराः सर्वे मम पुत्रा महाबलाः ॥ मम वीर्यसमुत्पन्ना सव  
 ते मत्पराक्रमाः ॥ १७ ॥ ये पिबन्ति नराः सर्वे ते भवन्ति गणेश्वराः ॥  
 गाणपत्ये तु केदारे तेन तीर्थं तदुत्तमम् ॥ १८ ॥ न तेन सदृशं  
 पुण्यं त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥ पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्या-

जान करके संसारबंधनसे छूटकर स्वर्गलोकको सिधारतेहैं, और वे मेरे  
 प्रतापसे अक्षय और बडे होतेहैं ॥ १० ॥ हेदेवि ! जो पुरुष ब्रह्महत्याके तया  
 किसी पापके करनेवालेहों उनके पाप नष्ट होकरके वे शुद्ध होतेहैं ॥ ११ ॥ हे  
 सुव्रते ! जिन २ कामोंके अर्थ मुझको प्राप्त होतेहैं उन २ कामोंमें मेरे प्रतापसे  
 सिद्धि होतीहै ॥ १२ ॥ तभीतक ब्राह्मणादि अनेक वर्णहैं जबतक केदारको  
 अभिलाषा नहीं करते, और केदारतीर्थपर प्राप्त हुए संपूर्णवर्ण द्विजाति होतेहैं  
 ॥ १३ ॥ मेरी कान्तिसे स्पर्श किये जो मनुष्य स्पर्शवाले होतेहैं हे देवि ! उनमेंसे पहले  
 सात मुझे प्राप्त होतेहैं ॥ १४ ॥ हे देवि ! पहले सात गणेश्वर होते हैं उनके  
 निमित्त उत्तम केदार का जल है ॥ १५ ॥ उसके पान करनेसे जन्म संसार बंधनसे  
 छूटते हैं जो तीन नेत्रवाले त्रिशूल हाथमें लिये मस्तकपर चन्द्रमासे चिह्नित हैं  
 ॥ १६ ॥ व्याघ्रकी साल धारण किये वे, सब मेरे पुत्रहैं और मेरे वीर्यसे उत्पन्न हैं  
 वे मेरे समान पराक्रमी होतेहैं ॥ १७ ॥ जो मनुष्य केदारके जलको पीतेहैं वे सब  
 गणोंके स्वामी होतेहैं गाणपत्य केदारमें यह उत्तम तीर्थ है ॥ १८ ॥ उसकी  
 समान पुण्यतीर्थ तीनों लोकमें नहीं है पृथ्वीपर जितने पुण्यतीर्थ और देवस्थान



यतनानि च ॥ १९ ॥ केदारस्य तु तोयस्य कलां नाहति षोड-  
 शीम् ॥ इष्टक्षेत्रं समासाद्य चैकरात्रिं वसेत्तु यः ॥ २० ॥ वासस्तस्य  
 भवेद्देवि नित्यकालं शिवालये ॥ मंदाकिन्यां नरः स्नात्वा पितृ-  
 पुण्योदकं ददत् ॥ २१ ॥ तारितास्तेन ते चैव कुलान्येकोत्तरं  
 शतम् ॥ इदं क्षेत्रं परं देवि देवानामपि दुर्लभम् ॥ २२ ॥ दृष्ट्वा  
 पीतं जलं चात्र संसारभयभेदकम् ॥ येषु प्रदक्षिणं कुर्यात्तस्थानं  
 पुरुषोत्तमः ॥ २३ ॥ प्रदक्षिणा कृता तेन सप्तद्वीपा वसुंधरा ॥  
 यत्फलं सर्वतीर्थानां सर्वयज्ञेषु यत्फलम् ॥ २४ ॥ यत्फलं  
 लभ्यते यज्ञैः साश्वमेधैः सदक्षिणैः ॥ तत्फलं कोटिगुणितं लभते  
 नात्र संशयः ॥ २५ ॥ तप्तकांचनवर्णाभाः सर्वालंकारभूषिताः ॥  
 विचरन्ति गणा देवि सर्वभूतविमर्दकाः ॥ २६ ॥ ऋषीणां चैव  
 दैत्यानां यक्षगंधर्वरक्षसाम् ॥ ब्रह्मणां भूतसिंहानां ये च केचि-  
 द्विरोधकाः ॥ २७ ॥ इन्द्रो वा यदि वा ब्रह्मा विष्णुर्वापि प्रजा-  
 पतिः ॥ एतेषां चैव सर्वेषां स वध्यो नात्र संशयः ॥ २८ ॥

हं ॥ १९ ॥ केदारके उदक (जल)के सोलहवें भागकोभी नहीं प्राप्त होते जो मनुष्य  
 इस प्रिय केदारक्षेत्रको प्राप्त होकर एकरात्रिं टिके ॥ २० ॥ हे देवि ! उसका  
 निवास नित्य शिवालयमें होताहै, जो मनुष्य मंदाकिनी नदीमें स्नान करके  
 पितरोंको पवित्र जलदान करतेहैं ॥ २१ ॥ उन्होंने एकसौ एक कुलको तार दिया  
 हे देवि ! यह पवित्र क्षेत्रहै देवताओंकोभी दुर्लभहै ॥ २२ ॥ इस क्षेत्रके दर्शन  
 करके तथा यहाँ संसारके भयके नष्ट करनेवाले जलको पीवें तथा जो पुरुषोंमें  
 श्रेष्ठ उस स्थानकी प्रदक्षिणा करतेहैं ॥ २३ ॥ मानो उन्होंने सातद्वीपवाली  
 पृथिवीकी परिक्रमा की संपूर्ण तीर्थोंमें जो फलहै, और जो फल सब यज्ञोंमें है  
 ॥ २४ ॥ वह फल मनुष्योंकी यहाँ स्नानसे प्राप्त होताहै दक्षिणासहित अभ्येध करनेसे  
 जो फल मिलताहै उससे करोडगुना फल प्राप्त होताहै, इसमें कुछ संशय नहींहै  
 ॥ २५ ॥ हे मनुष्य तपे सुवर्णकी समान कान्तिवान् संपूर्ण आभूषणोंसे भूषित  
 गण होकर मय जीवोंको पराभव करते हुए विचरतेहैं ॥ २६ ॥ ऋषियोंके और  
 दैत्योंके यक्ष और राक्षस गंधर्व इनके अथ भूत सिंहके जो कोई विरोधी हूँ ॥ २७ ॥  
 इन्द्र हों या ब्रह्मा अथवा विष्णु वा प्रजापति इन सर्वोंका कोई विरोधी हो उसका

हे देवि मम भक्ताश्च मृताः केदारचितकाः ॥ ते पि सर्वे गणा मर्ह्यं  
भवन्त्येव न संशयः ॥ २९ ॥ एककालं द्विकालं वा त्रिकालं नित्य-  
मेव च ॥ ये स्मरन्ति च केदारं शिवभक्त्या जितेन्द्रियाः ॥ ३० ॥  
न तेषां विद्यते पापं सहस्रगुणितं फलम् ॥ यत्फलं लभते यज्ञैः  
साश्वमेधैः सदक्षिणैः ॥ ३१ ॥

इति श्रीरुद्रयामले केदारकल्पे श्रीश्वरदेवीसंवादे पंचयोगेन्द्रे-  
च्छासिद्धिजीवन्मुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महापथे शिवदर्शने  
सदेहकैलासगमनं नाम षष्ठः पटलः ॥ ६ ॥

वध होता है इसमें कुछ संशय नहीं है ॥ २९ ॥ एककाल वा दोनोकाल वा तीनों  
काल वा नित्य जो पुरुष केदारको शिवभक्तिसे जितेन्द्रिय होकर स्मरण करते हैं  
॥ ३० ॥ उनसे पाप कदापि नहीं होता है दक्षिणासहित अश्वमेध यज्ञोंसे जो फल  
मिलता है सो केदारतीर्थसे प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥

इति केदारकल्पे शिवपार्वतीसंवादे भापाटीकार्या षष्ठः पटलः ॥ ६ ॥

### सप्तमः पटलः ।

श्रीश्वर उवाच ॥ ॐ अतः परं प्रवक्ष्यामि केदारस्य तु यत्फलम् ॥  
मम वीर्यस्थितं देवि केदारं तीर्थमुत्तमम् ॥ १ ॥ तत्र गत्वा न  
शोचन्ति जन्मसंसारबंधनात् ॥ तीर्थगो दुर्गतिं देवि न लभ्येत  
कदाचन ॥ २ ॥ इदं तीर्थमिदं तीर्थं किं भ्रमन्ति च साधकाः ॥  
सकृत्पीत्वा तु केदारं भवेत्सुर्मम सन्निभाः ॥ ३ ॥ आहतास्ते च वै  
शुभ्रैर्ब्राह्मविष्णुमहेश्वरैः ॥ न तेषां पतनं चैव मम तुल्यान्विभा-

शिवजी वाले हे देवि ! इसके आगे केदारके फलको कहता हूँ यह उत्तम तीर्थ  
मेरे वीर्यसे स्थित हुआ है ॥ १ ॥ तहां (उदक) जल पीकर शोक नहीं प्राप्त होता जन्म  
संसार बंधनसे रहित होकर कदापि तीर्थज्ञाता बुरी गतिको नहीं प्राप्त होता है २ ॥  
यह तीर्थ है यह जानकर सिद्धलोग क्यों भ्रमण करते हैं ? केदारके जलको एक-  
बार पीकर मेरे समान होते हैं ॥ ३ ॥ ब्रह्म, विष्णु, महेश्वर, इन सबोंसे वह शुभ  
विमानोंमें बुलाया जाता है उन विमानोंसे पतन नहीं होता है, उस मनुष्यको मेरी

वयेत् ॥ १ ॥ तथैव मम भक्ता ये मत्कथारंजिताश्च ये ॥ कदारमुदकं  
पीत्वा न तेषां विद्यते भयम् ॥ ५ ॥ यथाहं सर्वलोकेषु पूज्य-  
मानः सुरासुरैः ॥ तथा तेपि विशालाक्षि पूज्यंते दिवि दैवतैः ॥ ६ ॥  
न जन्मान्येव दुःखानि बंधः कश्चिन्न जायते ॥ सततं तर्पिता  
देवि मम तोयेन पुत्रकाः ॥ ७ ॥ यथा स्कंदश्च नंदी च महा-  
कालो विनायकः ॥ तथा ते मम पुत्राश्च विचरन्ति न संशयः  
॥ ८ ॥ क्रीडन्ते सर्वदा देवि गणैः सार्धं वरानने ॥ कामरूपधरा  
ये ते वर्धते मम तेजसा ॥ ९ ॥ यत्राहं ते गणास्तत्र विचरन्ति  
न संशयः ॥ अहमेव वरारोहे गणैः परिवृतः सदा ॥ १० ॥  
तीर्थानां परमं तीर्थं गतीनां परमा गतिः ॥ ज्ञानिनां परमं ज्ञानं  
मोक्षाणां मोक्ष उत्तमः ॥ ११ ॥ अपूर्वं सर्वतीर्थानां मनसोऽ-  
भीष्टदायकम् ॥ क्षेत्रं तु परमं देवि केदारं तीर्थमुत्तमम् ॥ १२ ॥  
एकदापि जनो यस्मात्केदारोऽत्र विनिश्चितः ॥ तेन शोधित  
आत्मा वै कुलानां चोद्धृतं शतम् ॥ १३ ॥ कालंजरे महाकण

समान जाने ॥ ४ ॥ और मेरे भक्त जो मेरी कथोंमें मग्न हैं, केदारमें जलपान  
करके वे निर्भय होते हैं ॥ ५ ॥ जिसप्रकार मैं सब लोकोंमें सुर और असुरोंसे  
पूजित हूँ हे विशालाक्षि ! इसी प्रकार वे भक्त भी दिव्य देवताओंसे पूजे जाते हैं ॥ ६ ॥  
उसको जन्ममें दुःख और बंधन नहीं होते हे देवि ! वह पुत्र मेरे जलसे निरन्तर  
वृत्त किया जाता है ॥ ७ ॥ जैसे स्कंद और नंदी महाकाल और विनायक उसी  
प्रकार वे मेरे पुत्र सर्वत्र विचरते हैं इसमें कुछ संशय नहीं ॥ ८ ॥ हे वरानने ! वे  
कामरूप (इच्छानुकूलस्वरूप) धारण किये गणोंके साथ खेलते हैं और मेरे समान  
तेजस्वी हों घटते हैं ॥ ९ ॥ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँही वे गण विचरते हैं इसमें कुछ संशय  
नहीं मैं श्रेष्ठ नंदी वृषभपर चढा गणोंसे चारों ओर घिरा रहता हूँ ॥ १० ॥ तीर्थोंमें  
परमतीर्थ और गतियोंमें परम गति है और ज्ञानोंमें परमज्ञान है मोक्षोंमें परममोक्ष  
है ॥ ११ ॥ हे देवि ! समस्त तीर्थोंमें यह तीर्थ अपूर्व है मनकी कामनाका दायक है  
और क्षेत्रोंमें परमक्षेत्ररूप यह केदार उत्तम तीर्थ है ॥ १२ ॥ एक धारभी मनुष्य  
केदारमें निश्चित गमन करे तो उसने एकसाँ आठ छुलसहित अपनी आत्मा  
शुद्धी ॥ १३ ॥ कालिंजरमें महाकणपर तथा धाराणसाँपर शिवके मंदिरमें प्रत

वाराणस्यां हरालये ॥ अनाशेन मृतानां च यत्फलं परिकीर्तितम् ॥ १४ ॥ सर्वावस्थां गतस्यापि भुञ्जतो विषयानपि ॥ त्रिकालमश्रतो वापि केदारं तु फलप्रदम् ॥ १५ ॥ अन्यतीर्थसमायोगे यस्तु प्राणान्परित्यजेत् ॥ न तां गतिमवाप्नोति केदारेण तु या भवेत् ॥ १६ ॥ पंचाग्निन्धारयेन्नित्यमन्यक्षेत्रेषु मानवः ॥ स वामकरपानो वा गतिं प्राप्नोति चोत्तमाम् ॥ १७ ॥ इति श्रीरुद्रयामले केदारकल्पे ईश्वरदेवीसंवादे पंचयोगेन्द्रेच्छासिद्धिजीवन्मुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महापथे शिवदर्शने सदेहकैलासगमनं नाम सप्तमः पटलः ॥ ७ ॥

रखने अथवा मरनेसे जो फल कहाहै ॥ १४ ॥ संपूर्ण अवस्थामें प्राप्त हुए, वा विषयोंकोभी भोगते हुए तीनों कालमें, केदारतीर्थही महाफलदायी है ॥ १५ ॥ और तीर्थपर यदि प्राणोंको त्यागन करें तो उस गतिको नहीं प्राप्त होते जो केदारसेवनसे प्राप्त होतीहै ॥ १६ ॥ मनुष्य और क्षेत्रोंमें पंचाग्निको सेवन करें उससे भी उत्तमगति वामहाथसे जल पानकरनेसे यहां भक्ति प्राप्त करतेहैं १७ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे शिवपार्वतीसंवादे भाषाटीकायां सप्तमः पटलः ॥ ७ ॥

### अष्टमः पटलः ।

श्रीईश्वर उवाच ॥ ॐ अतः परं प्रवक्ष्यामि केदारस्य महत्फलम् ॥ सारात्सारं समुद्धृत्य क्षेत्रं यत्तत्कृतं मया ॥ १ ॥ देवतानां यथा मध्ये प्रधानत्वं वरानने ॥ त्रयोदशत्रयोमूर्तेर्महो-  
श्वानन्दवृत्तिषु ॥ २ ॥ सिद्धानां च क्षमा यद्ब्रह्मवर्णं भोजने यथा ॥ तद्भ्रत्सर्वेषु तीर्थेषु केदारोदकमुत्तमम् ॥ ३ ॥ धेनूनां

शिवजी बोले ! अब यहांसे आगे केदारतीर्थका बड़ा फल कहताहूँ सारमेंसे सार, निकालकर यह क्षेत्ररूप मैंने बनायाहै ॥ १ ॥ हे वरानने ! जैसे संपूर्ण देवताओंमेंसे मेरा अधिक होना कहाहै, उसीप्रकार सब तीर्थोंमें उत्तम केदार है ॥ २ ॥ जिस प्रकार स्वाभाविक, साधुओंमें क्षमाहै, और भोजनमें श्रेष्ठ लवणहै उसीप्रकार समस्त तीर्थोंमें केदारका जल उत्तमहै ॥ ३ ॥ जैसे

कामगौर्यद्रत्सर्वासामुत्तमोत्तमा ॥ सर्वरत्नेषु वै सारं कौस्तु-  
भस्तु यथोत्तमम् ॥ ४ ॥ तद्रत्सर्वेषु तीर्थेषु केदारं परिकीर्त्ति-  
तम् ॥ यस्य स्मरणमात्रेण मुच्यते भवबंधनात् ॥ ५ ॥ दक्ष-  
यज्ञे महाभागे त्वन्निमित्तेन ये पुरा ॥ पूर्वं शप्ता मया देवि ते भवन्ति  
गणेश्वराः ॥ ६ ॥ घृतं सारं यथा दध्नः पुष्पसारं यथा मधु ॥  
वेदानां सामवेदश्च यथा वै मुख्य उच्यते ॥ ७ ॥ संक्षेपेण मया  
प्रोक्तं केदारसलिलं तथा ॥ मुच्यते सर्वपापेभ्यो रुद्रलोकं स  
गच्छति ॥ ८ ॥

इति श्रीरुद्रयामले केदारकल्प ईश्वरदेवीसंवादे पंचयोगेन्द्रेच्छा-  
सिद्धिजीवन्मुक्तपरब्रह्मप्राप्तये मन्नापथे शिवदर्शने सदेहकैलास-  
गमनं नामाष्टमः पटलः ॥ ८ ॥

उत्तम कामधेनु और जैसे संपूर्ण रत्नोंमें कौस्तुभमणि सारहै ॥ ४ ॥ उनकेही  
समान समस्त तीर्थोंमें केदार उत्तमहै जिसके स्मरण मात्रसे संसारबंधनसे प्राणी  
छूटते हैं ॥ ५ ॥ हे महाभागे ! पूर्वकालमें तुम्हारे निमित्त जो दक्षके यज्ञमें थे, वे  
पहले सात गणेश्वर हुए ॥ ६ ॥ जैसे दधिसे घी सारहै और पुष्पोंका सार मधु  
(शहत) है और वेदोंमें सामवेद जैसे मुख्य कहाहै वैसे तीर्थोंमें केदारहै ॥ ७ ॥ सो  
संक्षेपसे मैंने वर्णन किया ऐसेही केदारका जलभी सारहै पानकर्ता पुरुष समस्त-  
पापोंसे छूटकर रुद्रलोकको प्राप्त होताहै ॥ ८ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे शिवपार्वतीसंवादे भाषाटीकायामष्टमः पटलः ॥ ८ ॥

## नवमः पटलः ।

श्रीदेव्युवाच ॥ ॐ अग्राह्नास्तु गृहे वापि यत्र तत्र गताश्च ये ॥  
ये मृता हिममुदिश्य श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ १ ॥ पर्वतो नैव  
दृष्टो यैर्नैव पीतं तु तज्जलम् ॥ तेषां गातः का देवेश ब्रूहि तत्त्वेन

पार्वती बोलती तीर्थकी कामनाकरता हुआ जो मनुष्य तीर्थमें न जाकर घरमें  
वा और कहीं उक्त देवताके उद्देशसे मरजाय तो उसकी गतिको विधिपूर्वक सुन-  
ना चाहतीहूँ ॥ १ ॥ हे देवेश ! जिन्होंने यह पर्वत नहीं देखा और उसका जल

शंकर ॥ २ ॥ श्रीश्वर उवाच ॥ शृणु देवि यथातत्त्वं केदारं  
तीर्थसुत्तमम् ॥ तत्र पीत्वा तु मुच्येत जन्मसंसारबंधनात् ॥ ३ ॥  
अप्राप्ता मां मृता ये च पथि देशान्तरे तथा ॥ ते भवन्ति गणा  
मह्यं मम लोके सुरेश्वरि ॥ ४ ॥ पर्वते क्षणमात्रेण सर्वपापक्षयो  
भवेत् ॥ पीतमात्रे जले देवि गणो भवति शूलभृत् ॥ ५ ॥  
अवध्यः कामरूपी च सर्वभूताभयप्रदः ॥ गच्छतीश्वरलोकेषु  
हेमकुंडलमंडितः ॥ ६ ॥ अन्यक्षेत्रेषु यत्पुण्यं केदारे तु न  
तादृशम् ॥ अध्वराणां सहस्रेषु विधिवद्विहितेषु च ॥ ७ ॥ न ल-  
भ्यते गतिर्मर्त्यैः केदारेण तु या भवेत् ॥ जन्मान्तरसहस्रेषु यत्फलं  
यज्ञयाजिनाम् ॥ ८ ॥ केदारोदकपानेन तत्फलं परिकीर्ति-  
तम् ॥ त्रिकालं परिभुंजानः क्रीडते त्रिदशैरपि ॥ ९ ॥ केदारोद-  
कपानेन ये भ्रमन्ति सुपंडिताः ॥ तेषां पुण्यफलं जन्म कृतार्थास्ते  
नरोत्तमाः ॥ १० ॥ विकर्माणि चरन्त्येव मम भक्तास्तु

नहीं पान किया है शिवजी ! उनकी क्यागति होगी ? सो तत्त्वपूर्वक कहो ॥ २ ॥  
शिवजी बोले हैं देवि ! केदारतीर्थ परमश्रेष्ठहै सो यथार्थसे सुनो तहां मनुष्य  
जलपान करके जन्म संसार बंधनसे छूटताहै ॥ ३ ॥ हे सुरेश्वरि ! जो पुरुष सुझे  
बिना प्राप्तहुएही मार्गमें तथा किसी देशमें मरजाँय वे मेरे लोकमें गण होतेहैं ॥ ४ ॥  
पर्वतके दर्शन मात्रसे समस्त पाप नाशको प्राप्त होतेहैं हेदेवि ! जलके पीतेही  
त्रिशूलको धारण करनेवाला गण होताहै ॥ ५ ॥ और वह अवध्य ( किसीसे न  
मारनेयोग्य) तथा इच्छानुकूलरूप धारण करनेवाला और समस्त जीवोंको भय-  
देनेवाला सुवर्णके कुंडलसे शोभित हो शिवलोकमें प्राप्त होताहै ॥ ६ ॥ और  
क्षेत्रोंमें जो पुण्य कहाहै वैसा न्यूनपुण्य केदारमें नहीं होता सहस्रों यज्ञ विधिपूर्वक  
करनेपर ॥ ७ ॥ मनुष्य वैसी गति नहीं पाता जैसी केदारतीर्थसे मिलतीहै सहस्र  
जन्मोंमें यज्ञ करनेवालोंको जो फल होताहै ॥ ८ ॥ वह फल केदारमें केवल जल-  
पान करनेसे मिलताहै, और तीनों काल देवताओंके सहित भोगोंको भोगताहै  
॥ ९ ॥ जो चतुर मनुष्य केदारके जलपान करनेके निमित्त भ्रमण करतेहैं  
उनका जन्म पुण्यके फलवालाहै और वे मनुष्य कृतकृत्य हैं ॥ १० ॥ जो मेरे

ये नराः ॥ यत्र तत्र गता वापि लभन्ते गणपालताम् ॥ ११ ॥  
 न केदारात्परं गुह्यं परं धामप्रदायकम् ॥ देवि दत्ताभयं यच्च मम  
 लिंगाद्विनिःसृतम् ॥ १२ ॥ ये पिबन्ति नरा भक्त्या मनः कृत्वा  
 सुयंत्रितम् ॥ तेषुपि गच्छन्ति वै मुक्तिं संसारभयबंधनात् ॥ १३ ॥  
 पीतमात्रेण देवेशि यथा मे वचनं भवेत् ॥ तथा तेषां विशालाक्षि  
 न भयं विद्यते क्वचित् ॥ १४ ॥ स्वच्छन्दगामिनो नित्यं  
 रमन्ते देवतैः प्रिये ॥ देवदानवभूतेषु पूजनीयाः समंततः ॥ १५ ॥  
 तीर्थमात्रमिदं गुह्यं तव देवि प्रकाशितम् ॥ अतः परं महातीर्थं न  
 भूतं न भविष्यति ॥ १६ ॥ यथैवेश्वरसो मध्ये दध्ने घृतमिवोद्धृतम् ॥  
 सर्वलोके हि श्रीर्यद्भक्तद्वत्केदारमुत्तमम् ॥ १७ ॥ तिलेषु च यथा  
 तैलं पुष्पेषु च यथा मधु ॥ तद्भक्तकेदारतीर्थं च सर्वसारसमुच्च-  
 यम् ॥ १८ ॥ मृतके मृतके चैव पाचितं पापकर्मणाम् ॥ रज-  
 स्वलादिभिः स्पृष्टं भोजनं परिवर्जयेत् ॥ १९ ॥ ये न रक्षन्ति

भक्तजन कुत्सित कर्मकरनेकी रक्षा करते हैं जहां कहीं प्राप्त होकर वे गणोंके  
 स्वामी होनेके फलवाले हैं ॥ ११ ॥ केदारसे अधिक गुप्तस्थान कोई नहीं है  
 प्राणियोंको अभय देनेवाला मेरे लिंगसे उत्पन्न हुआ केदारका जल ॥ १२ ॥  
 जो मनुष्य भक्तिसे सावधान चित्तहो पानकरते हैं वे, मुक्तिको प्राप्त होतेहैं और  
 संसार बंधनसे छूटतेहैं ॥ १३ ॥ हे देवेशि ! उदक पीनेही मात्रसे मेरे वचनके  
 अनुसार उनको कहींभी भय नहीं प्राप्त होता ॥ १४ ॥ हे प्रिये ! वे इच्छापूर्वक  
 गमन करते हुए देवताके साथ रमण करतेहैं, और देवता व राक्षसोंसे चारों  
 ओर सन्मानित होतेहैं ॥ १५ ॥ हे देवि ! यह तीर्थ परम गोपनीय तुमसे प्रका-  
 शित किया इससे अधिक कोई तीर्थ न हुआ और न होगा ॥ १६ ॥ जैसे इक्षु-  
 ( ईख ) के मध्यमें रस, दहीके मध्य घी, और जिसप्रकार सब संसारमें लक्ष्मी  
 उत्तमहै तिसप्रकार केदार उत्तम कहाहै ॥ १७ ॥ जिसप्रकार तिलोंके मध्य तेल  
 और पुष्पोंमें मधु तद्वत् यह केदार तीर्थोंका सारहै ॥ १८ ॥ मृतकमें और सुत-  
 कहीनेपर और पाप कर्ममें बनाया भोजन तथा रजस्वलास्त्री आदिसे स्पर्श किया  
 भोजन त्यागें ॥ १९ ॥ हे धरारोहे ! जो मनुष्य पापोंसे रक्षा नहीं करता वा सब

पापेभ्यो सर्वावस्थां गता अपि॥मृत्युकालं वरारोहे गता गृह्णन्ति  
तज्जलम् ॥ २० ॥ रक्षन्ति च प्रयत्नेन पापकर्मणि भोजनम् ॥  
तेषां रक्षामि तं देहं शुचिं प्रयतमानसः ॥ २१ ॥ यस्तु रत्नवतीं  
दद्यात्सागरांतां वसुंधराम् ॥ न लभेत गतिं तां तु केदारेण हि  
या भवेत् ॥ २२ ॥ कैदारं तु पिवेत्तोयं पण्मासञ्च सुयंत्रितः ॥  
तेन क्षीणं भवेद्देवि संसारभयबंधनम् ॥ २३ ॥ भूमिशायी ब्रह्म-  
चारी चैकभुक्तिश्च तिष्ठति ॥ नित्यस्नायी विधानेन ध्यायते  
जपते सदा ॥ २४ ॥ अथवापि च पद्मात्रं शिवतीर्थं प्रकाशयेत् ॥  
तेन सर्वं कृतं देवि कृतकृत्येन निश्चितम् ॥ २५ ॥ दुष्प्राप्यं  
देवि केदारं मानुषस्य वरानने ॥ ये व्रजन्ति नरास्तत्र कृतज्ञास्ते  
न संशयः ॥ २६ ॥ सर्वतीर्थेषु यत्पुण्यं सर्वयज्ञेषु सुन्दरि ॥  
तदेकत्र कृतं चैव केदारं तु तथा कृतम् ॥ २७ ॥ दृष्ट्वा चैव तु  
पीत्वा च गच्छन्ति परमां गतिम् ॥ एतत्ते कथितं सर्वं महाख्यानं

अवस्थाओंमें प्राप्त होके और मृत्युके समय जाकर, केदारके जलको ग्रहण कर-  
ताहै ॥ २० ॥ और पापकर्मोंसे यत्नपूर्वक भोजनकी रक्षा कीहो तो मैं दत्तचित्त  
होकर पवित्र देहसे उसकी रक्षा करताहूँ ॥ २१ ॥ जो मनुष्य समुद्रपर्यन्त पृथि-  
वीको दान करे तोभी उस गतिको नहीं पाता, जैसी केदारसे प्राप्त होतीहै ॥ २२ ॥  
हे देवि ! जो सावधान चित्तहो छैमास पर्यन्त केदारके जलको पीवे तो, संसार-  
बंधनसे मुक्त होजाताहै ॥ २३ ॥ भूमिमें शयन करनेवाला वा ब्रह्मचारी एक-  
भुक्तिसहित हो अथवा नित्य स्नान करनेवाला हो, तथा सदा विधानसे ध्यान  
करता हो, वा जप करता हो ॥ २४ ॥ तथा छै रात्रि पर्यन्त इस शिवतीर्थपर  
जागरण प्रकाशित करे । हे देवि ! उसने सब कुछ कृतकृत्य मनसे कर लिया  
॥ २५ ॥ हे वरानने ! मनुष्यको केदार कठिनतासे प्राप्यहै, जो मनुष्य वहां गमन  
करतेहैं वे कृतकृत्यहैं इसमें कुछ संशय नहीं ॥ २६ ॥ हे सुन्दरि ! संपूर्ण तीर्थोंमें  
अथवा समस्त यज्ञोंमें जो पुण्यहै सो सब एकत्र किया हुआ यह केदारहै ॥ २७ ॥  
इसका दर्शन करके और जलपान करके मनुष्य परमगतिको पहुंचताहै, हे वरा-



वरानने ॥ २८ ॥ तीर्थराजप्रभावस्तु मया ते समुदाहृतः ॥  
केदारस्य तथा ख्यातं स्वर्गारोहणमुत्तमम् ॥ २९ ॥ य इदं  
शृणुयान्नित्यं यश्चेदं पठते नरः ॥ मुच्यते सर्वपापेभ्यो रुद्रलोकं  
स गच्छति ॥ ३० ॥

इति श्रीरुद्रयामले केदारकल्पे श्रीश्वरदेवीसंवादे पंचयोगेन्द्रे-  
च्छासिद्धिजीवन्मुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महापथे शिवदर्शने सदेहकै-  
लासगमनं नाम नवमः पटलः ॥ ९ ॥

नने ! यह संपूर्ण कथा तुमसे कही ॥ २८ ॥ तीर्थराज केदारका प्रभाव मैंने कहा  
यह तीर्थ स्वर्गका चढ़ानेवाला है ॥ २९ ॥ जो मनुष्य इस माहात्म्यको नित्य  
श्रवण करे, अथवा पढ़े वह सब पापोंसे छूट जाताहै और रुद्रलोकमें प्राप्त  
होताहै ॥ ३० ॥

इति श्रीकेदारकल्पे शिवपार्वतीसंवादे भाषाटीकायां नवमः पटलः ॥ ९ ॥

## दशमः पटलः ।

श्रीश्वर उवाच ॥ ॐ अतः परं प्रवक्ष्यामि केदारफलमुत्तमम् ॥  
तत्पीत्वा यद्भवेत्पुण्यं तन्मे निगदतः शृणु ॥ १ ॥ एककालं द्विकालं  
वा नित्यं केदारचितकाः ॥ न ते पापेन लिप्यन्ते पद्मपत्रमिवां-  
भसा ॥ २ ॥ न केदारात्परं स्थानं न केदारात्परं तपः ॥  
न केदारात्परो मोक्षः स्वयं देवेन भाषितम् ॥ ३ ॥ पृथिव्यां  
यानि लिंगानि ससमुद्रचराचरम् ॥ केदारस्य तु सर्वाणि कलां  
नार्हति षोडशीम् ॥ ४ ॥ कामयेत्स्त्री सहस्राणि पिबेत्केदार

शिवजी बोले इसके आगे केदारका उत्तमफल कहताहूँ । उसके जलको पीकर  
जो पुण्य होताहै वह मुझसे सुनो ॥ १ ॥ जो पुरुष एक समय वा दो अथवा  
तीनोंकाल नित्य केदारका स्मरण करतेहैं जैसे जलसे कमलपत्र लिप्त नहीं होता  
उसी प्रकार वे पापसे लिप्त नहीं होते ॥ २ ॥ केदारसे उत्तम स्थान नहींहै और  
न केदारसे अधिक तपहै । न केदारसे अधिक मोक्षहै । यह स्वयम् शिवजीने  
फरहाहै ॥ ३ ॥ समुद्रपर्यन्त चर और अचरवाली पृथिवीपर जितने लिंगहैं वे-  
ॐ केदारके सोलहवें भागकोभी नहीं पहुँचते ॥ ४ ॥ सहस्रों स्त्रियोंकी कामना कर-

शम्बरम् ॥ पीतमात्रे जले देवि किमर्थं परितप्यते ॥ ५ ॥  
 ज्ञानशक्त्यापि संस्पृष्टो लीयते परमे पदे ॥ काले वा यदि वा काले  
 किं करिष्यति तच्छृणु ॥ ६ ॥ जन्मांतरसहस्रेषु लक्षकोटिशतेषु च ॥  
 प्राप्नोति धर्मयुक्तात्मा शिवभक्तिं तु मानवः ॥ ७ ॥ मासे तथा श्रावणे  
 च शुक्ले शम्भुतिथिर्यदा ॥ मध्यं दिनं गते सूर्ये तदा गुण्यति  
 तज्जलम् ॥ ८ ॥ शुक्ले वै जलरेखा तु दृश्यते चतुरंगुला ॥  
 इदं स्रोतः प्रवृत्तं तु चैत्रे सितदले शिवे ॥ ९ ॥ शिवरेतो जलं  
 तत्र प्रत्यक्षं कुंडमध्यतः ॥ आपाठे श्रावणे चैव कार्तिके च  
 तथैव च ॥ १० ॥ त्रिभिर्मासैर्महापुण्यं कथितं तव सुव्रते ॥  
 स्नात्वा मंदाकिनीं पुण्यां पितृभ्यः पिंडमावहेत् ॥ ११ ॥ ईशा-  
 नायतनं गत्वा अर्चयित्वा वृषध्वजम् ॥ स्थित्वा कुंडसमीपं  
 च भावयुक्तेन चेतसा ॥ १२ ॥ तच्चारु प्राप्नुयाद्यस्तु शास्त्रदृष्टेन  
 कर्मणा ॥ पंचरत्नसमायुक्तं तरुमानसमन्वितम् ॥ १३ ॥ उदकेन च  
 मिश्रं यत्ततः पंचात्मकं परम् ॥ आचार्यः सर्वशास्त्राणां न्यासं कुर्या-

नेवाला केदारके उत्तम जलको पीवे । हे देवि ! उदक पीनेहीमात्रसे क्यों दुःखी  
 होता है ? अर्थात् दुःखी नहीं रहता ॥ ५ ॥ ज्ञानके बिना सामर्थ्यसेभी जलका स्पर्श  
 करे तो वह परम पदमें लय होता है । और बहु कालमें वा अकालमें क्या करेगा  
 यहभी सुनो ॥ ६ ॥ सहस्रों जन्मोंसे लक्ष वा शतकोटि जन्मोंसे वह मुक्त आत्म  
 पुरुष शिवभक्तिको प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ श्रावणमासकी शुक्लपक्षकी चतुर्दशीके  
 दिन मध्याह्न समय तथा उस जलके सूख जानेपर ॥ ८ ॥ शुक्ल जलमें चार  
 अंगुल जलकी रेखा दीखे और वह नदी शुक्ल पक्षके वीत जानेपर आधे स्रोतवाली  
 रहती है ॥ ९ ॥ वह शिवके वीर्यसे उत्पन्न हुआ जल कुंडके मध्यमें प्रत्यक्ष दिखाई  
 देता है आपाठ तथा श्रावण और कार्तिक मासमें ॥ १० ॥ हे सुव्रते ! इन तीन  
 मासमें वह जल बड़ा पवित्र है और पवित्र मंदाकिनी नदीपर स्नान कर पितरोंको  
 पिंडदान करे ॥ ११ ॥ ईशान दिशाकी ओर जाकर शिवजीका पूजनकर प्रेमयुक्त  
 चित्तसे कुंडके समीप स्थित हो ॥ १२ ॥ शास्त्रकी विधिके अनुसार बहुत मान-  
 पूर्वक पंचरत्न सहित वृक्षका स्थापन करे ॥ १३ ॥ जलसे मिला हुआ वह पंच-

द्विधानतः ॥ १४ ॥ दशाक्षरीं पठेद्विद्यां परमाक्षरसंयुताम् ॥ तेनाभिमं-  
त्रितं तोयं ददाति ज्ञानमुत्तमम् ॥ १५ ॥ ज्ञात्वा देवं तथा देवि नंदि-  
स्कंदविनायकान् ॥ जयं च विजयं चैव मोहिनीः स्तंभनीस्तथा ॥  
॥ १६ ॥ ईशानाभिमुखो भूत्वा पिवेद्दामेन पाणिना ॥ दक्षिणेन  
च तत्पीत्वा पातासौ वृषभो भवेत् ॥ १७ ॥ भूमिभागं स्व-  
जानुभ्यां हस्तयुग्मं प्रसार्य च ॥ पक्षमात्रं त्रिवारं चांगुलि स्फोटं तु  
कारयेत् ॥ १८ ॥ अहं ब्रह्माप्यहं विष्णुरहं रुद्रस्तथैव च ॥  
इत्थं पीत्वा नरा यांति विधिना परमं पदम् ॥ १९ ॥ ईशानं  
तु नमस्कृत्य कृतांजलिपुटो नतः ॥ पीत्वा तु लभते ज्ञानं तीर्थ-  
स्नानं परां गतिम् ॥ २० ॥

इति श्रीरुद्रयामले केदारकल्पे श्रीश्वरदेवीसंवादे पंचयोगेन्द्रे-  
च्छासिद्धिजीवन्मुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महापथे शिवदर्शने सदेह-  
कलासगमनं नाम दशमः पटलः ॥ १० ॥

रत्न है उससे शास्त्र विधानके अनुसार न्यास आदि करना योग्य है ॥ १४ ॥ और  
दश अक्षरवाले मंत्रको पढ़े, उस मंत्रसे जल उत्तम ज्ञानको देता है ॥ १५ ॥ हे देवि !  
शिव देवको तथा नन्दीस्कंद विनायक इनको जानकर जय विजय मोहिनी तथा  
स्तंभिनीको स्मरणकर ॥ १६ ॥ ईशानकी ओर होकर वाम हाथसे जलको पीवै,  
और दाहिने हाथसे जो पीवै तो बैल होता है ॥ १७ ॥ भूमिपर प्राप्त होकर जंघासे  
दोनों हाथ फैलाकर ( अंगुलीसे ) तीनचार तीनस्फोटकरे ॥ १८ ॥ मैंही ब्रह्मा हूँ  
मैंही विष्णु, और मैं महेश्वर हूँ यह जाने इस प्रकार मनुष्य जलको विधिसे पीकर  
परम पदको प्राप्त होते हैं ॥ १९ ॥ ईशान दिशामें अंजलि बांधके नमस्कार करके  
जलपीकर ज्ञानको प्राप्त होता है तीर्थमें स्नान करनेसे परमगति मिलती है ॥ २० ॥

इति श्रीकेदारकल्पे शिवगीर्धसंवादे भाषाटीकाया दशमः पटलः ॥ १० ॥

## एकादशः पटलः ।

श्रीश्वर उवाच ॥ ॐ अतः परं प्रवक्ष्यामि केदारफलमुत्तमम् ॥  
 किमधीतैस्तपोवैदर्यज्ञैर्वहुसदक्षिणैः ॥ १ ॥ किं तप्तेनापि  
 तपसा किं व्रतेन जपेन वा ॥ किं च तीर्थाभिषेकेन किं वेन्द्रि-  
 यदमेन च ॥ २ ॥ पीत्वा कैदारमुदकं स्वच्छन्दं क्रीडते सदा ॥  
 यस्य देशस्य मध्ये तु पुण्यभागे स गच्छति ॥ ३ ॥ सोऽपि  
 देशो भवेत्पुण्यः किं पुनस्तस्य वांधवाः ॥ एतत्तं कथितो देवि  
 केदारस्य च संभवः ॥ ४ ॥ ज्ञातेन यत्फलं तेन तत्सर्वं कथितं  
 तव ॥ न मुच्यंते नरा देवि न दैत्या न च राक्षसाः ॥ ५ ॥ न  
 नागा नापि गंधर्वा न यक्षा नैव किन्नराः ॥ विद्याधरगणा देवि  
 योगिन्योऽप्सरसां गणाः ॥ ६ ॥ सिंहेन पालिताः सर्वे सप्तकोटि-  
 गणेश्वराः ॥ न तेषां मोचनार्थाय दर्शितं तीर्थमुत्तमम् ॥ ७ ॥  
 इति श्रीरुद्रयामले केदारकल्पे श्रीश्वरदेवीसंवादे पंचयोगेन्द्रे-  
 च्छासिद्धिजीवन्मुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महापथे शिवदर्शने सदेह-  
 कैलासगमनं नामैकादशः पटलः ॥ ११ ॥

ईश्वर बोले—अब केदारका श्रेष्ठ फल कहताहूँ वेद पढने तथा अधिक दक्षिणा  
 देनेवाले यज्ञोंसे क्या फलहै और तपोंके तपनेसे क्या फलहै ॥ १ ॥ व्रत और  
 तपस्यासे क्या फलहै तीर्थस्नान दान शान्ति और इन्द्रिय दमनसे क्या फल है  
 ॥ २ ॥ केदारका जलपान करनेसे प्राणी स्वच्छन्द विचरताहै वह पुण्यात्मा  
 जिस देशमें जाताहै ॥ ३ ॥ वह देश पवित्र होजाताहै फिर उसके वांधवोंकी तो  
 बातही क्याहै हे देवि यह तुमसे केदारका फल कहा ॥ ४ ॥ इसके जाननेसे  
 जो फल होताहै तुमसे वह सब कहा हे देवि ! उस पुण्यात्माको मनुष्य दैत्य  
 राक्षस ॥ ५ ॥ नाग गंधर्व यक्ष किन्नर कोईभी नहीं मार सकतेहैं हे देवि उसको  
 विद्याधर योगी तथा अप्सरा कोई नहीं सतासक्ते ॥ ६ ॥ सातकरोड गणेश्वर  
 सिंहसे पालितहैं उनके वचानेके निमित्त यह उत्तम तीर्थहै ॥ ७ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे शिवपार्वतसंवादे भाषाटीकायामैकादशः पटलः ॥ ११ ॥

## द्वादशः पटलः ।

श्रीदेव्युवाच॥ॐ कीदृशी चापि सा विद्या चाक्षराणि कति प्रभो॥  
 आख्याहि देवदेवेश रहस्यं परमं महत् ॥ १ ॥ श्रीश्वर उवाच ॥  
 ॐकारद्वयसंयुक्ता क्षंकारत्रयभूषिता ॥ हंकारपंचकोपेता दशवि-  
 न्दुप्रपूरिता ॥ २ ॥ ॐ अथ शिवाघोरमंत्रः॥ ॐ हूं क्षूं हूं क्षूं हूं  
 क्षूं हूं हूं ॐ अथ मंत्रन्यासः ॥ अंगन्यासं प्रवक्ष्यामि शृणु देवि  
 यथाविधि ॥ वामांगुष्ठात्समारभ्य न्यस्येद्वीजदेशांगुलीः ॥ ३ ॥  
 करन्यासो मया प्रोक्तो ह्यंगन्यासं ततः शृणु ॥ ॐ शिखायाम्॥  
 हूं शिरसि॥क्षूंनेत्रयोः हूं वक्त्रे॥क्षूं भ्रुवोः॥हूं हृदये॥क्षूं नाभौ॥हूं  
 बाह्वोः ॥ हूं गुह्ये॥ॐ हूं पादयोः ॥ अंगन्यासो मया प्रोक्तो दिक्षु  
 न्यासमिमं शृणु ॥ ४ ॥ ॐ कारं पूर्वदिग्भागे ह्रमाग्रेये  
 तथैव च ॥ क्षंकारं दक्षिणे चैव हूं नैर्ऋते ततो न्यसेत्॥५॥ क्षंकारं  
 वारुणे चैव हंकारं वायुगोचरे ॥ क्षंकारमुत्तरे चैव ह्रमशान्यां च  
 वै न्यसेत् ॥ ६ ॥ हंकारं चाधः क्षिप्य क्षिपेदोकारमूर्द्धतः ॥  
 दिक्षु न्यासो मया प्रोक्तो येन धर्मस्थितिर्भवेत् ॥ ७ ॥ कुंड-  
 न्यासं प्रवक्ष्यामि ये वै कुर्वन्ति साधकाः ॥ ॐकारं कुंडमध्ये च

देवी बोली, कि प्रभो ! वह विद्या कैसी है ? और कौन कितने अक्षरहैं ? हे  
 देवदेवेश ! सो परमगुप्त वार्ता कहो ॥ १ ॥ शिवजी बोले दो ओंकार सहित  
 और तीन क्षंकार तथा पांच क्षंकार और दस विन्दुसे पूर्ण विद्या जाननी अर्थात्  
 ॐ हूं क्षूं हूं क्षूं हूं क्षूं हूं हूं ॐ यह मंत्र है ॥ २ ॥ हे देवि अब अंगन्यास को  
 कहताहूं विधिपूर्वक सुनो वारं अंगुठेसे लेकर दस अंगुलियोंमें ॥ ३ ॥ कर-  
 न्यास करे अब अंगन्यास सुनो शिरसमें ॐ शिरमें हूं, नेत्रमें क्षूं मुखमें हूं भौंमें  
 क्षूं हृदयमें हूं, नाभिमें क्षूं दोनों भ्रुजामें हूं गुह्येन्द्रयमें हूं ॐ हूं चरणोंमें यह अंग-  
 न्यास तुझसे कहा अब दिशान्यास सुनो ॥ ४ ॥ ॐकार पूर्वदिशाके भागमें हूं  
 ओमेय कोणमें क्षूं दक्षिण दिशामें हूं नैर्ऋत कोणमें न्यासकरे ॥ ५ ॥ क्षूं को  
 पश्चिममें और हूं को वायु कोणमें क्षंकार को उत्तरमें हूंको ईशान दिशामें रखे  
 ॥ ६ ॥ हूंको पाताल ॐ को ऊपर रखे दिशाओंका न्यास कहा, जिससे धर्मकी  
 स्थितिहो ॥ ७ ॥ अब कुंडन्यासको कहताहूं जो साधक करतेहैं ॐ कारको

हंकारं पूर्वतो न्यसेत् ॥ ८ ॥ झूंकारं चाग्निदिग्भागे हंकारं याम्यतो न्यसेत् ॥ झूंकारं नैर्ऋते न्यस्य हंकारं वारुणे न्यसेत् ॥ ९ ॥ हंकारं वायुकोणे तु हंकारमुत्तरे न्यसेत् ॥ ईशानकोणे तु हंकारमोकारं व्यापकं न्यसेत् ॥ १० ॥ एतत्कृत्वा विधानेन कैदारंसलिलं पिबेत् ॥ कृष्णाष्टम्यां चतुर्दश्यामेवं विद्याभिमंत्रितम् ॥ ११ ॥ यः पिबेद्दुदकं देवि केदारसदृशो भवेत् ॥ अज्ञात्वा च पिबेद्देवि विद्याहीनस्तु मानवः ॥ १२ ॥ विद्यायुक्तो भवेद्देवि नात्र कार्या विचारणा ॥ मंदाकिन्यां तु तत्तोयं पिबन्वे वेदविद्भवेत् ॥ १३ ॥ कैदारमुदकं पीत्वा गृहे चैव समागतान् ॥ क्षमापयित्वा वाचार्याञ्छास्त्रदृष्टेन कर्मणा ॥ १४ ॥ मुद्रिकां छत्रिकं चैव पादुकां तत्र दापयेत् ॥ यः स्नात्वान्यमना भूत्वा दद्याद्गां च पयस्विनीम् ॥ १५ ॥ तांबूलं च विशेषेण ततो दत्त्वा क्षमापयेत् ॥ त्वत्प्रसादात्कृतार्थोहं भवे जन्मनि जन्मनि ॥ १६ ॥ दद्याच्छतयनुसारेण विना शास्त्रं न कारयेत् ॥ तस्मिंस्तुऽष्टेप्यहं

कुंडके मध्यमें और हंको पूर्वकी ओर धरे ॥ ८ ॥ आग्नेय दिशाकी ओर झूंको, हंको दक्षिण दिशाकी ओर झूंकारको नैर्ऋत भागमें रखकर हंको पश्चिमकी तरफ धरे ॥ ९ ॥ झूंको वायुकोणमें हंको उत्तरमें धरे ईशान कोणमें हंको ॐ कारको व्यापकमें रखे ॥ १० ॥ इस न्यासको विधिपूर्वक समाप्त करके केदारके जलको पीवे कृष्णपक्षकी अष्टमीको वा चतुर्दशीको पूर्वोक्त विद्यासे अभिमंत्रित ॥ ११ ॥ जलको जो मनुष्य पीताहै हे देवि ! वह केदारकी समान होजाताहै जानकरके विद्याहीन पुरुष जलको न पीवे ॥ १२ ॥ हे देवि ! वह विद्या युक्त होताहै इसमें कुछ संशय नहीं मंदाकिनीमें जो मनुष्य जलपान करे वह वेदवेत्ता होताहै ॥ १३ ॥ केदारके जलको पीकर अपने घर लौट आवे तो आचार्योसे प्रार्थना करके शास्त्रकी विधिपूर्वक ॥ १४ ॥ मुद्रिका ( अंगूठी ) छत्री खडाऊं यह देवे और शक्तिका अनुसार बख्खालंकारादि दे दूय देनेवाली गाय देवे ॥ १५ ॥ पानको देकर विशेष आचार्यसे प्रार्थना करे कि—आपकी प्रसन्नतासे मैं जन्म जन्ममें कृतार्थ हुआ ॥ १६ ॥ शक्तिके अनुसार दान देवे

तुष्टो मम तुल्यो ह्यसौ यतः ॥१७॥ तस्मिन्दत्तं हुतं जप्तं सर्वं  
 चाक्षयमाविशेत् ॥ पञ्चात्संपूजयेद्देवि शिवभक्तिपरायणम् ॥  
 ॥ १८ ॥ एष देवो यथाशक्त्या प्रीयतां मे त्रिलोचनः ॥ कुर्या-  
 द्वित्तानुसारेण शास्त्रदृष्टेन कर्मणा ॥ १९ ॥ एतत्सर्वं यथान्यायं  
 कथितं तव सुव्रते ॥ केदारस्य महाख्यानं मद्भ्रात्रप्रदमुत्तमम्  
 ॥ २० ॥ यस्त्विदं पठते नित्यं यश्चैव शृणुयादपि ॥ मुच्यते  
 सर्वपापेभ्यो रुद्रलोकं स गच्छति ॥ २१ ॥  
 इति श्रीरुद्रयामले केदारकल्पे ईश्वरदेवीसंवादे पंचयोगेन्द्रेच्छा-  
 सिद्धिजीवन्मुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महापथे शिवदर्शने सदेहकैलास-  
 गमनं नाम द्वादशः पटलः ॥ १२ ॥ श्लोकाः २३५ ॥

शास्त्रके प्रतिकूल न करे उस आचार्यके संतुष्ट होनेपर मैं सन्तुष्ट होताहूँ और  
 वह दानकर्ता मेरे तुल्य होताहै ॥ १७ ॥ उसको दानदिया हवन तथा जप  
 किया यह संपूर्ण अक्षय हो प्रवेश होताहै पीछे भक्तिपूर्वक शिवको पूजे ॥ १८ ॥  
 हे त्रिलोचन ! यथाशक्ति पूजा करनेसे मुझपर प्रसन्न हूँजिये अपने धनके अनु-  
 सार तथा शास्त्रके अनुकूल दान करना चाहिये ॥ १९ ॥ हे सुव्रते ! यह  
 केदार माहात्म्य जो मेरे भ्रम व पदका पात्रहै वह संपूर्ण न्यायपूर्वक तुमसे कह  
 सुनाया ॥ २० ॥ जो इसै नित्य पढे वा सुने वह समस्त पापोंसे छूटकर शिवलोकको  
 प्राप्त होताहै ॥ २१ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे शिवगौरास्त्रादे भाषार्थकाया द्वादशः पटलः ॥ १२ ॥

## त्रयोदशः पटलः ।

श्रीदेव्युवाच ॥ अप्राप्यैव मृता देव गृहान्निर्गम्य मानवाः ॥  
 नैव दृष्ट्वा च केदारं नैव पीतं तु तज्जलम् ॥ १ ॥

देवी बोली हे देव! अपने घरसे केदार तीर्थके निमित्त निकलकर मार्गमेंही जो  
 मनुष्य मरजाय, और केदारके दर्शन न करसके तथा उसका जल न पियाहो ॥ १ ॥

तेषां च का गतिर्देव श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ श्रीश्वर उवाच ॥  
 अप्राप्ता ये मृता देवि गृहान्निर्गत्य मानवाः ॥ २ ॥ विचिन्त्य  
 हृदि केदारं क्रोशमात्रं च भक्तितः ॥ तेषुपि देवि नराः सर्वे  
 भुञ्जते परमं पदम् ॥ ३ ॥ संसारं नोपपद्यते जन्ममृत्युविवर्जि-  
 ताः ॥ त्रिनेत्रा वृषभारूढा यथाहं शंकरः स्वयम् ॥ ४ ॥ गच्छन्ति  
 रुद्रभवने हेमकुण्डलमंडिताः ॥ मद्भिधास्ते गणाः सर्वे शशांकां-  
 कितशेखराः ॥ ५ ॥ यदा संदृश्यते देवि मत्समानो नरोत्तमः ॥ तदा  
 सर्वाणि चिह्नानि लक्ष्यन्तेऽस्य सुरेश्वरि ॥ ६ ॥ पूर्ववृत्तकथां देवि  
 तथा च कथयाम्यहम् ॥ कश्चिद्विप्रः पुरा देवि धनधान्यसमृद्धि-  
 मान् ॥ ७ ॥ तस्य पुत्रो महाभक्तश्चित्तयंस्तु दिवानिशम् ॥  
 केदारं हि गमिष्यामि तच्च संभाव्यते सदा ॥ ८ ॥ न मन्यते  
 पिता नैव तदा माता विशेषतः ॥ हृदयेनैव केदारं ब्रजाम्येप  
 न पश्यतु ॥ ९ ॥ एतद्विचिन्तयामास गतोऽसौ मनसा  
 गिरिम् ॥ ततः संसारविरतः प्रस्थितो रात्रिमध्यतः ॥

उनकी क्या ? गति होती है ? सो तत्त्वसे सुनना चाहती हूँ शिवजी बोलें  
 हे देवि ! केदारमें बिना पहुँचे जो पुरुष घरसे निकल के मरजाय ॥ २ ॥ हृदयमें  
 केदारका स्मरण करके एक कोस तकभी आये हुए हों वे मनुष्यभी परम पदको  
 भोगते हैं ॥ ३ ॥ और जन्म तथा मृत्युसे वर्जित हो संसारमें नहीं आते, और  
 तीन नेत्र वाले हो वृषभपर चढ़कर जिस प्रकार स्वयम् शंकर तैसे ॥ ४ ॥ सुवर्ण  
 के कुंडलोंसे शोभायमान हो शिवलोकमें प्राप्त होते हैं और वे संपूर्ण गण मेरी  
 समान मस्तकपर चन्द्रमाको धारण करते हैं ॥ ५ ॥ हे देवि ! जब वह पुरुषश्रेष्ठ  
 दीखता है तो हे सुरेश्वरी ! समस्त चिह्न मेरे समान ही उसमें होते हैं ॥ ६ ॥ हे देवि !  
 पुरातन वृत्तान्तवाली कथाको कहता हूँ कोई ब्राह्मण धन धान्य और समृद्धि  
 वाला, ॥ ७ ॥ उसका बड़ा भक्तिमान् पुत्र था वह रातदिन विचारता, और  
 सदा कहता था कि-में केदारको जाऊंगा ॥ ८ ॥ परन्तु उसका पिता और  
 माता नहीं मानती थी वह मनसे यह विचारता था कि-केदारको जा-  
 विना देखेही ॥ ९ ॥ निश्चय कर वह कैलास जानेके निमित्त,



॥१०॥दृष्टोऽसौ कोटपालेन हतो वै स शरेण च ॥ सोऽथ  
 दृष्टोऽप्यभिज्ञातस्तत्क्षणाद्ब्राह्मणीसुतः, ॥ ११ ॥ तेन भीतेन  
 देवेशि तदोपायं विचिन्वता ॥ प्राकारस्य समीपे तु श्ववि-  
 ष्ठायामपश्यताम् ॥ १२ ॥ स्थापितोऽसौ यदा विप्रः कोटपा-  
 लेन धीमता ॥ ततः प्रभाते विमले पुत्रोऽसौ च न दृश्यते ॥१३॥  
 तत्र दुःखेन संतप्तौ ब्राह्मणी ब्राह्मणश्च तौ ॥ इतश्चेतश्च धाव-  
 न्तौ तौ गृहाश्रमवीक्षकौ ॥ १४ ॥ पृच्छंतौ पथिकाल्लोकान्पुत्र-  
 पुत्रेति वादिनौ ॥ स्मृत्वा पुत्रस्य वाक्यं तु केदारगमने सदा  
 ॥ १५ ॥ विप्रास्ताभ्यां विस्मृष्टाश्च पुत्रान्वेषणकारणात् ॥  
 पुत्रमाता पिता द्वौ च यथा दुःखं न लभ्यते ॥१६॥ पृच्छंतस्ते  
 तथा विप्राः केदारे च महापथे ॥ न दृष्टो न श्रुतश्चायं निराशै-  
 स्तैर्विसर्जितः ॥१७॥संप्राप्ते मोक्षमार्गे च केदारेथ नभोध्वनिः ॥  
 सर्वे च स्वगृहं प्राप्ताः श्रुतस्तेस्तावदध्वनि ॥ १८ ॥ तावत्कस्या-  
 पि भूतस्य ध्वनिर्द्वैककं द्विजम् ॥ भूत उवाच ॥ कथयस्व महा-

रात्रिको चल पडा ॥ १० ॥ तब इसको कोतवालने रातके विपे देखा, और  
 वाणसे मार दिया उस समय निकट आकर उसने जाना कि यह  
 ता ब्राह्मणका पुत्रहै ॥ ११ ॥ उस भयभीत कोतवालने यह उपाय विचारा कि-  
 खाईके समीप जहाँ कुत्तेकी विष्टा पडी थी ॥ १२ ॥ तहाँ बुद्धिमान कोतवालने  
 इस भरे हुएको दबादिया, प्रातःकाल उस ब्राह्मणका पुत्र न दीखपडा ॥ १३ ॥  
 उसके दुःखसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी अति दुःखी हुए इधर उधर घर और आश्र-  
 मोंमें देखते, दौडते, फिरते थे ॥१४॥और मार्गमें पुत्र, पुत्रपिसा कहते हुए लोगों  
 से पूछते थे, तब पुत्रके पिछले वाक्यको याद करके केदार जानके निमित्त ॥  
 ॥ १५ ॥ उन दोनोंने ब्राह्मणोंको अपने पुत्रके ढूँढनेके लिए वहाँ भेजा और पुत्र  
 की माता तथा पिता अतिदुःखी थे ॥ १६ ॥ तब उन ब्राह्मणोंने केदारके मार्ग  
 में पुत्रका पृथ पंडा तो कहा कि-न देखा, न सुना, यह समाचार पाय, वे निरा-  
 श होकर लौटते हुए ॥ १७ ॥ तभी मोक्षमें प्राप्त हुए उस ब्राह्मणके विषयकी उन  
 घरकी आते ब्राह्मणोंने मार्गमें पेशी ध्वनी ( शब्द ) सुनी ॥ १८ ॥ उसी समय  
 किसी भूतकी ध्वनिवाला पुरुष ब्राह्मणसे बोला, भूत बोला है महाभाग ! किस

भाग प्रेषितः केन कर्मणा ॥ १९ ॥ विप्र उवाच ॥ प्रेषितोऽस्मि  
द्विजेनात्र कार्यं भूयस्ततः शृणुः ॥ ब्राह्मणस्य सुतो नष्टस्तस्या-  
न्वेषण आगताः ॥ २० ॥ भूत उवाच ॥ को दृष्टः केन चैवात्र  
कस्यासौ ब्राह्मणः सुतः ॥ विप्र उवाच ॥ न दृष्टो न श्रुतश्चैव  
मृतो भस्मनि कुत्र सः ॥ २१ ॥ पुत्र उवाच ॥ स्वर्गं तिष्ठाम्यहं  
विप्र गंधर्वगणसेवितः ॥ रुद्रकन्यामहाभोगभोगी च सततं  
स्थितः ॥ २२ ॥ अक्षयं च पदं प्राप्तं हृदि केदारचितनात् ॥  
विप्र उवाच ॥ केन कर्मविपाकेन संप्राप्तमक्षयं पदम् ॥ २३ ॥  
पुत्र उवाच ॥ अहं केदारकं चात्र प्रस्थितो रात्रिमध्यतः ॥  
दृष्टोऽस्मि कोटपालेन हतो रात्रौ शरेण च ॥ २४ ॥ तत्क्षणान्मे  
गताः प्राणास्ततो रूपं प्रवर्त्तते ॥ सद्यो विमानमारुह्य द्वादशा-  
दित्यभास्वरम् ॥ २५ ॥ अप्सरोगणसंकीर्णं सर्वाभरणभूषितम् ॥  
तेन कर्मविपाकेन संप्राप्तोऽस्मि शिवालयम् ॥ २६ ॥ एकोत्तरं  
कुलशत समस्तं तारितं मया ॥ मातरः पितरश्चैव तथा स्वजन

कर्मके निमित्त भेजे गएहो ॥ १९ ॥ ब्राह्मण बोला एक ब्राह्मणके कार्य के निमित्त  
आयेहैं वह कार्य यहहै सो सुनो कि-एक ब्राह्मणका पुत्र नष्ट होगयाहै उसके  
ढूंढनेको आएहैं ॥ २० ॥ भूत बोला किसने देखाहै, और किस ब्राह्मणका यह पुत्र  
है ब्राह्मण बोले न देखा न सुना कहाँ मर गया ॥ २१ ॥ पुत्र बोला हे ब्राह्मणो ! मैं  
शिवके गण और गंधर्वा सहित स्वर्ग लोकमें रहताहूँ और शिव लोककी कन्या-  
ओंके सहित बड़े भोगोंको भोगता हुआ स्थितहूँ ॥ २२ ॥ केदारको मनसे  
चिंतन ( स्मरण ) मात्रसे यह अक्षय पद पाया, है ब्राह्मण बोला किस कर्मफलसे  
अक्षय पद पाया ॥ २३ ॥ पुत्र बोला मैं रात्रिके विषय केदारको चल पडा, उस  
समय कोतवालने देखा, रात्रि होनेके कारण उसने वाणसे मुझे मारा ॥ २४ ॥  
उसी समय मेरे प्राण निकल गए और अपना रूप बदलगया, शीघ्रही वारह  
सूर्यके समान कान्तिवानेहो, विमानपर चढ कर ॥ २५ ॥ अप्सराओंसे व्याप्त  
तथा संपूर्ण गहनोंसे भूषित, उस केदार चिंतन कर्मके फलसे शिवके पदको प्राप्त  
हुआ ॥ २६ ॥ मैंने एकसो एक कुलतारादिये, माता, पिता, कुटुम्बी, और बंधुगण

बांधवाः ॥ २७ ॥ तथा ह्यशीतिमान्याश्च बंधून्वाक्यमुदीर-  
 येत् ॥ ममोपरि द्विसहस्रमुद्धरेत्तु कुलं तथा ॥ २८ ॥ अत्रैव  
 च मय, दृष्टं यादृशं सर्वमेव तु ॥ अन्यन्मातुश्च मे वाच्यं मा  
 दुःखं करु चाम्बिके ॥ २९ ॥ मया समुपभोगाथ संप्राप्तः काम  
 उत्तमः ॥ मृत्युशोको न मे कार्य्य एतत्सर्वं वदाम्यहम् ॥ ३० ॥  
 विप्र उवाच ॥ यदि पुत्रस्य वाच्यं तु तन्मे सत्यं प्रकाशय ॥  
 ज्ञातिज्ञानं दर्शय त्वं येन त्रिःसंशयो भवेत् ॥ ३१ ॥ तदहं प्रत्य-  
 यिष्यामि पितरं ते समंततः ॥ पुत्र उवाच ॥ न चेत्पिता विश्व-  
 सिति तदाख्येयो द्विजोत्तम ॥ ३२ ॥ ज्ञानस्य च परा भूतो मम  
 देहे समुद्भवः ॥ केदार प्रस्थितोऽह निशि मध्ये यदा ततः  
 ॥ ३३ ॥ दृष्टोऽस्मि कोटपालेन निहतस्तच्छरेण च ॥ दृष्टस्तावदहं  
 तेन तदा विस्मयचेतसा ॥ ३४ ॥ निक्षिप्तः सहसा चैव प्राका-  
 रस्य समीपतः ॥ अग्नौ निःक्षिप्य देहं मे दहन्तु मुदिता-  
 जनाः ॥ ३५ ॥ यतंतं पितरं विप्र शीघ्रं दर्शय मामुत ॥ कुरुते येन  
 संसार अग्निदाहं हुताशने ॥ ३६ ॥ मध्ये यं कथयित्वेदं तस्य

॥ २७ ॥ मेरे माता, पिता और बांधवोंसे यह वचन कहना कि मेरे खेहसे तुम  
 सब उद्वेग ( चिंता ) मत करो ॥ २८ ॥ और जो कुछहै सो सब यहाँ मैंने देखा  
 और मेरी मातासे कहना कि—हे मातः, दुःख मतकरो ॥ २९ ॥ मैंने संभोगके अर्थ  
 स्वर्गकी काननाकी, मृत्युलोकके भोगसे मेरा कुछ काम नहीं है यह सब मैं कहता हूँ  
 ॥ ३० ॥ ब्राह्मण बोला यदि पुत्रका वचन है तो मुझसे सत्य २ प्रकट करो और  
 जाति तथा ज्ञानका परिचय दो जिससे संदेह दूर होवे ॥ ३१ ॥ तब मैं तुम्हारे  
 पितासे तथा और चारोंतरफ कहूंगा, पुत्र बोला हे द्विजोत्तम ! यदि पिता न  
 विश्वास करें तब उनसे कहना कि ॥ ३२ ॥ मेरे शरीरसे ज्ञान उत्पन्न हुआ इस  
 कारण केदार जानेके निमित्त रात्रिके मध्यमें चला ॥ ३३ ॥ कोतपालने मुझे  
 देखा और बाणसे मारा और मुझे मरा देस ब्राह्मण जान और आश्चर्य युक्त चित्त  
 से देखा ॥ ३४ ॥ एक साथ गडके समीप कुतियाके विष्टाके समीप चकित हो  
 फेंक दिया ॥ ३५ ॥ हे ब्राह्मण ! यह विश्वास कराके मेरे पिताको यह शव दिखाना  
 निममे यह अग्निदाह संस्कार करें ॥ ३६ ॥ मेरा यह वचन पितासे कहना, इस

विप्रस्य पश्यतः ॥ विमानवरमारुह्य भानु कोटि समद्युतिम् ॥  
एवं पुत्रो गतः स्वर्गे कथयित्वा यथार्थतः ॥ ३७ ॥ नानाविधान्म-  
हाभोगान्भुङ्क्ते हरपुरे महान् ॥ एकोत्तरशतं देवि मयापि सहितो  
दिवि ॥ ३८ ॥

इति श्रीरुद्रयामले केदारकल्पे ईश्वरदेवीसंवाद पंचयोगेन्द्रेच्छा-  
सिद्धिजीवन्मुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महापथे शिवदर्शने ब्राह्मणपुत्र-  
मोक्षप्राप्तिः सदैहकलासगमनं नाम त्रयोदशः पटलः ॥ १३ ॥

प्रकार कहकर वह ब्राह्मणका पुत्र स्वर्गको गया ॥ ३७ ॥ वहां शिवलोकमें अनेक  
प्रकारके भोगोंको भोगकर उसने एकसौएक कुलोंको तारा और मेरे साथ  
निवास किया ॥ ३८ ॥

इति श्री केदारकल्पे शिवगीरीतनादे भाषाटीकाया त्रयोदश पटलः ॥ १३ ॥

## चतुर्दशः पटलः ।

श्रीदेव्युवाच ॥ यदि कोऽत्राप्यजानानः शास्त्रमुक्तं यथाविधि ॥  
अगम्यागमनं कुर्यात्तत्फलं वद शंकर ॥ १ ॥ श्रीशंकर उवाच ॥  
यावत्पृच्छसि देवेशि तत्सर्वं कथयामि ते ॥ कोऽपि सर्वत्र भोक्ता  
तु ब्राह्मणो ज्ञानिसत्तमः ॥ २ ॥ सदैव मम भक्तो हि ध्यात्वा  
सर्वांगमीश्वरम् ॥ तेन विप्रेण सुश्रोणि संसारभयभिरुणा ॥ ३ ॥  
केदारगमनं कृत्वा ह्यहं दृष्टो न संशयः ॥ पुनश्चैव गृहं प्रात इष्टैः  
सह तु तिष्ठति ॥ ४ ॥ अथासौ राजसदनं कदाचिच्च गतोऽभ-

पार्वती बोलीं हे शिवजी ! यदि कोई पुरुष शास्त्रविधिको न जानताहुआ विप-  
यके अयोग्य स्त्रीके साथ विषय करै तो उसका फल कहो ॥ १ ॥ शिवजी बोलै हे  
देवि ! जो तुमने पूछा सो सब तुमसे कहताहूं कोई ब्राह्मण उत्तमज्ञानको छोड़कर  
॥ २ ॥ सर्वांग ईश्वरका ध्यान करनेवाला निरंतर मेरा भक्त था, उस ब्राह्मणने सं-  
सारके भयसे ॥ ३ ॥ केदारमें गमन करके मेरा दर्शन किया और फिर  
आया मित्रों सहित रहनेलगा ॥ ४ ॥ किसी दिन यह ब्राह्मण राजाके घरको

वत् ॥ आशीर्वादपरो विप्रो दानं लब्धा पुनः पुनः ॥ ५ ॥ तेन  
दृष्टा श्वपाकी च मधुरध्वनिशोभिता ॥ तस्या गीतध्वनिं श्रुत्वा  
सुस्वरं कर्णशीतलम् ॥ ६ ॥ मोहितो ब्राह्मणो देवि दृष्ट्वा म्लेच्छीं  
स्वरूपवान् ॥ मूर्च्छिता चेतना तस्य सद्यो नारी निरीक्षणात्  
॥ ७ ॥ पुनरालोक्य तां सोऽपि कामान्धः पतितो भुवि ॥ विस-  
र्जितेन गीतेन नृपवृदे गृहङ्गते ॥ ८ ॥ ब्राह्मणस्तेन मार्गण  
गतो म्लेच्छी स्वमंदिरे ॥ म्लेच्छी सा प्रार्थिता तेन भार्या मम  
भव स्वयम् ॥ ९ ॥ म्लेच्छयुवाच ॥ दृश्यते ब्राह्मणं रूपं कु-  
त्सितं तव भापितम् ॥ सर्ववर्णमहाश्रेष्ठं सर्वशास्त्रविशारदम् ॥  
॥ १० ॥ भापसे विगुणं विप्र महतां लोमहर्षणम् ॥ नीचाहं  
सर्ववर्णानां वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः ॥ ११ ॥ प्रसंगो नैव कर्तव्यो  
म्लेच्छयहं ब्राह्मणो भवान् ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ विवादो नैव कर्त्त-  
व्यो ह्यस्मिन्काले मया प्रिये ॥ १२ ॥ यदोपो जायते देहं  
सर्वस्वमपि तिष्ठति ॥ तेन सा कामलुब्धेन मधुरालापवा-

और आशीर्वाद देकर दानको लेकर ॥ ५ ॥ उसने अपने समीप मधुरध्वनि युक्त  
वेण्या देखी, उसके गीतकी ध्वनि जो कानोंको सुखदेनेवाली अच्छी सुरेली थी  
॥ ६ ॥ हे देवि ! उस सुन्दर रूपवती म्लेच्छीको ब्राह्मण देखकर मूर्च्छित चेतना  
रहित हो दिशाओंकी ओर देखताहुआ ॥ ७ ॥ फिर उस म्लेच्छीने उस ब्राह्मण  
की तरफ देखा तो काममें अंधा होकर भूमिपर गिरपड़ा गीत नृत्यके वि-  
सर्जन होनेपर सब समुदाय राजाके दरवारसे घरको गया ॥ ८ ॥ ब्राह्मण उसी  
मार्गसे उस म्लेच्छीके घर गया ब्राह्मणने म्लेच्छीसे प्रार्थना की कि-तू मेरी स्त्री  
हो ॥ ९ ॥ म्लेच्छी धोली तेरा रूप ब्राह्मणकेसा दीखताहे तेरा कहना बहुत  
बुराहै तू सब वर्णोंमें उत्तम और संपूर्ण शास्त्रोंमें निपुणहै ॥ १० ॥ हे ब्राह्मण !  
तू यह बड़े लोमहर्षण बचन कहताहै मैं संपूर्ण वर्णोंमें नीचहूँ और ब्राह्मण सब  
वर्णोंका गुरुहै ॥ ११ ॥ मुझसे प्रसंग ( विषय ) करना उचित नहीं है क्योंकि मैं  
म्लेच्छीहूँ और तुम ब्राह्मणहो ब्राह्मण बोलो है मिये ! इस समय मेरेसाथ विवाद  
करना उचित नहीं है ॥ १२ ॥ जो कुछ दोपहो यह सब मुझको होवे काममें लुब्ध

दिना ॥१३॥ म्लेच्छी वशीकृतास्ते च विप्रेणात्यादरेण तु ॥ गृहे  
वासगता तेन म्लेच्छी सा सह मोदते ॥ १४ ॥ तत्रासौ गृहिणी  
जाता सर्वलक्षणसंयुता ॥ यथा प्राप्ता उर्वशी च दृश्यते चारुलो-  
चना ॥ १५ ॥ सुप्रतिष्ठितपादास्या - करपल्लवसुप्रभा ॥ सुहृपा  
च सुजघाभ्यां कदलीस्तंभसन्निभा ॥ १६ ॥ क्षामोदरी सुकन्या  
च विस्तीर्णहृदया तथा ॥ चलत्प्रदक्षिणावर्तमध्यत्रिवलिसंयुता  
॥ १७ ॥ स्तनद्वयभगक्रान्ता बाहुभ्यां विसरुग्धरा ॥ मुखं पूर्णेन्दु  
संकाशं कामराजांबुजप्रभम् ॥ १८ ॥ तां दृष्ट्वा लोकललनां सर्व-  
लक्षणलक्षिताम् ॥ विप्रस्य तस्य लुब्धस्य गतं जन्म तथा सह  
॥ १९ ॥ ततः प्रभूतकालेन जरा तस्याभवत्तदा ॥ अतिज्वरेण  
तप्तम्य मृत्युश्च तदनंतरम् ॥ २० ॥ ततो विप्रपिता यत्र म्लेच्छी-  
तद्भवन्नं गता ॥ प्रणाममकरोत्तस्य म्लेच्छी विप्रस्य सन्निधौ ॥ २१ ॥  
तव पुत्रो हि मे भर्ता ज्वरेण गतजीवनः ॥ अग्निदाहं कुरुष्व्यास्य  
यद्ययं प्राणवल्लभः ॥ २२ ॥ विप्र उवाच ॥ न मे कार्यं सुतेनात्र

हुए उस मधुर आलाप वाले ब्राह्मणने ॥ १३ ॥ उस म्लेच्छीको वशमें किया,  
ब्राह्मणने आदरसे म्लेच्छीसहित घरमें वास किया और आनंद पाया ॥ १४ ॥  
तहां सब लक्षणोंसे संयुक्त वह सुन्दर नेत्रवाली उर्वशीके समान उसकी  
स्त्री हुई ॥ १५ ॥ सम भागवाले चरणोंसे युक्त सुन्दर हथेली गौर  
वर्ण शोभित रूपवाली जंघाओंसे केलेके खंभकी समान ॥ १६ ॥ सूक्ष्म  
उदर, विस्तीर्ण हृदयवाली प्रदक्षिणावर्त मध्यमें त्रिवली युक्त ॥ १७ ॥ दोनों  
सुन्दर स्तनवाली भुजाओंमें और हाथोंसे शोभित मुखसे पूर्ण चन्द्रमाकी समान  
और कामदेवकी समान कान्तिवाली ॥ १८ ॥ उस लोक सुन्दरी तथा सब  
लक्षणोंसे सुशोभित स्त्रीको देख उस ब्राह्मणका जन्म उसके साथ रहते बीत  
गया ॥ १९ ॥ तब अधिक समयके पीछे उस ब्राह्मणको ज्वर आया और अति  
पीडित हो मृत्युको प्राप्त हुआ ॥ २० ॥ तिसके मरने पीछे वह म्लेच्छी ब्राह्मणके  
पिताके घर गई और ब्राह्मणके पास जाकर प्रणाम किया ॥ २१ ॥ कहा कि  
तुम्हारा पुत्र जो मेरा स्वामी था वह ज्वरसे मृत्युको प्राप्त हुआ है यदि तुम्हारा  
प्राणप्रिय है तो उसका अग्निदाह संस्कार करो ॥ २२ ॥ ब्राह्मण बोला मुझे पुत्रसे

तथा चैवमतः शृणु ॥ चांडालकर्मतां यातः कर्मचंडाल उच्यते ॥  
 ॥ २३ ॥ ईश्वर उवाच ॥ तच्छ्रुत्वा सा गता गेहं म्लेच्छी शोक-  
 प्रपीडिता ॥ गृहोपस्करणं त्यक्त्वा तस्य दाहं चकार ह ॥ २४ ॥  
 स्वगृहस्तु तथा दग्धो धूमा जाताः सुदारुणाः ॥ तत्स्थाने वट-  
 वृक्षस्य शाखायामाललाम्बिरे ॥ २५ ॥ तत्र वृक्षे समारूढं भूतानां  
 शतपंचकम् ॥ धूमेन चावृतो वृक्षो भूतैश्च समधिष्ठितः ॥ २६ ॥  
 स्वर्गलोकं गता भूता वटवृक्षेण संयुताः ॥ क्रीडन्ति चाक्षयं कालं  
 रुद्रलोकं समुद्रताः ॥ २७ ॥ एको भूतो गतोऽन्यत्र भोज्यं  
 लब्ध्वा स गोत्रतः ॥ तत्र यावच्च संप्राप्तो वटस्थानं न दृश्यते  
 ॥ २८ ॥ तदा विस्मयमापन्नं रुदंतं द्विज उत्तमः ॥ कस्त्वं खिद्य  
 सि दुःखात्तो ह्यत्र स्थाने वटस्व मे ॥ २९ ॥ भूत उवाच ॥ वि-  
 त्त्वं पृच्छसि मां विप्र परित्राणं कुरुष्व मे ॥ विप्र उवाच ।  
 हेतुना केन भूतस्त्वं क्रंदसे दारुणं वद ॥ ३० ॥ भूत उवाच ॥ गत  
 केदारको विप्र सोऽस्मिन्स्थाने प्रतिष्ठितः ॥ सोऽपि म्लेच्छीसमा

कुछ काम नहीं है क्योंकि वह चांडालके कर्मको प्राप्त हुआ और कर्मसे चांड  
 कहाता है ॥ २३ ॥ शिवजी बोले यह सुन कर वह म्लेच्छी शोकसे व्याकुल  
 अपने घरको गई और घरके काम धंधेको छोड़ उसके दाहकी चिन्ता क  
 भई ॥ २४ ॥ तब सामग्री इकट्ठी कर उसने घरमें आग लगादी जब ध  
 बड़ा धुआं फैला, उस स्थानपर एक बड़का वृक्षथा जिसकी शाखाओंका उ  
 न था ॥ २५ ॥ उस वृक्षके ऊपर पांचसौ भूत रहते थे वह भूतोंसे सेवित  
 धुएँसे व्याप्त होगया ॥ २६ ॥ वे भूत उस वृक्षके सहित स्वर्ग लोकको प्राप्त  
 और शिवलोकको पाय अक्षय कालतक क्रीड़ा करते रहे ॥ २७ ॥ उनमेंसे  
 भूत अपने गोत्रके भोजनसे लुब्ध हो अन्यत्र गया था तहां जबतक लौटकर अ  
 तो वह बड़का पेड न देखा ॥ २८ ॥ तब विस्मय करते हुए तथा रोते हुए उस  
 देखा ब्राह्मण बोला कि तुम कौनहो ? क्यों दुःखीहो ? क्योंकर व्याकुल होतें  
 सो मुझसे कहो ॥ २९ ॥ भूत बोला हे ब्राह्मण ! तुम क्या पूछतेहो ? मेरी र  
 फरो !!! ब्राह्मण बोला हे भूत ! तुम किस हेतुसे कठिन रुदन करतेहो ? सो क  
 ॥ ३० ॥ भूत बोला केदारयो जानेवाला ब्राह्मण इस स्थानपर रहताथा

सक्तो गृहदास्यां यदास्थितः ॥ ३१ ॥ तस्य जाता तदा कन्या  
सुरूपा च सुलक्षणा ॥ तस्यां सोऽपि रतो विप्रो गतं जन्म तथा  
सह ॥ ३२ ॥ न्यग्रोयो यो गृहद्वारे भूतानां शतपंचकम् ॥ आरुह्य  
सेवते चैकं म्लेच्छीभूतं महाद्रुमम् ॥ ३३ ॥ तत्क्षणात्प्रातमृत्युश्च  
वह्निदाहस्तया कृतः ॥ तेन भूता गताः स्वर्गं वटवृक्षेण संयुताः ॥  
॥ ३४ ॥ अक्षयं च पदं प्राप्तांस्तद्भूमेन द्विजोत्तम ॥ अहं पापी  
दुराचारो ह्यन्यकार्यव्यवस्थितः ॥ ३५ ॥ तेन दुःखेन संतप्तः  
क्रंदयामि पुनः पुनः ॥ विप्र उवाच ॥ ॥ यदि किंचित्प्रकर्त्त-  
व्यं मया प्रीत्या प्रसादनम् ॥ ३६ ॥ कथयस्व महाभूत येनाहं  
प्रकरोमि तत् ॥ भूत उवाच ॥ ॥ यदि मे वचनं श्रोतुं श्रद्धा  
कर्त्तुं च ते द्विजे ॥ ३७ ॥ मन्यसे विप्र यद्येवं सुमहत्पापहार-  
कम् ॥ तत्क्षणात्कुरु विप्रेन्द्र मैत्रं कार्यं सुवत्सलम् ॥ ३८ ॥  
तस्य विप्रस्य या कन्या सुरूपा च सुलक्षणा ॥ तस्याः कृत्ये  
भवेन्मोक्षः करणीयं द्विजोत्तम ॥ ३९ ॥ विप्र उवाच ॥ ॥

म्लेच्छीसे आसक्त हो उसक साथ घरमें रहताया ॥ ३१ ॥ उसके सुन्दर रूप-  
वाली शुभलक्षण युक्त कन्या उत्पन्न भई उसके होनपर वह ब्राह्मण मृत्युको प्राप्त  
हुआ ॥ ३२ ॥ उसके घरके द्वारपर बडका वृक्ष था जिसपर पांचसौ भूत रहते थे  
म्लेच्छी वृक्षपर चढ़कर उसे सेवन करती थी ॥ ३३ ॥ उसी समय वह मृत्युको  
प्राप्त हुआ उस म्लेच्छीने अग्निदाह करदिया उसके धुँसे सपण भूतगण उस  
वडके वृक्षसहित स्वर्गको प्राप्त हुए ॥ ३४ ॥ और अक्षय पद प्राप्त किया उसके  
धुँसे हे ब्राह्मण ! मैं पापी दुराचारी बंचित रहा कारण कि औरही कार्यमें संलभ  
था ॥ ३५ ॥ उस दुःखसे व्याकुल हो चारन्वार रोताहूँ । ब्राह्मण बोला यदि  
इच्छा पूर्तिके अर्थ मुझे जो कुछ करना योग्य हो ॥ ३६ ॥ सो हे भूत ! मुझसे  
कहो जिसे मैं पूण करूँ भूत बोला यदि मेरा दचन चुनते हो ॥ ३७ ॥ और  
मेरा पाप हरण करना मानते हो तो इसी समय मित्रता कार्य करो ॥ ३८ ॥ उस  
ब्राह्मणकी अच्छी रूपवती शुभलक्षणवाली कन्या है उसके द्वारा मेरा मोक्ष हो  
सकता है वह यहां काष्ठ एकत्रकर अग्नि लगावै ॥ ३९ ॥ ब्राह्मण बोला यदि



यदि मोक्षो भवेत्तुभ्यं शीघ्रं तत्प्रकरोम्यहम् ॥ श्रीश्वर उवाच ॥  
 तेन विप्रेण दग्ध्वा च स्थाने चैव हुताशने ॥ ४० ॥ तद्भूमौ वि-  
 हितस्तेन पतितः सर्वभूतकः ॥ पावके तु प्रज्वलिते विप्राज्ञागृह-  
 मध्यतः ॥ ४१ ॥ तत्क्षणादिव्यदेहस्तु त्रिनेत्रस्स चतुर्भुजः ॥  
 कुंडलाभरणो भूत्वा शशाङ्कधर एव च ॥ ४२ ॥ प्रणम्य हृष्ट-  
 पुष्टात्मा प्रोवाच गगनस्थितः ॥ त्वत्प्रसादाद्विजश्रेष्ठ स्वर्गं ग-  
 च्छामि चाक्षयम् ॥ ४३ ॥ तस्य भूतस्य रूपं हि तत्क्षणात्तेन  
 वीक्षितम् ॥ विप्रोऽपि पतितः सोऽपि तत्र मध्ये हुताशने ॥  
 ॥ ४४ ॥ सोऽप्यगच्छत्तदा देवि यत्राहं शंकरः स्वयम् ॥ अक्षयं  
 च पदं प्रातो रुद्रत्वमनिवर्त्तकम् ॥ ४५ ॥

इति श्रीरुद्रयामले केदारकल्पे श्रीश्वरदेवीसंवादे पंचयोगेन्द्रे-  
 च्छासिद्धिजीवन्मुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महापथे शिवदर्शने  
 सदेहकैलासगमने पंचशतभूतवटवृक्षमोक्षो नाम  
 चतुर्दशः पटलः ॥ १४ ॥ श्लोकाः ॥ ३१८ ॥

हुहारी मोक्ष होगी तो मैं ऐसा शीघ्र करताहूँ । शिवजी बोले उसी स्थानपर उस  
 ब्राह्मणके अग्नि जलानेपर ॥ ४० ॥ उस धूमसे व्याप्त भूत उसमें गिरा और अग्नि  
 के प्रज्वलित होनेपर ब्राह्मणके घरमेंसे ॥ ४१ ॥ उसी समय दिव्य शरीरधारी  
 त्रिनेत्र और चारभुजा धारण करके वह कुंडल आभूषणोंसे भूषित चन्द्रमा मस्त-  
 कपर धारण करे ॥ ४२ ॥ प्रणाम करके हृष्ट पुष्ट आत्मा ही, आकाशमें स्थित  
 होके बोला हे द्विज ! तुम्हारे प्रसादसे अक्षय स्वर्गको प्राप्त होता हूँ ॥ ४३ ॥  
 उस समय ब्राह्मणने भूतके उस रूपको देखा तब वहभी उस अग्निके मध्यमें  
 गिरगया ॥ ४४ ॥ हे देवि ! वह तहां प्राप्त हुआ जहां मैं स्वयं स्थित हूँ और  
 अक्षय स्थान पाया जहां जाकर नहीं लौटते ॥ ४५ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे ईश्वरपार्वतीसंवादे भाषाटीकायां चतुर्दशः पटलः ॥ १४ ॥

## पंचदशः पटलः ।

श्रीदेव्युवाच ॥ ॥ ॐ तेनोदकेन पीनेन किं चिह्नं देहजं भवेत् ॥ कथं मोक्षपरिज्ञानं चित्तसंयतिकारणम् ॥ १ ॥ एतदेव ममाख्याहि मानवानां हिताय च ॥ श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ पीतमात्रे जले देवि रौद्रो भवति वै गणः ॥ २ ॥ गर्जितो बहुशब्देन मद्योत्साहो गजन्द्रवत् ॥ तावदुद्रविमानेन प्रयाति त्रिदिवं जनः ॥ ३ ॥ अप्सरोगणसंघीर्णं नानादेवीसमावृतः ॥ गायंति तत्र गंधर्वा नृत्यंति गणनायकाः ॥ ४ ॥ महारागं प्रकुर्वति रुद्रकन्याः समंततः ॥ तावत्तत्र ध्वनिं श्रुत्वा क्षणेनैव निरीक्षते ॥ ५ ॥ क्षणात्पश्यति स स्वर्गं विमानवरमास्थितः ॥ सूक्ष्मगीतध्वनिं श्रुत्वा क्षणेनैव स पश्यात् ॥ ६ ॥ आत्मानं चित्तसुभगं पूज्यमानं महेश्वरम् ॥ जटामुकुटसंवीतं चन्द्रार्द्धेन विभूषितम् ॥ ७ ॥ त्र्यक्षं चतुर्भुजं चैव कुंडलयोतिताननम् ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ तस्यसंभवता लिंगं कथं चैव स पश्यति ॥ ८ ॥ एतं

पार्वती बोलीं उम जलके पीनेस देहसे उत्पन्न हुआ क्या चिह्न होता है और किसप्रकार मोक्षका ज्ञान चित्तको परिचय देनेवाला होता है? ॥ १ ॥ यह मनुष्योंके हितार्थ मुझसे कहो शिवजी बोले हे देवि ! मनुष्य जलके पीनेही मात्रसे रुद्रका गण होता है ॥ २ ॥ और बड़े शब्दके साथ उत्साहपूर्वक सिंहक समान गर्जता हुआ मनुष्य रुद्रके विमानपर चढ़ स्वर्गको जाता है ॥ ३ ॥ अप्सराओंसे व्याप्त और अनेक देवताओं सहित क्रीडा करता है, तहां गंधर्व गान करते हैं, गण, नायक नृत्य करते हैं ॥ ४ ॥ और रुद्रकन्या चारों ओर बड़े २ रागोंको गाती हैं तहां ध्वनिको सुनकर वह क्षणमात्र देखता है ॥ ५ ॥ क्षणमात्रमें वह स्वर्गको अवलोकन करता है और क्षणमेंही नहीं देखता सूक्ष्मगीतकी ध्वनिका सुनकर ॥ ६ ॥ अपने आपको सुभगचित्त, पूज्यमान महेश्वर जटा मुकुटधारी मस्तकपर चन्द्रमा धारण किये जानता है ॥ ७ ॥ त्र्यक्षधारी चतुर्भुज तथा कुंडलसे प्रकाशित मुखवाला होता है । देवी बोली उसका लिंग शरीर होता है सो किस प्रकार वह देखता है ॥ ८ ॥ हे देव ! यह मुझे संशय है सा कहा । शिवजी बोले हे

म संशयं देव कथयस्व महेश्वर ॥ श्रीश्वर उवाच ॥ ॥  
 शृणु देवि कथां दिव्यां सर्वपापप्रणाशिनीम् ॥ ९ ॥ कुल महात  
 विप्रस्य दुहिताभूत्पतिव्रता ॥ कालेन विहिता सा च विधवा  
 पूर्वकर्मणा ॥ १० ॥ तदा साचितयत्कर्म केदारगमनं प्रति ॥  
 यास्याम्यहं च केदारं शीघ्रमन्वेपणाय च ॥ ११ ॥ तथा भ-  
 र्त्या तदा सा च गता वै हिमपर्वते ॥ दृष्ट्वा चैव तु केदारमी-  
 शानममराधिपम् ॥ १२ ॥ रेतोवारि ततः पीत्वा पुनरेवागता  
 गृहम् ॥ आमंत्रयित्वा सा विप्रान्भोजयामास मन्दिरे ॥ १३ ॥  
 कामारं यौवनं कृत्वा भ्रातृभिः स्वजनैर्वृता ॥ प्राग्भावविनिवृत्त्यै  
 च दान दत्वाक्षमापयत् ॥ १४ ॥ तावत्सा धर्मसंयुक्ता व्रतं नि-  
 यममाचरत् ॥ यावत्तस्यास्तदा भ्राता चकार कलहं प्रिये ॥  
 ॥ १५ ॥ महद्भिर्दुष्टवचनेदैवद्रूपणतत्परैः ॥ यादृशी तादृशी त्वं  
 हि केदारगमने रता ॥ १६ ॥ हृदये संभवेन्नैव लिंगं नेदं कदाश्रुतम् ॥  
 श्रुत्वा च शोकसंतता दुःखं कृत्वा ह्यहर्निशम् ॥ १७ ॥ केदारं

देवि ! ससारके मध्य दिव्य कथाको सुनो ॥ ९ ॥ एक ब्राह्मणकी बड़ी कुलीन-  
 पुत्री बड़ी पतिव्रता थी समयके फरस पूर्व कर्मयोगके कारण वह विधवा होगई  
 ॥ १० ॥ तब उसने केदार जानेकी इच्छाकी और कहा कि मैं शीघ्र अन्वेपण  
 करनेके अर्थ केदारको जाऊंगी ॥ ११ ॥ उस भक्तिसे वह हेमपर्वतपर गई, तहां  
 केदारके देवस्वामी ईशान ( शिव ) का दर्शन करके ॥ १२ ॥ वीर्यसे उत्पन्न  
 हुए ( केदारके ) जलको पीकर फिर घरको आई और भक्तिसे तपोधन ब्राह्मणों  
 को बुला ॥ १३ ॥ यौवन अवस्थाको मदकर भाई और कुटुम्बियों सहित ब्राह्म-  
 णको दान देकर प्रार्थनाकी ॥ १४ ॥ जब वह धर्ममें तत्पर तथा व्रत और  
 नियममें लग रही थी उस समय उसका भाई लडाई ( कलह ) करने लगा ॥ १५ ॥  
 और देवताका दोष लगानेवाले बड़े निध वचनोंसे कहता था कि त ऐसीही,  
 वैसीही, और केदारके जानेमें तत्पर हुई ॥ १६ ॥ कहती है हृदयमें शिवलिंगप्रगट  
 होताहै हमने यह किसीसे नहीं सुना यह वचन सुन वह शोकसे व्याकुल तथा  
 रातदिन दुःखी रही ॥ १७ ॥ और हृदयमें केदारको चिन्तनकरती थी क्या यह

हृदये चिंत्य किमेवमुदकात्फलम् ॥ शोचन्ती निशि सा  
दीर्घ निद्रां याता च तत्क्षणात् ॥ १८ ॥ तावत्पश्यति देवं च  
जटासुकुटधारिणम् ॥ देवतादर्शनं लब्ध्वा ब्राह्मणी प्रणतस्थिता  
॥ १९ ॥ अत्रवीत्पादलया सा देवदेवं महेश्वरम् ॥ किमर्थं तु  
जलं पीत भ्राता स वक्ति भाषितम् ॥ २० ॥ एतत्कथय द्वेश-  
त्वद्यात्रा च न निष्फला ॥ श्रीकेदार उवाच ॥ ॥ मा शोची-  
स्त्वं महादेवि सफलं जन्म तत्तव ॥ २१ ॥ त्वद्धृदि प्रभवेऽलिंगं  
कंठमात्रं प्रसादतः ॥ प्रभाते विमले प्राप्ते चाह्वयस्व सहोदरम् ॥  
॥ २२ ॥ अपरेषां तथात्रे च गोदोहं पिव सुंदरि ॥ अंगुलीं च  
मुखे दत्त्वा गुद्धिं कृत्वा च तत्क्षणात् ॥ २३ ॥ तन्मध्ये च महा-  
लिंगं पश्येत्कंठसमप्रभम् ॥ प्रपश्यंतः सर्वलोका निश्चयो जायते  
ध्रुवम् ॥ २४ ॥ ॥ श्रीश्वर उवाच ॥ प्रभाते तादृशं कर्म सर्व-  
लोकैर्विलोकितम् ॥ लिंगभेदभयाद्गीता ब्राह्मणी च ततोऽभवत्  
॥ २५ ॥ हाहाकारः कृतः सर्वैर्द्रिजैस्तद्भ्रातृनिश्चिते ॥ पापिष्ठा

जल पीनेका फलहै ? हे देवि ! जवहीं वह ऐसा शोककर रहीथी कि उसे निद्रा  
आगई ॥ १८ ॥ तब जटा मुकुट धारी देवको देखा, और ब्राह्मणीने पृथ्वीपर  
प्रणाम किया ॥ १९ ॥ रोतीहुई देवताओंके देव महेश्वरके चरणोंमें पडकर बोली  
कि भरे भाईने कहा कि, तूने क्यों केदारका उदक ( जल ) पिया ॥ २० ॥ हे देव !  
क्या आपकी यात्रा निष्फलहै ? सो यह कहा । केदार बोले हे ब्राह्मणी ! तू शोक  
मत कर तेरा जन्म सफल होगया है ॥ २१ ॥ कंठ मात्रमें प्रसादसे तेरे हृदयमें  
लिंग उत्पन्न हुआ है प्रातःकाल अपने भाईको बुलाकर ॥ २२ ॥ तथा अन्य स्व-  
जनोंके आगे गायको दृहकर अपनी अंगुलीको भुवमें देना उसी समय प्रगटह्य  
॥ २३ ॥ उसके मध्यमें सुवर्णकी समान कान्तिपाले उस लिंगको देवना, तथा  
संपूर्ण मनुष्य देखेंगे. तो निश्चय विश्वास होगा ॥ २४ ॥ शिवजी बोले प्रातःकाल  
यह पूर्वोक्त दृश्य सब पुरुषोंने देखा तो उस लिंगभेदके भयसे वह ब्राह्मणी चकित  
हुई ॥ २५ ॥ और सबोंने हाहाकार किया, भाईके निश्चय होनेपर लोगोंने कहा

भ्रातरो ह्यस्या दुर्मदाः कुलपांसनाः ॥२६॥ भगिनीनिन्दका मृढा  
 देवताप्रभुद्वेषिणः ॥ एत एव महाघोरे पतन्ति नरकार्णवे ॥  
 ॥ २७ ॥ लिंगभेदेन ते सर्वे भगिनीशब्दकारकाः ॥ ततोऽसौ  
 ब्राह्मणी विप्रैरुक्ता लिंगं त्वमाहर ॥२८॥ गांदोऽनं च प्रपिवेद्येनेदं  
 संनिवर्त्तयेत् ॥ पीतेदुग्धं तदा याता ब्राह्मणी क्षीणदुष्कृता ॥  
 ॥ २९ ॥ संतोष्यब्राह्मणान्प्रीत्या प्राप्ता तत्परमं पदम् ॥ अहं पा-  
 पी दुराचारःपापात्मा च विशुद्ध्ये ॥ ३० ॥ इति भ्राता भव-  
 त्तस्याः प्रायेणात्मविशुद्ध्ये ॥ तदा निष्पादितं विप्रैस्तस्य पापस्य  
 शोधनम् ॥३१॥ महाकृच्छ्रं निरात्राणि परमानशनादयम् ॥ एतत्ते  
 कथितं देवि लिंगमाहात्म्यमुत्तमम् ॥ ३२ ॥ इदं गुह्यं महापुण्यं ये  
 शृण्वन्ति पठन्ति च ॥ सर्वपापविनिर्मुक्ताः शिवलोकं व्रजन्ति च ३३ ॥

इति श्रीरुद्रयामले केदारकल्पे श्रीश्वरदेवीसंवादे पंचयोगे-  
 न्द्रेच्छासिद्धिजावन्मुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महापथे शिवदर्शने  
 सदेहकैलासगमने विधवाब्राह्मणीमोक्षप्राप्तिर्नाम  
 पंचःशः पटलः ॥ १५ ॥ श्लोकाः ॥ ३५१ ॥

कि यह भाई दुर्मद और पापी कुलका मल है ॥ २६ ॥ तथा बहिनकी निन्दा करने  
 वाला मूर्ख, देवताका द्वेषी है इसको महाघोर नरक प्राप्त होगा ॥ २७ ॥ लिंगके  
 भेद होनेसे वे सब बहिन बहिन ऐसा शब्द करनेलगे । तब ब्राह्मणोंने उस ब्राह्मणी  
 से कहा कि लिंगको लोप करो ॥ २८ ॥ फिर गायकों दुहक पी, जिससे यह  
 लिंग अदृश्य हो, तब उसने दुग्धको दुहकर पिषा ॥ २९ ॥ और ब्राह्मणोंने उन  
 ब्राह्मणोंको संतुष्ट करके परम पद (मोक्ष) को पाया, भाईने भी कहा मैं पापी  
 दुराचारी हूँ ॥ ३० ॥ इस प्रकार अपने पापकी शुद्धिके निमित्त विचार तो ब्राह्म-  
 णोंने उसके पाप दूर होनेका उपाय यों कहा ॥ ३१ ॥ कि तीनरात्री निराहार  
 हो महाकृच्छ्र व्रत करो । हे देवि ! यह लिंग माहात्म्य तुमसे कहा ॥ ३२ ॥ इस  
 गोपनीय बड़े पावत्र इतिहासको जो मनुष्य पढ़ते हैं तथा सुनते हैं वे सब पापोंस  
 छुटकर शिवलोकमें प्राप्त होते हैं ॥ ३३ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे शिवपार्वतीसंवादे भाषाटीकाया पंचदशः पटलः ॥ १५ ॥

## षोडशः पटलः ।

श्रीकार्तिकेय उवाच ॥ ॥ ॐ मेरुपृष्ठे सुखासीनं देवदेवं जग-  
द्गुरुम् ॥ प्रासादयज्ञगत्रार्थं सर्वपूर्णं महेश्वरम् ॥ १ ॥ अप्राक्ष-  
महमीशानं साधकानां हिताय च ॥ महापथेन पश्यन्ति कया  
शक्त्या च मानवाः ॥ २ ॥ तदर्थं च फलं ब्रूहि सत्यं देव सदा-  
शिव ॥ गच्छन्ति साधकाः सर्वे स्वयं देहेन शंकर ॥ ३ ॥ श्रीश्वर  
उवाच ॥ ॥ मनसा कर्मणा वाचा सप्तजन्मनि किल्बिषम् ॥  
विनश्यति कृतं तेषां ये शृण्वन्ति महापथम् ॥ ४ ॥ महापथः  
परो धर्मस्त्रिषु लोकेषु विश्रुतः ॥ रुच्यते यदि लोकानां गतीनां  
परमा गतिः ॥ ५ ॥ मया स्नेहेन ते नूनं कथ्यते यदि कौतुकम् ॥  
पथां मध्ये महापथाः पदानां पदमुत्तमम् ॥ ६ ॥ पथां चैव हि सर्वे-  
षां महाज्ञानं ससुत्तमम् ॥ उद्धर्तुं सर्वजंतूनां केदारं तीर्थदुर्ल-  
भम् ॥ ७ ॥ दुर्लभं देवतानां च दुर्लभ्यमितैरर्जनैः ॥ दुर्लभं गण-  
गंधर्वैर्यच्च शास्त्रं वदाम्यहम् ॥ ८ ॥ रम्यं च दिव्यशास्त्रेषु भुक्तिमु-  
क्तिप्रदायकम् ॥ श्रुत्वा विघ्ना विनश्यन्ति पापानि सकलानि च ॥ ९ ॥

श्री कार्तिकेय सुमेरु पर्वतके ऊपर सुखसे बैठे हुए देवताओंके देव जगद्गुरु  
महेश्वरको प्रसन्न करके बोले ॥ १ ॥ कि हे ईश ! मैं साधकोंके हिताय पृच्छता हूँ  
कि मनुष्य किस शक्तिसे बड़े मार्ग ( महापंथ ) को देखते हैं ॥ २ ॥ हे सदाशिव !  
उनके अर्थ सत्य ॥ २ ॥ उस फलको कहो जिससे संपूर्ण साधक सदेह उस परम-  
पंथको पावें ॥ ३ ॥ शिवजी बोलें जो महापंथके महत्त्वको श्रवण करते हैं उनके  
मानसिक कायिक वाचिक सात जन्मोंके पाप नष्ट होते हैं ॥ ४ ॥ महापंथ परम  
धर्म और तीनों लोकोंमें विख्यात है, यदि सबलोकोंमें परम गतिकी रुचि हो ॥  
॥ ५ ॥ तो मैं निश्चय तुमसे स्नेहके कारण कहता हूँ कि समस्त पंथोंके मध्यमें  
उत्तम महापंथ है ॥ ६ ॥ समस्त ज्ञानोंमें ब्रह्मज्ञान उत्तमहै और सब प्राणियोंके  
उद्धारको केदार तीर्थ है ॥ ७ ॥ वह, देवता, मनुष्य, गण तथा गंधर्व इन सबोंके  
दुष्प्राप्य है । जो शास्त्रमें कहताहूँ ॥ ८ ॥ वह सब शास्त्रोंमें रम्य तथा भुक्ति मुक्ति  
का दायक है जिसको श्रवण करके समस्त विघ्न और पाप नष्ट होते हैं ॥ ९ ॥

श्रुतश्च पठितश्चैव कल्पो यच्छेन्महापथम् ॥ पदे पदे  
 महापुण्यं गंगास्नानं दिनेदिने ॥ १० ॥ अधर्मेण समायुक्ता न  
 पश्यन्ति महापथम् ॥ पश्यन्ति योनिमार्गं तु जनाः पापेन मोहिताः  
 ॥ ११ ॥ मानुषाश्च महासेन पापं कृत्वा विशेषतः ॥ केदारदृष्टि-  
 मात्रेण पापराशिर्विनश्यति ॥ १२ ॥ यत्र तिष्ठति कल्पश्च  
 तत्र तिष्ठन्ति देवताः ॥ अष्टपष्ट्यादितार्थानि ख्यातानि भुवनत्रये  
 ॥ १३ ॥ ब्रह्मविष्णुमहेशानां सुरेन्द्रस्त्रिदशाधिपः ॥ देवतासहित-  
 स्तत्र इन्द्रस्तिष्ठति नित्यशः ॥ १४ ॥ स्वर्ग मर्त्ये च पाताले  
 ग्रहनक्षत्रतारकाः ॥ यत्र तिष्ठति कल्पस्तु सर्वे तिष्ठन्ति तत्र वै ॥  
 ॥ १५ ॥ पवित्रं वै सदाकल्पं ये शृण्वन्ति पठन्ति च ॥ राजद्वारे यम-  
 द्वारे भयं तत्र न विद्यते ॥ १६ ॥ पवित्रं वै महापुण्यं यत्र कल्पो  
 महापथः ॥ सदृशो रुद्रतुल्यो वै विशेषो यस्य मन्दिरे ॥ १७ ॥  
 गृहे ये तु सदा कल्पं शृण्वन्ति च पठन्ति च ॥ घोर संकट आरण्ये  
 न भयं विद्यते क्वचित् ॥ १८ ॥ वाराणस्यां कुरुक्षेत्रे गयायां

पथं कल्पको सुनकर अथवा पढ़कर पद २ में गंगास्नान करनेके समान अधिक  
 य होता है ॥ १० ॥ अधर्मसे युक्त जो मनुष्य महापथ ( कल्प ) को नहीं देखते  
 व पापी योनि मार्ग ( जन्ममृत्यु ) को देखते हैं ॥ ११ ॥ ह स्वामिकात्तिकेय  
 ण्य विशप पापको भी करके केदारक दर्शन करे तो पापोंका समुदाय नष्ट होता  
 ॥ १२ ॥ जहां कल्प स्थित होता है तहां देवता नित्य रहते हैं अडसठ ६८ तीर्थ  
 नों लोकमें विख्यात हैं ॥ १३ ॥ ब्रह्मा विष्णु महेश बृहस्पति आदि देवताओंके  
 हेतु वहां इन्द्र नित्य स्थित रहताहै ॥ १४ ॥ स्वर्ग मृत्यु और पातालमें जितने  
 नक्षत्र तारे हैं वे जहां पर कल्प पुराण स्थित जानते हैं तहां सब स्थित रहते  
 ॥ १५ ॥ जो मनुष्य पवित्र कल्पको सदा सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं राजद्वारमें  
 व यमके द्वारमें उनको भय नहीं रहता ॥ १६ ॥ जिस मनुष्यके घर महा-  
 कल्प स्थित होताहै वह बड़ा पवित्र है, वह पुरुष शिवके तुल्य विशेषहै ॥  
 १७ ॥ जो अपने घरपर नित्य कल्पको श्रवण करतेहैं और पढ़तेहैं उनको घोर  
 कट तथा वनमें कहीं भय नहीं होता ॥ १८ ॥ काशी कुरुक्षेत्र प्रयाग और य

च प्रयागके ॥ यत्फलं प्राप्यते येन तत्फलं प्रतिपूजनात् ॥ १९ ॥  
वसन्ति तानि तीर्थानि गृहे यस्य महापथः ॥ महापथं महाकल्पं  
सर्वकालं पठन्ति ये ॥ २० ॥ फलं केदारयात्रायां ते लभन्ते गृहे  
स्थिताः ॥ पूर्वजैः सहिताः सर्वे ह्यन्ते यांति शिवालयम् ॥ २१ ॥  
न तेषां पुनरावृत्तिः कल्पकोटिशतैरपि ॥ शंकरस्य प्रसादेन  
विष्णोश्चैव विशेषतः ॥ २२ ॥ गच्छन्ति शिवसान्निध्यं भुञ्जते  
विपुलां श्रियम् ॥ तेषां तुष्टो महादेवो गौर्या साद्धं त्रिलोचनः ॥  
॥ २३ ॥ ते लभन्ते महाकल्पं देवदानवदुर्लभम् ॥ विना रुद्रप्र-  
सादेन न लभन्ते महापथम् ॥ २४ ॥ एतानि च महासन सत्यं  
सत्यं वदाम्यहम् ॥ यस्मिन्नेव नराः पूर्वमर्चयित्वा महेश्वरम् ॥  
॥ २५ ॥ राज्यं स्वर्गं च मोक्षं च संलभन्ते युगेयुगे ॥ मह्यं चैव  
प्रतिष्ठन्ते यानि वृक्षतृणानि च ॥ २६ ॥ समुद्राशीतिलक्षणा-  
मभ्रच्छाया गृहे तथा ॥ तेषां संख्यां च जानामि हेमपुण्यं वदा-  
म्यहम् ॥ २७ ॥ हेममंदिरसंकासः प्रासादाः शिवशाशने ॥ तेषां

जानेसे जो फल प्राप्त होता है वह एक केदारके पूजनसे उपलब्ध होता है ॥ १९ ॥  
जिसके घर महापथकल्प होता है वहाँ संपूर्ण तीर्थ स्थित रहते हैं, जो महापथ  
कल्पको सब समय पढ़ते हैं ॥ २० ॥ वे केदारकी यात्राके फलको घरपर स्थित  
दुएही पाते हैं और अन्त समय अपने पूर्वजों ( पुरुषाओं ) सहित शिव लोकको  
प्राप्त होते हैं ॥ २१ ॥ और उनकी पुनरावृत्ति ( पुनर्जन्म ) करोंडों कल्पोंमेंभी  
नहीं होती है. शिवके प्रसादसे विष्णुकी ॥ २२ ॥ तथा शिवकी समीपतानों पाते  
हैं, और अधिक लक्ष्मीको भोगते हैं उसीसे पार्वती सहित शिवजी संतुष्ट होते हैं ॥  
॥ २३ ॥ वेही, देवता और राक्षसोंमें दुर्लभ महाकल्पको पाते हैं, विना शिवकी  
कृपासे यह कल्प नहीं मिलता ॥ २४ ॥ हे महासेन ! यह सत्य २ में कहता हूँ कि,  
जो पहले केदारपर महेश्वरको पूजते हैं ॥ २५ ॥ वे प्रति युगमें राज्य, स्वर्ग, मोक्ष,  
को प्राप्त करते हैं, और पृथ्वीपर बेलके पेड़ होकर स्थित होते हैं ॥ २६ ॥ और  
चौरासीलास भयोंकी छाया जितने घर पर होती है उतनी संख्याको जानकर केदा-  
रके पुण्यको कहता हूँ ॥ २७ ॥ सुमेरु पर्वतकी जैसे योजनाकी संख्या नहीं है वे



संख्यां च० ॥२८॥ आकाशात्पतितं तोयं पृथिव्या परितिष्ठति ॥  
 तस्य संख्यां च० ॥२९॥ समुद्रांशीतिलक्षाणि तारकाणि स्थिता-  
 नि च ॥ तेषां संख्यां च० ॥ ३० ॥ सागरे च महासेन ह्यनला  
 विपुला मताः ॥ तेषां संख्यां च० ॥ ३१ ॥ नरानार्य्यश्च यत्रो-  
 वर्या तिष्ठति च गृहेगृहे ॥ तेषां संख्यां च० ॥ ३२ ॥ देवदानव-  
 दैत्याश्च यक्षराक्षसकिन्नराः ॥ तेषां संख्यां च जानामि हेमपुण्यं  
 वदाम्यहम् ॥ ३३ ॥ सर्वभूताश्च तिष्ठति स्वस्थिता भुवनत्रये ॥  
 तेषां संख्यां च जानामि हेमपुण्यं वदाम्यहम् ॥ ३४ ॥ महा-  
 पथे महापुण्यो महारुद्रभयंकरम् ॥ स्वामिन्पथेन कल्पेन दर्शने च  
 महाशुभम् ॥ ३५ ॥ तेन मार्गेण गंतव्यमभेद्यो देवदुर्लभः ॥ भय-  
 शंका न कर्त्तव्या गंतव्यश्च हिमालयः ॥ ३६ ॥ महापथे महासेन  
 विप्रो नास्ति कदाचन ॥ तस्य कल्पप्रसादेन सत्यं सत्यं वदा-  
 म्यहम् ॥ ३७ ॥ स्वर्गः सोपानमार्गेण मया तात विनिर्मितः ॥

ही हिमालय पर्वतके पुण्यकी संख्या नहीं है ॥ २८ ॥ आकाश परसे गिराहुआ  
 जल पृथ्वीपर गिरताहै उसके कणोंकी संख्या नहींहै चाहै यह सरया होजाय पर  
 केदारकी पुण्यकी संख्या नहींहै ॥२९॥ चौरासी लाख तारा गणोंकी संख्या होसकती  
 है परंतु हिमालय पर्वतके पुण्यकी सीमा नहींहै ॥३०॥ हे महासेन समुद्रमे बडवा  
 नल जग्नि अधिरुहै उसकी संख्याहै परंतु इस पुण्यकी संख्या नहीं है ॥३१॥ संपूर्ण  
 नर नारी तीनों लोकमें अपने २ घरपर स्थितहै उनकी संख्याहै और इस पुण्यकी  
 नहीं ॥३२॥ देवता दैत्य यक्ष राक्षस किन्नर इन सबकी संख्याको जानताहूँ परंतु इस  
 पुण्यकी संख्याको नहीं जानता ॥३३॥ संपूर्ण जीव जो तीनों लोकमें स्थितहै उनकी  
 संख्याको जानताहूँ पर इस पुण्यकी संख्या नहीं जानता ॥३४॥ महापंथमे बडा पुण्यहै  
 महारुद्र और भयंकरहै स्वामीके पंथ तथा कल्पके दर्शनसे अधिक कल्याण होता  
 है ॥ ३५ ॥ उस मार्गसे जाना चाहिये जो अभेद्य और देवताको दुर्लभहै उस  
 महापंथमें गमन करनेको भयकी शंका नहीं करनेी चाहिये ॥ ३६ ॥ हे महासेन  
 उस महापंथमें कदापि विप्र नहीं होते उस कल्पके प्रतापसे यह सत्य २ कहताहूँ  
 ॥ ३७ ॥ हे तात ! मैंने सोपानके मार्गसे स्वर्ग निर्माण कियाहै जो मनुष्य उसे

मानुषा नैव पश्यन्ति संसारे किमुपार्जितैः ॥ ३८ ॥ ब्रह्मघाती  
 तथा गोघ्नो मातृघ्नः पितृघातकः ॥ बालवृद्धा युवानो वा हीन-  
 सत्त्वास्तथा लसाः ॥ ३९ ॥ अगम्यागमने शक्ता वेदशास्त्रार्थ-  
 वर्जिताः ॥ अधर्मेण समायुक्ता भुवि तिष्ठन्ति मानवाः ॥ ४० ॥  
 जन्मान्तरसहस्रेषु क्रियते पापकर्म यैः ॥ केदारोदकपानेन भस्मी-  
 भवति तत्क्षणात् ॥ ४१ ॥ संसारे मानवा अंधाः पापराशिसम-  
 न्विताः ॥ कल्पश्रवणमात्रेण ते यांति शिवशासने ॥ ४२ ॥  
 करे कल्पो भवेद्यस्य सर्वास्तस्यार्थसिद्धयः ॥ यत्कृतश्च मया-  
 कल्पः साधकानां हिताय च ॥ ४३ ॥ प्रत्यक्षे च कृतं दीपे अंधाः  
 कूपे पतन्ति च ॥ संसारे ये नराः सर्वे मोहिताः कर्मबंधनैः ॥ ४४ ॥  
 केदारं ये न जानन्ति वृथा तेषां जनुर्ध्रुवम् ॥ संसारे सागरे घोरे  
 दुस्तरे न रकार्णवे ॥ ४५ ॥ विना कल्पं महासत्त्वैः स्पंदितुं न  
 च शक्यते ॥ रचितः स्वर्गसोपानो नौर्या संसारसागरे ॥ ४६ ॥  
 उत्तारणाय लोकानां मृत्युलोकेऽवतारिता ॥ जलं च बुद्बुदा-

कारं यथा संसारिणस्तथा ॥ ४७ ॥ अभ्रच्छाया यथा सेनं तथा  
 संसारिणो जनाः ॥ जलमध्ये यथा मत्स्याः धिभ्रंजालैश्च रोधिताः ॥  
 ॥ ४८ ॥ संबद्धा मोहपाशेन नैव गच्छन्ति मत्पुरे ॥ संसारमोह-  
 पाशेन बद्धा यांति च नारकम् ॥ ४९ ॥ महापथं महाशास्त्रं देव-  
 दानवदुर्लभम् ॥ स्वर्गशास्त्रं महारम्यं सर्वपापविनाशनम् ॥ ५० ॥  
 प्रसादो मंदिरं छत्रं शिवस्य परिकीर्तनम् ॥ तस्य रुद्रपदे वासो  
 यावदिन्द्राश्चतुर्दश ॥ ५१ ॥ केदारं च महानाम ये वदन्ति गृहे  
 स्थिताः ॥ सुवत्सरकृतं पापं मुच्यते नात्र संशयः ॥ ५२ ॥ ध्या-  
 यन्तो मनसा लोका ये गच्छन्ति हिमालये ॥ सप्तजन्मकृतं पापं  
 तेषां नश्यति तत्क्षणात् ॥ ५३ ॥ केदारगमनं ये च वाचयन्ति  
 वदन्ति च ॥ रविदिव्यप्रकाशेन गच्छन्ति शिवशासने ॥ ५४ ॥  
 कर्मणा च महासेन गताः केदारदर्शनम् ॥ केदारदर्शनं कृत्वा  
 रेतोनीरं पिबन्ति ये ॥ ५५ ॥ कल्पकोटिसहस्राणि कल्पकोटि-

तः संसारके मनुष्यहैं ॥ ४७ ॥ हे महासेन ! मेघकी छायाकी समान संसारी  
 मनुष्यहैं जैसे जलके मध्यमें मछली धीमरोंके जालसे फंसीहैं ॥ ४८ ॥ तैसे  
 ही मोहक फांससे बंधे हुए मनुष्य मेरे पुरमें नहीं जाते संसारके मोहपाशमें फंसे  
 मनुष्य सदा नरकमें पड़तेहैं ॥ ४९ ॥ महापथका यह कल्परूप महाशास्त्र देव तथा  
 दानवोंमें दुर्लभहै तथा यह स्वर्गाप्य शास्त्र सब पापोंको नष्ट करनेवालाहै ॥ ५० ॥  
 जो शिवका प्रसाद तथा मंदिर और छत्र धारण करे, उसका शिवपुरमें निवास तब-  
 तक रहताहै जबतक चौदह इन्द्र रहतेहैं ॥ ५१ ॥ जो मनुष्य अपने घरपर स्थित  
 होकर केदारके नामका स्मरण करतेहैं वे एकवर्षके पापोंसे छूटतेहैं इसमें कुछ सं-  
 देह नहींहै ॥ ५२ ॥ मनसे ध्यान करनेपर अथवा हिमालय पर्वतपर जानेसे, सात  
 जन्मका संचितपाप तत्क्षणही नष्ट होताहै ॥ ५३ ॥ जो पुरुष केदारके गमनको कह-  
 लातेहैं अथवा स्वयम् कहतेहैं दिव्य सूर्यके प्रकाशसे वे शिव लोकको प्राप्त होतेहैं ॥  
 ॥ ५४ ॥ हे महासेन ! सुकर्मसे मनुष्य केदारके दर्शनोंको जातेहैं और केदारके  
 दर्शनको करके तीर्थसे उत्पन्न हुए जलको पीते हैं ॥ ५५ ॥ वे करोड़ों कल्प

शतानि च ॥ सहितः पितृभिस्तेऽपि गच्छन्ति शिवशासने ॥ ५६ ॥  
 यत्र स्थाने सुराः सर्वे गंधर्वाश्च गणैः सह ॥ तत्र स्थाने तदा  
 तेऽपि भुंजते विपुला श्रियम् ॥ ५७ ॥ वसन्ति मानुपास्तत्र गर्भ-  
 वासं पुनः पुनः ॥ केदारं नैव पश्यन्ति संसारे निष्फला गताः ॥  
 ॥ ५८ ॥ अज्ञानान्नैव जानन्ति न गच्छन्ति शिवालयम् ॥ ततः  
 कृत्यं महासेन कथयामि शृणुष्व तत् ॥ ५९ ॥ भावभक्तिसमा-  
 युक्तं मंत्रशास्त्रे यथोदितम् ॥ स्थापितं यैर्महालिंगं शृणु तेषां च  
 यत्फलम् ॥ ६० ॥ यावद्भूरचलो मेरुर्दिव्यस्वर्गे सुरोत्तमाः ॥ भाव-  
 भक्तिसमायुक्तं मंत्रशास्त्रं यथात्मनः ॥ ६१ ॥ पितृभिः सहिता  
 स्तेऽपि शिवलोके वसन्ति च ॥ सर्वधर्मचये व्यग्रा गुर्व्वतिथ्योः  
 प्रपूजने ॥ ६२ ॥ यावत्स्वर्गे महादेवो यावन्नरं च सागरे ॥  
 सहिताः पितृभिस्तेऽपि शिवलोके वसन्ति च ॥ ६३ ॥ सर्वदेव  
 समाः सिद्धा भुंजते विपुलां श्रियम् ॥ भुक्त्वा च विपुलान्भोगाँल्लभ-

पर्यन्त तथा सैकडों कल्पतक अपने भाई बांधवोंके सहित शिवलोकको पाते हैं  
 ॥ ५६ ॥ जिस स्थानमें संपूर्ण देवता तथा गंधर्व गणों सहित स्थित हैं उसी  
 स्थानमें अधिक भोगोंको भोगते हैं ॥ ५७ ॥ जो मनुष्य केदारको नहीं देखते हैं  
 वे मनुष्य वारंवार गर्भाशयमें निवास करते हैं, उनका जन्म संसारमें निष्फल  
 गया ॥ ५८ ॥ वे अज्ञानसे नहीं जानते कि शिव महिमा कैसी है और जो  
 शिवके आलय ( केदार ) को जाते हैं हे महासेन ! उनका कृत्य कहताहूँ सो सुनो  
 ॥ ५९ ॥ प्रेम और भक्तिके सहित जैसा मंत्रशास्त्रमें कहाहै उस प्रकार जिन्होंने  
 महालिंग स्थापित कियाहै, उनका फल सुनो ॥ ६० ॥ जबतक पृथ्वी अचल है  
 तथा मेरु और स्वर्गमें देवता हैं भावभक्तिपूर्वक तथा मंत्र शास्त्र विधिके अनु-  
 सार ॥ ६१ ॥ पितरों सहित वहभी शिवलोकमें निवास करताहै, अतिथि सत्कार  
 गुरुसेवा करना आदि धर्ममें जो मनुष्य तत्पर हैं ॥ ६२ ॥ जबतक स्वर्गमें महा-  
 देव और समुद्रमें जल है वेभी पितरोंके सहित शिवलोकमें निवास करतेहैं ॥ ६३ ॥  
 और संपूर्ण देवताओंके सहित विपुल भोगोंको भोगते हैं, और उन भोगोंको

ते चाक्षयां गतिम् ॥ ६४ ॥ शंकरस्य प्रसादेन लभन्ते रुद्रता  
 नराः ॥ इच्छाभोगो भवेत्तेषां भुञ्जते विपुलां श्रियम् ॥ ६५ ॥  
 अमृतं च परित्यज्य विषं लोकाः पिबन्ति च ॥ कौतूहलं मया  
 दृष्टं क्षीरं त्यक्त्वा विषं पिबेत् ॥ ६६ ॥ सागरे च यथा नैका  
 संसारे कल्प एष च ॥ विनिर्मितो महासेन मनुष्योत्तरणाय च  
 ॥ ६७ ॥ न पश्यन्ति मूर्तिं दिव्यां मायामोहसमाकुलाः ॥ बहु-  
 कामप्रपूर्णाश्च क्रोधपापैश्च पूरिताः ॥ ६८ ॥ एतैस्तु दोषैः  
 सहिता जातयंधा मानुषा भुवि ॥ स्थाने तत्र न पश्यन्ति यत्र  
 दिव्यो महापथः ॥ ६९ ॥ योनिमार्गं सहस्रं च ह्यधमोत्तममध्यमाः  
 ॥ गच्छन्ति मानुषाः सर्वे नैव गच्छन्ति मत्पुरे ॥ ७० ॥ गृहद्वारं  
 परित्यज्य ये गच्छन्ति महापथम् ॥ ऊर्ध्वस्थाने तु जायन्ते यत्र  
 देवो महेश्वरः ॥ ७१ ॥ एकचित्ताश्च ये केचिच्छिवलोकं व्रजं-  
 ति च ॥ एवं रम्यं महाशास्त्रं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् ॥ ७२ ॥  
 स्वर्गशास्त्रं महारम्यं दृष्ट्वा स्कन्दस्तमब्रवीत् ॥ स्कन्द उवाच ॥

भोगकर अक्षय गति ( मोक्ष ) को पाते हैं ॥ ६४ ॥ और शिवके प्रसादसे रुद्रके  
 गर्णोंकी पदवीको पाते हैं और उसको इच्छानुकूल भोग मिलता है ॥ ६५ ॥  
 हा ! लोक अमृतको त्यागकर विष पान करते हैं यह मैंने कौतूहल ( आश्चर्य )  
 देखा कि दूधको छोड़ विषको पीते हैं ॥ ६६ ॥ समुद्रमें जैसे नौका है इसी प्रकार  
 संसारमें कल्प मैंने मनुष्योंके पार जानेके अर्थ निर्माण किया ॥ ६७ ॥ माया  
 और मोहसे युक्त मनुष्य दिव्य मार्गको नहीं देखते और जो पूर्ण कामसे भरे  
 तथा क्रोध और पापसे श्रित हैं ॥ ६८ ॥ इन दोषोंके सहित मनुष्य जातिमें  
 अंध हुए हैं वहां उस स्थानको नहीं देख सकते जहां दिव्य महापथ है ॥ ६९ ॥  
 और हजारों वार योनि मार्गमें अधम मध्यम उत्तम मनुष्य प्राप्त होते हैं जो मेरे  
 पुरको नहीं जाते ॥ ७० ॥ जो घरके द्वारको छोड़ महापथको जाता है वह ऊपर  
 स्थानमें प्राप्त होता है जहां महेश्वर देव हैं ॥ ७१ ॥ जो एकचित्त हुए मनुष्य हैं  
 वे शिवलोकमें जाते हैं यह रम्य महाशास्त्र ( कल्प ) तीनों लोकोंमें दुर्लभ है ॥  
 ॥ ७२ ॥ स्वर्ग शास्त्रको देखकर स्कन्दने मुझसे पूछा स्कन्द बोले कि हे देव !

पुनः पृच्छाम्यहं देव वचो मे शृणु शंकर ॥ ७३ ॥ पुरा मार्गं  
च पश्यन्ति साधकानां हिताय च ॥ नराणामृद्धनाथाय केदारं  
तीर्थमुत्तमम् ॥ ७४ ॥ कैलासपीठमध्ये तु योगगम्य महेश्वर ॥  
ब्रह्मविष्णुसुराः सर्वे सिद्धविद्याधराश्च ये ॥ ७५ ॥ एवं मम  
हि तं दृष्ट्वा विस्मयं परमं गतः ॥ महापथः कथं देव क्व स्थाने  
च महापथः ॥ ७६ ॥ येन गच्छन्ति मार्गेण संसारभयपीडिताः ॥  
ब्रूहि वाक्यं महादेव त्रिदशेश्वरपूजित ॥ ७७ ॥

इति श्री० श्रीकेदारकल्पे विख्यातपुराणे ईश्वरकार्तिकेय सं-  
वादे पंचयोगेन्द्रेच्छासिद्धिजीवनमुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महा-  
पथे शिवदर्शने सदेहकैलासगमने कल्पप्रशंसा-  
नाम षोडशः पटलः ॥१६॥ श्लोकाः ४३०॥

में फिर इच्छा करता हूँ ॥ ७३ ॥ और साधकोंके हितके कारण उस पुरातन  
पंथको देखा मनुष्योंके उद्धार करनेको केदार उत्तम तीर्थ है ॥ ७४ ॥ कैलास  
पर्वतके ऊपर योगसे मिलने योग्य शिवजी हैं ब्रह्मा विष्णु सिद्ध विद्याधर आदि  
वहाँ स्थित हैं ॥ ७५ ॥ इस प्रकार कठिनताको देखकर स्कंदने कहा हे देव !  
महापंथमें किस प्रकार और किस स्थानमें श्रमपूर्वक ॥ ७६ ॥ जिस मार्ग  
के द्वारा संसारके भयसे पीडित मनुष्य जावें सो मार्ग कृपा करके आप सुझे  
सुनावें ॥ ७७ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे शिवपार्वतीसंवादे भाषाटीकायां षोडशः पटलः ॥ १६ ॥

## सप्तदशः पटलः ।

श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ ॐ शृणु स्कंदमहाप्राज्ञ महायोगिन्महा  
तपः ॥ गच्छन्ति शिवसांनिध्यं केदारं तीर्थमुत्तमम् ॥१॥ निर्भ-  
येन महामार्गो गंतव्यश्च हिमालयः ॥ अघोरेण च मंत्रेण ह्यष्ट

शिवजी बोलें हे महाबुद्धिमान् महायोगी महातपस्वी स्कंद ! उत्तम केदार  
तीर्थमें शिवके समीप प्राप्त होतेहैं ॥ १ ॥ निर्भय हो हिमालय पर्वतपरमहापंथ-

पृथ्विनिर्मितः ॥२॥ अघोरश्च महामंत्रो महासिद्धिकरो नृणाम् ॥  
 महाविघ्नहरो नित्यं महामोक्षप्रदायकः ॥ ३ ॥ आश्विने  
 चैव मासे वै गंतव्यश्च महापथः ॥ अघोरेण च मंत्रेण ये स्मर-  
 न्ति च नित्यशः ॥ ४ ॥ प्रथमं तत्र गंतव्यं ललिता यत्र ति-  
 ष्ठति ॥ स्नात्वा मंदाकिनीतीर्थं ह्युपवासं च कारयेत् ॥ ५ ॥  
 मंदाकिनीसंगमे च ह्येकरात्रप्रजागरात् ॥ महारुद्रप्रसादेन प्राप्त-  
 व्यो मार्ग उत्तमः ॥ ६ ॥ रुद्रेश्वरो महातीर्थं दृष्टो हरति पात-  
 कम् ॥ पूर्वजन्मकृतैनांसि नश्यन्ति शिवदर्शनात् ॥ ७ ॥ केश-  
 त्यागश्च कर्त्तव्यस्तत्र स्थाने महाबुधैः ॥ मालाया धारणं कृत्वा  
 स्नात्वा मंदाकिनीजले ॥ ८ ॥ तुष्टा वरप्रसादेन तेऽपि यांति परां  
 गतिम् ॥ लोकैर्दृष्ट्वा च मार्गेण गंतव्या चोत्तरा ककुप् ॥ ९ ॥  
 विघ्नेश्वरप्रसादेन गुरुधर्मवलेन च ॥ पश्चात्तत्रैव गंतव्यं केदारं  
 प्रथमाश्रमः ॥ १० ॥ संप्राप्य तत्र स्थाने च केदारं परमेश्वरम् ॥

को जाना चाहिये अघोर मंत्रसे जो आठं तथा छै अक्षरोंसे निर्माण कियाहै ॥  
 ॥ २ ॥ अघोर महामंत्र मनुष्योंको सिद्धि कारकहै और बडे विघ्नोंको हरण करने  
 वालाहै तथा बडे मार्गको देनेहाराहै ॥ ३ ॥ आश्विन मासमें महापथमें जाना  
 योग्यहै जो पुरुष अघोर मंत्रसे नित्य स्मरण करतेहैं ॥ ४ ॥ पहले वहां जावे  
 जहां ललिता स्थितहै, मंदाकिनी तीर्थपर स्नान करके उपवास करें ॥ ५ ॥ मंदा  
 किनीके संगममें एक रात्रि जागरण करें । शिवके प्रसादसे फिर उत्तम मार्गको  
 प्राप्त हों ॥ ६ ॥ रुद्रेश्वर महातीर्थमें शिवके दर्शन करनेसे पूर्वजन्मके पाप नष्ट  
 होतेहैं ॥ ७ ॥ और बुद्धिमान् पुरुष उस स्थानपर केशत्याग ( मुंडन ) करावें  
 और मंदाकिनीके जलमें स्नान करके माला धारण करें ॥ ८ ॥ उन शिवके प्रसाद  
 से वह तत्त होकर परम गतिको प्राप्त होतेहैं मनुष्य देखकर उस; मागसे उत्तर  
 दिशाकी ओर जावे ॥ ९ ॥ विघ्नेश्वरके प्रसादसे और गुरुसेवा रूप धर्मके बलसे  
 फिर तहांही केदारके पहले आश्रममें जाना चाहिये ॥ १० ॥ उस स्थानमें के-

तृताश्व पितरस्तत्र हंसतीर्थेषु सायकाः ॥ ११ ॥ पूजयित्वा  
यथा शक्त्या केदारं पापनाशनम् ॥ संप्राप्तं च महामार्गं केदारे  
पापनाशने ॥ १२ ॥ सप्तकोटिसहस्राणि रक्षन्ति च गणोत्तमाः ॥  
मनुष्याणां हितार्थाय स्वयं देवेन निर्मिताः ॥ १३ ॥ देवदानव-  
दैत्याश्च यक्षराक्षसकिन्नराः ॥ न लभन्ते जलं स्कन्द ये चान्ये  
पापिनो जनाः ॥ १४ ॥ पितृदेवगणाः सर्वे स्नात्वा मंदाकिनी-  
जले ॥ भवेद्युर्निर्मलाः स्कन्द ये चान्ये पापकारिणः ॥ १५ ॥ तुष्टा  
वरं प्रयच्छन्ति ततो यांति परां गतिम् ॥ देवस्य दक्षिणे पार्श्वे रेतः-  
कुण्डं व्यवस्थितम् ॥ १६ ॥ इह जन्मकृतं पापं दृष्टमात्रे निहन्ति  
तत् ॥ स्पर्शनाच्छुक्रकुण्डस्य सप्तजन्मकृतं व्रजेत् ॥ १७ ॥ यानि  
कानि च तीर्थानि विख्यातानि महीतले ॥ रेतःकुण्डस्य तान्येव  
कलां नाहति षोडशीम् ॥ १८ ॥ कुण्डस्य दक्षिणे भागे उत्तरा-  
भिमुखः स्थितः ॥ वामहस्तेन पूर्वस्यास्त्रीन्वारान्प्रापिवेज्जलम् ॥  
॥ १९ ॥ दक्षिणस्यां च वारांस्त्रीन्पिबेदञ्जलिनोदकम् ॥ गोमुखे तत्र

द्वार परमेश्वर स्थितहं वहां पितरोंको तर्पण करके ॥ ११ ॥ पापनाशक केदार  
को अंगार महामंत्रमें पूजन करके पाप नष्ट करनेवाले केदारमें महापयका मार्ग  
प्राप्त होताहै ॥ १२ ॥ वहां सातसहस्रकोटिगण रक्षा करतेहैं क्योंकि मनुष्योंके  
हित करनेके निमित्त वह स्वयम् शिवने अपनीदेहमें निर्माण कियाहै ॥ १३ ॥  
तहां देवता दैत्य यक्ष राक्षस किन्नर रहतेहैं और पापी मनुष्य उसके जलमें  
नहीं पी सकतेहैं ॥ १४ ॥ पितर तथा देवतागण संपूर्ण मंदाकिनीके जलमें स्नान  
करतेहैं हे स्कन्द ! पापी मनुष्य भय करतेहैं ॥ १५ ॥ प्रसन्न हुए शिव वरकों  
देतेहैं तो परम गति मिलतीहै और केदारके दाहिने ओर रेतकुण्ड स्थितहै ॥  
॥ १६ ॥ उसके दर्शन करनेमें इस जन्मके पाप नष्ट होतेहैं तथा इस कुण्डके  
स्पर्श करनेसे सान जन्मके पाप नष्ट होतेहैं ॥ १७ ॥ भूमिपर जिनने तीर्थ प्र-  
सिद्धहैं वे इस रेतकुण्डके सोलहवें भागकोभी नहीं पाने ॥ १८ ॥ और कुण्डके  
दाहिने ओर उत्तरको मुँह करके स्थित हुआ पहले वाम हाथमें तीनवार जल  
पीवे ॥ १९ ॥ और तीन बार दक्षिणमें अंजलीमें जलको पीवे तहां गोमुखोंसे



पीत्वा च त्रिनेत्रो जायते नरः ॥ २० ॥ ब्रह्ममूत्राभिमंत्रितं शत-  
मष्टोत्तरं स्मृतम् ॥ जलं च कंठगं तेषां लिंगं भवति देहिनाम् ॥  
॥ २१ ॥ तृणाग्रे बिन्दुमात्रेण ब्रह्ममूत्रेण वेष्टितम् ॥ मृत्युलोके  
न तत्प्राप्तिस्त्रिनेत्रो जायते नरः ॥ २२ ॥ श्रीकार्तिकेय उवाच ॥  
रेतोविद्यां महादेव कथयस्व प्रसादतः ॥ अक्षराणि च कानीह  
कति मात्राः प्रकीर्तिताः ॥ २३ ॥ श्रीश्वर उवाच ॥ अथ  
मंत्रोद्धारः ॥ ॐ कारद्वयसंयुक्तं क्षुंकारत्रयभूषितम् ॥ पंचरेफसमा-  
युक्तं दशबिन्दुमहाद्भुतम् ॥ २४ ॥ ॐ कारश्च स्वयं ब्रह्म क्षुंकारो  
विष्णुरुच्यते ॥ हंकारश्च स्वयं रुद्रो दशबिन्दुसमाश्रितः ॥ २५ ॥  
एषा विद्या महासेन मम देहेन निर्मिता ॥ शृणु स्कंद महाप्राज्ञ  
सत्यं सत्यं वदाम्यहम् ॥ २६ ॥ यत्र यत्र पिबेत्तोयमनया शु-  
क्रविद्यया ॥ केदारदर्शयात्रायाः फलं प्राप्नोति मानवः ॥ २७ ॥  
अथ मंत्रः ॥ ॐ हं क्षूं हं क्षूं हं क्षूं हं क्षूं हं क्षूं ॐ ॥  
॥ १० ॥ नवभांडे महासेन रेतोविद्याभिमंत्रितम् ॥ शालिधान्यं  
गृहीत्वा च गंतव्यं ह्युत्तरामुखैः ॥ २८ ॥ नवभांडं करे

जल पीकर मनुष्य त्रिनेत्र होताहै ॥ २० ॥ यज्ञोपवीत पहन कण्ठतक जलमें जा  
कर एकसी आठ बार मंत्रको जपे तो वह लिंगस्वरूप हीताहै ॥ २१ ॥ तृणके  
अग्र भाग मात्र जल पान सहित यज्ञोपवीतके धारण करनेसे मनुष्य मृत्युकाल-  
के प्रात होनेपर त्रिनेत्र होताहै ॥ २२ ॥ कार्तिकेय बोले हे महादेव ! अपनी  
प्रसन्नतासे रेतविद्याका वर्णन करो उसमें कितने अक्षरहैं और कितनी मात्रा  
कहीहैं ॥ २३ ॥ शिवजी बोले दो ओंकार तथा तीन क्षुंकारसे भूषित और पांच  
हंकार तथा दशबिन्दुओंसे संयुक्तहै अर्थात् ॐ हं क्षूं हं क्षूं हं क्षूं हं क्षूं ॐ यह मंत्र  
है ॥ २४ ॥ ॐ कार स्वयम् ब्रह्मस्वरूपहै, क्षुंकार विष्णु तथा हंकार शिव दश  
बिन्दुओंके सहित कहाहै ॥ २५ ॥ हे कार्तिकेय यह विद्या मेरे शरीरसे उत्पन्न  
हुईहै मैं सत्य २ कहताहूँ सा सुनो ॥ २६ ॥ इस रेतविद्याको पठकर चाहें  
निधरमे जलकों पीये वह मनुष्य केदारकी दर्शयात्राके फलको पाताहै ॥ २७ ॥  
हे कार्तिकेय ! नये पात्रमें रेतविद्या पठनी कहीहै शाल्य ( तंडुल ) धान्यको लेकर  
उत्तरपी ओर जावे ॥ २८ ॥ नव पात्र हाथमें लेकर जलमें धाँके उत्तरकी ओर

धृतवोदकमध्यप्रक्षालितम् ॥ उत्तराभिमुखैश्चैव रेतोविद्याभिमं-  
त्रितम् ॥ २९ ॥ तत्र तिष्ठति सा देवी गौरी नाम महातपाः ॥ तस्या  
अग्रे जलं चैव रेतो विद्याभिमंत्रितम् ॥ ३० ॥ गृहीत्वा गम्यते  
तत्र ह्यपामार्गस्य तंडुलान् ॥ अपामार्गस्य चाभावे शालिकस्य  
च तंडुलाः ॥ ३१ ॥ साधयित्वा चरुं तत्र ह्यघोरेणाभिमंत्रितम् ॥  
पंचब्रह्मसमायुक्तं चरुं यत्नेन साधयेत् ॥ ३२ ॥ यं रं वं लं हं ॥ ५ ॥  
एतैः कृत्वा चरुं तत्र चतुर्भागं तु कारयेत् ॥ प्रथमो देवतानां च  
द्वितीयो वह्नये तथा ॥ ३३ ॥ तृतीयश्चापि गौर्यै च चतुर्थो  
ह्यात्मतप्पणः ॥ प्राश्य सम्यक् चरुं तत्र पानीयं प्रपिबेत्ततः ॥  
॥ ३४ ॥ पश्चाच्छिवाय गौर्यै च स्तुतिं कुर्यात्प्रयत्नतः ॥  
अचिंत्यरूपचरिते परमादित्यरूपिणि ॥ ३५ ॥ क्षमस्व मेऽ-  
पराधं च जननि त्वं सदांम्रिके ॥ त्वं माता सर्वलोकस्य क्षंतव्यं  
परमेश्वरि ॥ ३६ ॥ संसारभयभीतोऽहं मार्गं देहि महेश्वरि ॥  
तस्या देव्याः प्रभावेण लभ्यते मार्ग उत्तमः ॥ ३७ ॥ नम-  
स्कारं शिवे कुर्याद्गुरुदेवं प्रणम्य च ॥ गौरीशानपथा स्कन्द-  
गंतव्या ह्युत्तरा ककुब् ॥ ३८ ॥ गोदंडमयमात्रश्च दृश्यते मार्गं

मुख करके रेतविद्याको पठ ॥ २९ ॥ तहां ह महातप ! गौरानाम देवी स्थित ह उस-  
के आगे रेतविद्यामंत्रको पठके जल छोडे ॥ ३० ॥ तहां अपामार्गके (त्रिरचिटा/चांचल  
लेकर जावे अपामार्गके न होनेपर धानके चावल हावे ॥ ३१ ॥ तहां अघोरमंत्रसे  
चरुको बनावे पांच ब्रह्मसहित चरुको यत्रपूर्वक साधे ॥ ३२ ॥ यं रं वं लं हं ५ तहां  
चरु करके चार भाग करे पहला भाग देवताओंको दूसरा अग्निको ॥ ३३ ॥  
तीसरा पार्वतीको, चौथा अपने लिये हे, तहां उस चरुको भोजन करके जलपान  
करे ॥ ३४ ॥ पश्चात् शिव तथा गौरीकी स्तुति करे । हे अचिंत्य रूपे ! हे परमा-  
दित्यरूपिणि ॥ ३५ ॥ हे जननि ! हे अम्रिके ! मेरे अपराधको क्षमा करो ।  
तुम सब संसारकी माताहो । हे परमेश्वरि ! क्षमा करो ॥ ३६ ॥ हे महेश्वरि !  
मैं संसारके भयसे डग हुआ हूं मुझे मार्ग दो, उस देवीक प्रसादसे महापुण्य प्राप्त  
होताहै ॥ ३७ ॥ शिवको नमस्कार करके गुरु देवताको नमस्कार करे, गौरी  
कण्डके ईशान मार्गसे उत्तर दिशाका जावे ॥ ३८ ॥ गार्दंडमात्र ( क्षण ) म वह

उत्तमः ॥ प्रमाणं तस्य मार्गस्य द्वात्रिंशदंगुलान्तरः ॥ ३९ ॥  
 दर्शितः शंभुना मार्गः सिद्धानां स्वर्गकांक्षिणाम् ॥ एतस्यत्रि-  
 विधा वर्णाः श्वेतः १ कृष्णस्तु २ पीतकः ३ ॥ ४० ॥ मध्ये च  
 भवेत्पीत इति शास्त्रस्य निश्चयः ॥ धन्वन्तरिशतार्धेन तत्र चिह्नं  
 तु दृश्यते ॥ ४१ ॥ मृगेन्द्रसदृशाकाराः शिलास्तिष्ठन्ति सम्मु-  
 खाः ॥ तस्य संदर्शनं कृत्वा भयभीताश्च साधकाः ॥ ४२ ॥  
 अघोरोऽय महामंत्रो महासिद्धिकरो नृणाम् ॥ अथ मंत्रः ॥ हुँ  
 फट् स्वाहा ॥ ५ ॥ अघोरं जपमानस्तु सर्वविघ्नक्षयंकरम् ॥ ४३ ॥  
 तस्य प्रदक्षिणं कृत्वा गंतव्या चोत्तरा ककुब् ॥ बुधैर्धर्मार्थतत्त्व-  
 ज्ञैर्विलम्बो नात्र युज्यताम् ॥ ४४ ॥ अर्द्धचन्द्रनिभश्चैव शैल-  
 स्तिष्ठति चोर्द्ध्वगः ॥ त एव शैलं पश्यन्ति आचार्या विस्मयं  
 गताः ॥ ४५ ॥ भयशंका न कर्तव्या अघोरमक्षरं जपेत् ॥ अथ मंत्रः ॥  
 ॐ हुंफट्स्वाहा तस्य विघ्नं नकर्त्तव्यं शतं शैलसमीपगम् ॥  
 ॥ ४६ ॥ तस्य प्रदक्षिणं कृत्वा गंतव्यं चोत्तरादिशि ॥ धन्वन्तरी-

उत्तम मार्ग दीख पढता है उस मार्गका प्रमाण बत्तीस अंगुल विस्तृत है ॥ ३९ ॥  
 स्वर्गकी इच्छा करनेवाले सिद्धोंको शिवजी मार्ग दिताते हैं इसके श्वेत, कृष्ण,  
 तथा पीत, तीन वर्ण हैं ॥ ४० ॥ मध्यमें पीत वर्ण है, यह शास्त्रका निश्चय है ।  
 धन्वन्तरी शतकसे किया तहां चिह्न दीखता है ॥ ४१ ॥ और सिंहके आकार  
 वाली शिला सम्मुख दीखती है साधक उसको देख भयभीत होते हैं ॥ ४२ ॥  
 अघोर महापंथ मनुष्योंको सिद्धि कारक है ॐ हुं फट् स्वाहा अघोर मंत्रके जपनेसे  
 संपूर्ण विघ्न दूर होते हैं ॥ ४३ ॥ उसकी परिक्रमा करके उत्तर दिशाको जायें तहां  
 धन्वन्तरी शतकसे कृत चिह्न दीखता है ॥ ४४ ॥ और पर्वतकी उंचाई चन्द्रमार्ग  
 आधे मार्गतक है, उस पर्वतको देख आचार्य भी विस्मयको प्राप्त हुए ॥ ४५ ॥  
 तहां भयकी शंका न करें, और अघोर मंत्रको जपें उसमें विघ्न नहीं करना पर्वतके  
 समीप प्राप्त हो ॥ ४६ ॥ उसको प्रदक्षिणा करके उत्तर दिशाको जायें तहां तीनसे

शतत्रीणि आत्मानं चैव गम्यते ॥४७॥ लिंगं हेममयं तत्र स्थितं  
दृश्येत साधकैः ॥ श्वेतरक्तं कृष्णपीतं तस्य वर्णं च दृश्यते ॥  
॥ ४८ ॥ नाना रत्नसमाकीर्णं ज्वलंतं पद्मरागवत् ॥ आत्म-  
हस्तेन लिंगे च स्पृष्ट्वात्मानि विलेपयेत् ॥ ४९ ॥ अघोरेणैव  
मंत्रेण आत्मरक्षां च कारयेत् ॥ प्रथमं जापित्वा मंत्रं च पश्चाच्चैव  
सुसंगतः ॥ ५० ॥ तस्य लिंगप्रभावेण वज्रांगं च भवि-  
ष्यति ॥ आचार्याः साधकाः सर्वे प्रणम्य च पुनः पुनः ॥५१॥ अथ  
मंत्रः ॥ ॐ हुं फट् स्वाहा ॥ ५ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे विख्यातपुराणे श्रीश्वरकार्तिकेयसंवादे  
पंचयोगेन्द्रेच्छासिद्धिजीवनमुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महापथे  
शिवदर्शने सदेहकैलासगमने सिद्धिप्राप्तियोगो नाम  
सप्तदशः पटलः ॥ १७ ॥ श्लोकाः ॥ ४८१ ॥

धन्यन्तरीकी आत्मा जासकतीहे ॥ ४७ ॥ तहां सुवर्णके लिंगकी स्थिति अव-  
लोकन होतीहे और उसका वर्ण श्वेत, रक्त, कृष्ण, पीत, दीखताहे ॥ ४८ ॥  
अनेक रत्नोंसे जडित, पद्मराग मणिकी समान कान्तिमान, उस लिंगको अपने  
हाथसे स्पर्श करके अपने शरीरमें लेपन करे ॥ ४९ ॥ और अघोर मंत्रसे अपनी  
रक्षा करे प्रथम मंत्र नपकर पश्चात् समीपमें जावे ॥ ५० ॥ उस लिंगके  
प्रभावसे बचके अंगवाला होताहे. संपूर्ण आचार्य और साधक वारंवार नम-  
स्कार करे ॥ ५१ ॥

इति श्री केदारकल्पे शिवगोरीसंवादे भाषाटीकायां सप्तदशः पटलः ॥ १७ ॥

## अष्टादशः पटलः ।

श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ ॐ शृणु स्कंद महाप्राज्ञ वज्रं भवति देहि  
नाम् ॥ अघोरेण च मंत्रेण महाविघ्नः प्रणश्यति ॥ १ ॥ खड्ग-

इंशर बोलें हे महाप्राज्ञस्कंद ! इससे मनुष्योंका शरीर बच होताहे और  
अघोर महामंत्रसे बड़े विघ्न नष्ट होतेहैं ॥ १ ॥ हे देवि ! पडंग महामंत्र देवता

तुल्यो महामंत्रो देवदानवदुर्लभः ॥ तस्य लिंगप्रभावेण हिमैर्नैव  
 स बाध्यते ॥ २ ॥ धन्वन्तरिशतत्रीणि ह्येकचित्तो व्रजेत्पुनः ॥  
 तत्र चैव पुरी रम्या दृश्यते च मनोरमा ॥ ३ ॥ तत्र हेमप्रभा  
 दीता दृश्यते चोत्तरा हरित् ॥ दृष्ट्वा शक्रपुरीं तत्र ब्रह्मविष्णुपुरीं  
 ततः ॥४॥ सूर्य्यकोटिसमं तेजो ह्युदीच्यां दिशि दृश्यते ॥ इन्द्र-  
 नीलमहानीलपद्मरागोपशोभितम् ॥ ५ ॥ तस्माच्छंकरपूजार्था  
 दृश्यते शिखरे ध्वजः ॥ मनोहरश्च दिव्यश्च मंगलादपि मंगलम् ॥६॥  
 दृश्यते च महासेन प्रतोल्यां धवलं गृहम् ॥ नित्योत्सवसमाकीर्णा  
 दृश्यते चोत्तरा हरित् ॥७॥ एकविंशतिसंख्याताः पुण्यैः कांचन-  
 सन्निभाः ॥ पश्चाच्च साधकाः सर्वे गताश्च चोत्तरां दिशम् ॥ ८ ॥  
 नदी च दृश्यते तत्र साक्षाद्देवी सरस्वती ॥ हंसकारंडवाकीर्णा-  
 चक्रवाकोपशोभिता ॥ ९ ॥ नानाद्रुमलताकीर्णानानापक्षिसमा-  
 कुला ॥ हरन्ति सर्वपापानि सप्तजन्मार्जितानि वै ॥ १० ॥ कुमु-  
 दोत्पलपद्मैश्च शोभितं सर उत्तमम् ॥ तत्रैव प्रपिवेत्तोयं पूजयित्वा

और दैत्योंकी दुर्लभहै, इस सत्य लिंगके प्रभावसे हिमालय पर्वतपर बाधा नहीं  
 होती ॥ २ ॥ धन्वन्तरि शतत्रयको एकचित्त होकर जावे तहां मनोहर रम्या पुरी-  
 के दर्शन होतेहैं ॥ ३ ॥ वहां सुवर्णकी कान्तिकी समान प्रकाशित इन्द्रपुरी दी-  
 स्वर्तीहै फिर उत्तर दिशाकी ओर ब्रह्मपुरी और विष्णुपुरी है ॥ ४ ॥ उत्तर दिशा-  
 फरोडों सूर्यकी समान कान्तिकान है । यह इन्द्रनील और महानील, तथा  
 पद्मराग मणियोंसे शोभित है ॥५॥ और फैलासके शिखरपर शंकर पुरी है सो अति  
 मनोहर और मंगलसे भी मंगल है ॥६॥ हे महासेन! प्रतोलीसे स्वच्छ घर दीगता  
 है उत्तर दिशा नित्य उत्सवोंसे शोभायमान है ॥ ७ ॥ तहां सुवर्णकी समान  
 देदीप्यमान इकीम पुरी हैं पीछेसे साधक लोग उत्तर दिशाको जायें ॥८॥ तहां  
 सरस्वती नदी है जो हंस चक्रोर तथा चक्रयोंसे शोभित है ॥९॥ अनेक वृक्ष तथा  
 अनेक मपारके पक्षियोंसे व्याप्त है यह मनुष्योंसे सात जन्मके पापको हरण करती  
 है । यदा ॥१०॥ वपुल कमल, तथा नील पद्मलोंसे शोभित सराय है, तहां शंकरको

च शंकरम् ॥११॥ पितृवंश्यागताः स्वर्गं मातृवंश्यसमन्विताः ॥  
 शिवस्य च प्रसादेन पितृणां चाक्षया गतिः ॥ १२ ॥ उत्तराभि-  
 मुखो भूत्वा नद्यास्तीरं व्रजेत्ततः ॥ योजनाद्धै ततो गत्वा ह्याश्रमं  
 वीक्षते महान् ॥ १३ ॥ शक्रेण स्थापितं लिंगं हेमपीठक-  
 भूपितम् ॥ योजनाद्धै च विस्तीर्णा पुरी शक्रेण निर्मिता ॥ १४ ॥  
 पताकाध्वजसंयुक्ता हेमप्राकारवेष्टिता ॥ देवगंधर्वसंकीर्णा चा-  
 क्षया श्रीमती शुभा ॥१५॥ देवकन्यासमाकीर्णा वंशवादेनवा-  
 दिता ॥ गायंत्यप्सरसस्तत्र देवगंधर्वयोपितः ॥ १६ ॥ वेदं  
 सध्वनिनिर्घोषं पठन्ति मुनयो मुहुः ॥ स्नात्वा सरस्वतीतीर्थे  
 ह्यर्चयित्वा च शंकरम् ॥ १७ ॥ कुशास्तरणकं कृत्वा चैकरात्रं  
 वसेत्ततः ॥ एकरात्रे व्यतिक्रान्ते नमस्कृत्वा जगद्गुरुम् ॥१८॥  
 सरस्वती नदीतीरं गंतव्यं योजनत्रयम् ॥ अग्रतो दृश्यते तत्र  
 सिद्धवारणसेविता ॥ १९ ॥ नानारत्नविचित्रैश्च हेमकूटा वसुं-  
 धरा ॥ इन्द्रनीलमहानीलपद्मरागोपशोभिता ॥ २० ॥ दशयो-

पूजन करके उसके जलको पीवें ॥११॥ माताके वंशके पुरुष तथा पिताके वंशके  
 पितरोंकी शिवके प्रसादसे अक्षय गति होती है ॥१२॥ उत्तरकी ओर मुख करके  
 नदीके किनारे जावें, फिर आधे योजनपर आगे जाकर एक बड़ा आश्रम दीख  
 पडता है ॥१३॥ तहां इन्द्रसे स्थापित लिंग और सुवर्ण जडित सिंहासन है, और  
 आधे योजन विस्तारवाली पुरी इन्द्रने निर्माण की है ॥१४॥ सो प्रवाल्य तथा धवल  
 मणियोंसे जडित भवनोंसे शोभित सुवर्णकी दीवारोंसे घिरी हुई और देवता  
 गंधर्वोंसे व्याप्त अक्षय गतिवाली है ॥१५॥ देवकन्याओंसे युक्त वांसुरी वाद्यसे गुं-  
 जार हुई जहां अप्सराएँ देवता और गंधर्वोंकी स्त्रियां गान करती हैं ॥१६॥ और  
 मुनिगण वेदध्वनि सहित श्रुतियोंको पढते हैं । तहां सरस्वतीके किनारे नान  
 करके शिवकी पूजा करके ॥१७॥ एक रात्रि कुशाओंको विछाकर निवास करें। एक  
 रात्रि चीतनेपर जगद्गुरु शंकरको नमस्कार करके ॥१८॥ सरस्वती नदीके किनारे  
 किनारे, तीन योजन जावें, तहां सिद्ध वारण ( हाथी ) से सेवित भूमि है ॥१९॥  
 और अनेक प्रकारके विचित्र रत्नोंसे जडित सुवर्णसे ढकी पृथ्वी है, इन्द्रनील,  
 महानील, पद्मराग मणियोंसे, शोभायमान है ॥ २० ॥ वह सुवर्णसे शोभित

जनविस्तीर्णा पुरी कांचनशोभिता ॥ विष्णुनास्थापितं लिंगं  
 तत्र देवो महेश्वरः ॥२१॥ वापीकूपतडागाश्च प्रासादालय उत्तमः ॥  
 चूतचंदनसंयुक्तः कदलीखंडमंडितः ॥ २२ ॥ पताका-  
 ध्वजसंयुक्तो द्वारशाखासुशोभितः ॥ देवकन्यासमाकीर्णो वंशवा-  
 दित्रनादितः ॥ २३ ॥ भेरीमृदंगशब्देन शंखतूर्यरवेण च ॥ गी-  
 तं गायन्ति गंधर्वा अप्सरोगणसेविताः ॥२४ ॥ तस्य मध्ये म-  
 हालिंगं विष्णुना स्थापितं पुरा ॥ स्नात्वा सरस्वतीतीर्थे पञ्चते  
 तत्र साधकाः ॥२५॥ अर्चयित्वा महेशानमेकरात्रं च जागरम् ॥  
 नमस्कृत्य च देवेशं गंतव्या चोत्तरा हरित् ॥ २६ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे विख्यातपुण्ये श्रीश्वरकार्तिकेयसंवादे  
 पंचयोगेन्द्रेच्छासिद्धिजीवन्मुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महापथे  
 शिवदर्शने सदेहकैलासगमने हेमलंघनं नामा-  
 ष्टादशः पटलः ॥ १८ ॥ श्लोकाः ५०७ ॥

पुरी दसयोजन विस्तारवाली है तहांपर विष्णुने महेश्वर द्यक लिंगको स्थापन  
 किया है ॥ २१ ॥ और वाडडी, कूप, सरोवर, उत्तम भवन, आमके वृक्ष, तथा  
 चंदनके वृक्ष, तथा केलेके वृक्षोंसे शोभायमान है ॥ २२ ॥ प्रवाल्य ध्वजा मणि-  
 योंसे युक्त द्वारशाखा ( वंदरवाल ) से शोभित, और देव कन्याओंसे व्याप्त वंश  
 चाद्य, ध्वनिसे गुंजारित ॥ २३ ॥ भेरी, मृदंग, तथा शंख, धीन आदि वाजोंक  
 शब्द सहित गंधर्व गान करते हैं, और अप्सरागण नृत्य करती हैं ॥ २४ ॥ पूर्व-  
 कालमें विष्णुने तहां शिवलिंग स्थापन किया है सरस्वती तीर्थपर स्नान करके  
 साधक ॥ २५ ॥ महेश्वरका पूजन करके तथा एक रात्रिभर जागरण करे और  
 देवको प्रणाम करके फिर उत्तरदिशाको जावे ॥ २६ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे शिवपार्वतीसंवादे भाषाटीकायामष्टादशः पटलः ॥ १८ ॥

## एकोनविंशतिः पटलः ।

श्रीश्वर उवाच ॥ ॐ सरस्वतीनदीतीरे आश्रमो दृश्यते महान् ॥  
 वासुकिप्रमुखाश्चैव दृश्यन्ते पन्नगोत्तमाः ॥ १ ॥ महापालो गय-  
 श्चैव शंखपालश्च कर्कटः ॥ अनंतजयनामा च आस्तीकः  
 परमो मुनिः ॥ २ ॥ दृश्यते शेषनागश्च तक्षको धरणीधरः ॥  
 तिष्ठन्ति पन्नगाः सर्वे राजा चैव विरोचनः ॥ ३ ॥ वितिष्ठते  
 वासुकिश्च सभायां परिवेष्टितः ॥ सिंहासनानि दिव्यानि हेम-  
 रत्नकृतानि च ॥ ४ ॥ तत्र तिष्ठन्ति राजेन्द्र पन्नगप्रवरास्तथा ॥  
 वासुकिर्दृश्यते तत्र वाद्यते बहु नैकधा ॥ ५ ॥ भेरीमृदंगशब्देन  
 काहलैः शंखमर्दलैः ॥ वाद्यन्ते तादृशाश्चैव वीणापणवद्गर्जराः ॥  
 ॥ ६ ॥ वाद्यन्ते च तथा सर्वे यथामेघविगर्जितम् ॥ स्थानं तत्र पुरे  
 रम्ये नानारत्नविभूषितम् ॥ ७ ॥ शतयोजनविस्तीर्णं हेमप्राकार-  
 वेष्टितम् ॥ द्वादशादित्यतेजश्च नागकन्यासमाकुलम् ॥ ८ ॥  
 युवत्यस्ता मदोन्मत्ता विद्युत्तेजःसमप्रभाः ॥ मृगाक्ष्यो हंसगामि-

शिवजी बोले ! सरस्वती नदीके किनारेपर एक बडा आश्रम दीखता है, तहां  
 वासुकी आदि सर्प श्रेष्ठके दर्शन होते हैं ॥ १ ॥ महापाल, गय, शंखपाल, कर्कट,  
 तथा अनंतजय, नामक परम आस्तिक हैं ॥ २ ॥ शेषनाग जो पृथ्वीको धारण  
 कर रहे हैं वह तथा संपूर्ण तक्षक ( सर्प ) व, विरोचन राजा स्थित है ॥ ३ ॥  
 उनसे वासुकी उस सभामें घिरे हुए शोभित होत हैं और सुवर्ण तथा रत्नजडित  
 सिंहासन विंछा है ॥ ४ ॥ उन सिंहासनोंपर राजेन्द्र सर्पराजा वासुकी विराज-  
 मान हैं उस स्थानपर अनेक प्रकारके वाजे, बजते हैं ॥ ५ ॥ भेरी, मृदंग, तथा  
 शंखके शब्दसे वहांके मृगभी वीणाकी समान शब्द करते हैं ॥ ६ ॥ और ऐसा  
 शब्द करते हैं जैसे मेघकी गर्जना होती हो और उस नगरमें अनेक प्रकारके रत्नों-  
 से भूषित स्थान हैं ॥ ७ ॥ सौ योजन विस्तारवाला सुवर्णकी दीवारोंसे घिरा  
 हुआ तथा बारह सूर्यकी समान प्रकाशित और नाग कन्याओंसे व्याप्त है ॥ ८ ॥  
 जो कन्या यौवनसे उन्मत्त हैं वे बिजलीकी समान तेजवाली और मृगके समान



न्यो नपुरारावसंकुलाः ॥ ९ ॥ करकंकणसंयुक्ता हारकेयूरभू-  
 पिताः ॥ संपूर्णचन्द्रवदना दिव्यवस्त्रपरिच्छदाः ॥ १० ॥ मृदु-  
 कोमलदेहाश्च वदन्ति कोकिलस्वरैः ॥ शीर्ष्णिण पुष्पसुगंधेन नाग-  
 वल्लीविभूषिताः ॥ ११ ॥ सर्वलक्षणसंपूर्णा रूपयीवनगर्विताः ॥  
 सर्वा गुणसमायुक्ताः कुंडलाभरणोज्ज्वलाः ॥ १२ ॥ दिव्य-  
 प्रमूनशिरसो दिव्यगंधानुलेपनाः ॥ साधकाश्च गतास्तत्र सर्वे  
 ते विस्मयं गताः ॥ १३ ॥ तत्र दृष्ट्वा महाप्राज्ञं पुरं सर्वगुणा-  
 न्वितम् ॥ रम्यं मनोहरं दिव्यं वह्निज्वालासमप्रभम् ॥ १४ ॥  
 उत्तुंगशिखराकारैः प्राकारैस्तोरणैश्चितम् ॥ रत्नमौक्तिकवैदूर्यवि-  
 स्फुरत्किरणान्वितम् ॥ १५ ॥ कपाटागारसंयुक्तं वेष्टितं च  
 पुरोत्तमम् ॥ इन्द्रनीलमहानीलपद्मरागोपशोभितम् ॥ १६ ॥  
 तस्मिन्नेव पुरे रम्ये हेमवद्धा वसुंधरा ॥ सौवर्णकेतकीजाता ह्या-  
 सते राजचंपकाः ॥ १७ ॥ सौवर्णकास्तत्र वृक्षा नानापक्षिस-

नेत्रवाली विलुए पायजेवोंस भूषित हैं ॥ ९ ॥ हाथमें कंकन, हार तथा वाजूबंदसे  
 शोभित पूर्ण चन्द्रमाके समान सुखारविन्दवाली तथा दिव्य वस्त्र धारण किये हैं  
 ॥ १० ॥ अतिमृदु और कोमल शरीरवाली कोपलके समान स्वरसे बोलती हैं  
 सिरपर पुष्पोंकी सुगन्धि, और सुख पानसं भूषित ॥ ११ ॥ संपूर्ण शुभ लक्षणोंसे  
 लक्षित और रूप यौवनमें संयुक्त समस्त गुणोंसे अलंकृत कुंडल आभूषणोंसे  
 उज्ज्वल ॥ १२ ॥ दिव्यपुष्प ( सीसफूल ) सिरपर बंधा और सुन्दर सुगंधलेपन  
 किये स्थित हैं उस स्थानपर संपूर्ण साधक लोग गये तो वे विस्मयको प्राप्त हुए  
 ॥ १३ ॥ हे महाप्राज्ञ ! वहाँ सर्व गुण आगार पुरको देखकर जो सब प्रकार  
 रमणीक और मनोहर है अमिफी लपटकी समान फान्तिवान् ॥ १४ ॥ ऊंच २  
 शिखर तथा दीवार और घंटरवारोंसे संयुक्त, रत्न मोती वैदूर्य मणियोंकी फान्ति  
 से मिश्रित ॥ १५ ॥ और फाटक तथा मृमले सहित इस प्रकार वह उत्तम नगर  
 पिग हुआ है और इन्द्रनील और महानील तथा पद्मराग मणियोंसे शोभित है  
 ॥ १६ ॥ उम रम्य पुरमें सुवर्णसे पृथ्वी आच्छादित है और सुवर्णके केतकी  
 और राजचंपकके वृक्ष हैं ॥ १७ ॥ और वहाँ सुवर्णके वृक्ष और अनेक प्रकारके

माकुलाः ॥ फलैर्विनिर्मिताः साक्षात्कृष्णामंडसदृशोद्गतैः ॥ १८ ॥  
 वकुलैः शतपत्रैश्च विल्ववृक्षैश्च पाटलैः ॥ वापीकूपतडागादिप्रा-  
 सादैश्च गृहैस्तथा ॥ १९ ॥ ध्वजमालाकुलं दिव्यं शिखरैश्चापि  
 शोभितम् ॥ चूतचंदनसंयुक्तं कदलीखंडमंडितम् ॥ २० ॥  
 राजवृक्षसमाकीर्णं विवाहोत्सवसंकुलम् ॥ रम्यं मनोहरं दिव्यं  
 चोदितार्किसमप्रभम् ॥ २१ ॥ जलमध्ये यथा पद्मं नक्षत्राणां  
 यथा शशी ॥ तथा नागपुरीणां च तत्पुरो शोभते भृशम् ॥ २२ ॥  
 मणिमध्ये यथा पद्मं दिनमध्ये यथा रविः ॥ तथा नागपुरी  
 चैव शोभते च मनोरमा ॥ २३ ॥ साधकाश्च गतास्तत्र दृष्ट्वा च  
 कुलवल्लभाम् ॥ निशि बह्वैर्यथा तेजो दृश्यते च तथा पुरम् ॥  
 ॥ २४ ॥ गीतज्ञास्तत्र गायन्ति नृत्यन्ते नर्तकोत्तमैः ॥ ब्राह्मणा  
 वेदनिर्घोषैः सर्वशास्त्रं पठन्ति च ॥ २५ ॥ शिवालयं समाकीर्णं  
 नानालिंगसमाकुलम् ॥ तस्य मध्ये महाराजा आसते पद्मगो-

पक्षांगण निवास करतेहैं फलोंसे सजित जो कुम्हडा ( गोलकद ) के समानहैं सं-  
 पूण शाखा भर रही हैं ॥ १८ ॥ केसर कमल, तथा वेलपत्र आदिके वृक्षोंसे तथा  
 वाटडी कूप तालाव आदि और भवन; प्रासादोंसे व्याप्त ॥ १९ ॥ और ध्वजा  
 ( पताका ) मालाओंसे शोभित, सुन्दर शिखरोंसे शोभित, आम, चंदनके वृक्षों-  
 से संयुक्त तथा केलेके खंभोंसे शोभायमान ॥ २० ॥ सप्तवर्ण वृक्षोंसे संयुक्त तथा  
 विवाहोत्सवोंसे शोभायमान और रमणीकं मनोहर दिव्य उदय हुए सूर्यकी समान  
 कान्तिमान् ॥ २१ ॥ जलके मध्यमें जैसे कमल, और तारागणोंमें जैसे चन्द्रमा, हे उसी  
 प्रकार नागपुरीयोंके मध्य वह नगरी शोभित होरहीहै ॥ २२ ॥ संपूर्ण मणियोंके मध्यमें  
 जैसे पद्मरागमणि और दिनके मध्यमें जैसे सूर्यहै उसी प्रकार यह नागपुरी मनो-  
 हर शोभायमान है ॥ २३ ॥ तहां साधक लोग पहुँचे और उस प्रियनगरीको  
 देखकर जैसे रातमें अम्रिका तेजहो तैसे वह पुर दीखताहै ॥ २४ ॥ वहां गीत-  
 गानेवाले गायन करतेहैं और नृत्य करनेवाले नाचते हैं तथा ब्राह्मण लोग वेद-  
 ध्वनि करतेहैं और संपूर्ण शास्त्र पढ़तेहैं ॥ २५ ॥ और शिवके मंदिर अनेक लि-

त्तमाः ॥ २६ ॥ दिव्यवस्त्रपरीधाना दिव्यगंधानुलेपनाः ॥  
 दिव्यपुष्पशिरोवद्धा दिव्यतेजःसमप्रभाः ॥ २७ ॥ दिव्यदेहा  
 महाकन्याः सर्वाभरणभूषिताः ॥ सर्वा गुणसमायुक्ता दिव्यभोग-  
 समावृताः ॥ २८ ॥ दृष्ट्वा च साधकाः सर्वे वदन्ति स्वागतं प्रिये ॥  
 राजोवाच ॥ क्वागता भुवनात्सिद्धाः क्व स्थानं चैव लभ्यते ॥  
 ॥ २९ ॥ एतद्ब्रूहि महाचार्य साधकोपरि चेष्टितम् ॥ साधक  
 उवाच ॥ कथयामि महाराज शृणु मे वचनं शुभम् ॥ आगता  
 मृत्युलोकाद्ये तैः प्राप्यः शंकरालयः ॥ ३० ॥ राजोवाच ॥  
 शृण्वन्तु साधकाः सर्वे मम वाक्यं सुनिश्चितम् ॥ पश्चाच्च सा-  
 धकाः सर्वे गच्छाचार्य्यं यथासुखम् ॥ ३१ ॥ साधक उवाच ॥  
 किमर्थं भोग्यमायुष्यं पश्चाच्च किं भविष्यति ॥ एतद्ब्रूहि महा-  
 राज कुत्र स्थानेषु गम्यते ॥ ३२ ॥ राजोवाच ॥ शतैकपंचकं  
 कन्या दीयन्ते च पृथक्पृथक् ॥ वर्षपंचशतं ह्यायुः कामरूपा महा-  
 वलाः ॥ ३३ ॥ आचार्य्यसाधकाः सर्वेऽभुजन्भोगान्यथेप्सितान् ॥

गोंसे भरे हैं उसके मध्यमें सर्प विराजतेहैं ॥ २६ ॥ सुन्दर २ वस्त्र तोशक तक्षिये  
 अबलंबन किये तथा सुन्दर सुगंध लगाए, सिरपर दिव्य पुष्प ( सीसफूल )  
 बांधे और दिव्य तेजकी समान कान्तिवाली ॥ २७ ॥ दिव्यदेह धारण किये  
 सुन्दर शरीर वाली समस्त आभूषणोंसे भूषित सब गुणोंसे अलंकृत दिव्य भोगों  
 को भोगती हुई ॥ २८ ॥ सम्पूर्ण कन्याओंने देखकर साधकोंको बोले हे प्रिय !  
 स्वागतहै राजाबोला हे सिद्धो ! कहाँसे आए हो और किस स्थानको जातेहो ॥  
 ॥ २९ ॥ सो हे महाचार्य साधक ! हमसे कहो । साधक बोला हे महाराज !  
 मैं कहताहूँ मेरा वचन सुनो हम मृत्युलोकसे आएहैं और शंकरके स्थानको  
 जातेहैं ॥ ३० ॥ राजा बोला । हे साधको ! मेरा वचन संपूर्णसिद्ध सुनो पीछे  
 से सुखपूर्वक सब लोग जाना ॥ ३१ ॥ साधक बोला भोग और आयु किस  
 लिये हैं और पीछे क्या होना है ? हे महाराज ! और किनस्थानोंमें जाते हैं यह  
 सब वर्णन करो ॥ ३२ ॥ राजा बोला पांचसौ कन्या पृथक् २ प्राप्तहोंगी और  
 पांचसौ वर्षकी आयु और इच्छानुकूल स्वरूप धारण करोगे ॥ ३३ ॥ तुम सं-  
 पूर्ण आचार्य साधक यथेप्सित भोगोंको भोगकर दिव्यवस्त्र धारण करके तथ

दिव्यवस्त्रपरीधाना दिव्याभरणभूषिताः ॥ ३४ ॥ अस्मिन्नेव पुरे  
 रम्ये बहुकन्यासमाकुले ॥ अस्मिन्स्थाने महाभोगास्ते भोगा-  
 देवदुर्लभाः ॥ ३५ ॥ दिव्यपुष्पशिरोवद्धा विमानारूढसाध-  
 काः ॥ यत्र स्थाने महावीरा यथेच्छा तद्धि गम्यते ॥ ३६ ॥ ति-  
 ष्ठंतु साधकाः सर्वे भुंजतां विपुलां त्रियम् ॥ एते मत्कथिता भोगा  
 भोक्तव्याः साधकैः सह ॥ ३७ ॥ पश्चाच्च साधकाः सर्वे मृत्यु-  
 लोकं व्रजन्ति च ॥ सर्वकामसमृद्धाश्च जायन्ते विपुले कुले ॥  
 ॥ ३८ ॥ सर्वे गुणसमायुक्ता राजानोऽपि भवंति हि ॥ साधक  
 उवाच ॥ मृत्युलोके मया चांति गंतव्यं च महानृप ॥ ३९ ॥  
 मृत्युलोकभयाद्गीता राजव्रत्रागता वयम् ॥ कोऽत्र स्थाने महा-  
 राज पश्येन्नैव च शंकरम् ॥ ४० ॥ अस्माभिस्तत्र गंतव्यं यत्र  
 ब्रह्मा हरो हरिः ॥ त्वया यदुदितं राजन्हृदेय नैव रोचते ॥ ४१ ॥  
 अवश्यं तत्र गंतव्यं यत्र देवो महेश्वरः ॥ ४२ ॥ राजोवाच ॥  
 सिद्धसिद्ध महाप्राज्ञ क्षणमेकं च तिष्ठतु ॥ करसंपुटितं कृत्वा  
 राजा तेषां वदेत्ततः ॥ ४३ ॥ भक्षित्वा फलमेकैकं देवदानव-

दिव्य आभूषण पहने ॥ ३४ ॥ अधिक कन्याओंसे व्याप्त इस रमणीक स्थानमें  
 ऐसे भोगोंको भोगो जो देवताओंकोभी दुर्लभहैं ॥ ३५ ॥ शिरपर दिव्य पुष्पों-  
 को धारण करके विमान पर चढके जिस २ स्थानमें जाना चाहोगे तहां तहां जा  
 सकतेहो ॥ ३६ ॥ हे साधको ! तुम सब यहां निवास करो और अधिकभोगों-  
 को भोगो यह भोग हमने कहे ॥ ३७ ॥ पश्चात् सब साधक मृत्युलोकमें प्राप्तहोगे  
 संपूर्ण कामनाओंसे पूर्ण और श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न होतेहैं ॥ ३८ ॥ वे सब गुणों  
 से परिपूर्ण तथा राजा होतेहैं साधक बोला हे महानृप ! मृत्युलोकमें बड़ा दुःख  
 है तहां नहीं जायगे ॥ ३९ ॥ हे राजन् ! हम लोग मृत्युलोकके भयसे डरे हुए  
 यहां पर आए हैं । हे महाराज ! इस स्थानमें कौन शंकरहै ? हमने नहीं देखा ॥  
 ॥ ४० ॥ हम लोग वहां जायगे जहां ब्रह्मा शिव विष्णुहैं । हे राजन् तुमने जो  
 भोग कहे सो नहीं रुचते ॥ ४१ ॥ अवश्य वहां जायेंगे जहां महेश्वर देवहैं ॥ ४२ ॥  
 राजा बोला हे सिद्ध ! हे सिद्ध ! एक क्षणमात्र यहां ठहरो इस प्रकार हाथ जो-  
 डकर राजाने उनसे कहा ॥ ४३ ॥ भक्तिका रोपण करके एक २ फल स्वने

दुर्लभम् ॥ पश्चाच्च साधकाः सर्वे भवन्तु ह्यजरामराः ॥ ४४ ॥  
फलस्य भक्षणं कृत्वा ह्यमृतं प्रपिबन्ति च ॥ पश्चाच्च साधकाः  
सर्वे गताश्चैवोत्तरामुखे ॥ ४५ ॥

इति श्रीरुद्रयामले केदारकल्पे विख्यातपुराणे श्रीश्वरकार्त्तिके-  
केयसंवादे पंचयोगेन्द्रेच्छासिद्धिजीवन्मुक्तपरब्रह्मप्राप्तये  
महापथे शिवदर्शने सदेहकैलासगमने नाग-  
पुरीवर्णनं नामैकोनविंशः पटलः ॥ १९ ॥

॥ श्लोकाः ॥ ५५२ ॥

भक्षण किया जो देवता और दैत्योंको दुर्लभहै पश्चात् सब साधक अजर अमर  
होगए ॥ ४४ ॥ उन्होंने फलोंको भक्षण किया और अमृतकोभी पिया पश्चात्  
सब साधक उत्तरदिशाकी ओर चलदिये ॥ ४५ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे शिवपार्वतीसंवादे मापाटोकायामैकोनविंशः पटलः ॥ १९ ॥

## विंशतिः पटलः ।

श्रीश्वर उवाच ॥ ॐ अग्रतो दृश्यते तत्र हेमवद्धा वसुंधरा ॥  
अस्मिन्स्थाने पुरं रम्यं नानारत्नविभूषितम् ॥ १ ॥ अर्द्धयोजन-  
विस्तीर्णं प्रासादैरूपशोभितम् ॥ वासितं च ततः सर्वैर्महागंधैः  
सुगंधिनाम् ॥ २ ॥ इन्द्रनीलैर्महानीलैर्विस्फुरत्तन्महापथम् ॥  
मोक्तिकैश्चन्द्रकांतैश्च वैदूर्यमणिभिश्चितम् ॥ ३ ॥ इन्द्रजाल

शिवजी बोले आगे सुवर्णसे आच्छादित भूमि देखपडी, इस स्थानमें अति  
रमणीय नगरथा जो अनेक प्रकारके रत्नोंसे शोभितहै ॥ १ ॥ और आधे योजन भर  
चौडा और भवनोंसे शोभायमानहै वहां बडे २ सुगंधित वृक्षोंकी सुगंधिसे सब  
लोक सुगंधित होगये ॥ २ ॥ इन्द्रनील और महानील, मणियोंसे वह मार्ग प्रका-  
शित होताथा, और मोतियोंसे, तथा चंद्रकांता, और वैदूर्य मणियोंसे  
शोभित था ॥ ३ ॥ रत्नजडित जालोंसे शोभायमान, तथा चित्र कर्मसे शोभित

परिक्षिप्तं चित्रकर्मोपशोभितम् ॥ रम्यं मनोहरं दिव्यं चन्द्रादित्य-  
समप्रभम् ॥ ४ ॥ उत्तुंगशिखराकारं दीपमालाविभूषितम् ॥  
तत्र स्थाने महादिव्यो बहुगंधादिवासितः ॥ ५ ॥ नानारत्न-  
समाकीर्णः प्रासादस्तत्र शोभते ॥ तस्य मध्ये महारम्यं गतास्ते  
सर्वसाधकाः ॥ ६ ॥ ब्रह्मणा स्थापितं लिंगं तत्र देवो महेश्वरः ॥  
साधकाश्च गतास्तत्र नमस्कृत्य जगद्गुरुम् ॥ ७ ॥ स्वर्गस्थानं  
गताः सर्वे द्यागता गणकोटयः ॥ गंधर्वाश्च गताः सर्वे अर्च-  
यित्वा पृथक्पृथक् ॥ ८ ॥ पूजां कृत्वा ततः सेन स्वर्गं तां गण-  
कन्यकाः ॥ भेरीमृदंगशब्देन शंखकाहल्लमर्दलैः ॥ ९ ॥ वीणा-  
तालमहाशब्दैर्वादनैर्विविधैरपि ॥ घंटादुंदुभिर्निघोषैरप्सरोनृत्यगा-  
यनैः ॥ १० ॥ प्रेक्षणं च प्रकुर्वीति लिंगस्य पुरतः स्थिताः ॥  
मधुरस्वरगंधर्वा गीतं कुर्वन्ति योषितः ॥ ११ ॥ आगता दह्य-  
माने च तथा च हरिचन्दने ॥ पठन्ति विविधं स्तोत्रं मुनयो देव-  
संयुताः ॥ १२ ॥ आरात्तिकं प्रकुर्वाणाः कर्पूरेण समन्विताः ॥

अतिरम्य मनोहर दिव्य चन्द्रमा और सूर्यकी समान कान्तिवान् था  
॥ ४ ॥ ऊंचे २ शिखरोंपर दीपक समुदाय रक्खेये । उस स्थानपर अधिक  
सुगंधित द्रव्योंसे सुगंध आतीथी ॥ ५ ॥ और अनेक रत्नोंसे जादित मकान शो  
भायमानये, उस नगरके मध्यमें वे संपूर्ण साधक गये ॥ ६ ॥ जहां ब्रह्माजीने  
महेश्वरदेवका लिंग स्थापित कियाथा साधकोंने वहां जाकर जगत् गुरु शिवकी  
नमस्कार किया ॥ ७ ॥ तहाँ कोटिगण स्वर्गस्थानमें प्राप्त हुए हैं और गंधर्वभी  
पृथक् २ शिवका पूजन करके चले गए ॥ ८ ॥ हे स्वामिकार्तिकेय स्वर्गलोकमें  
बहुगण और कन्या पंच कृत पूजाको करके भेरी, मृदंग, शंख आदिकको  
कोलाहलके शब्दों सहित स्थितथी ॥ ९ ॥ वीणा आदि अनेक वाजे बजते थे  
और घंटा डमरूके शब्दोंसे सहित अप्सराएं नृत्य करती थीं ॥ १० ॥ शिव-  
लिंगके आगे, स्थित होकर अवलोकन करतीहुई गंधर्वस्त्रियां मधुरवाणीसे गान  
करतीथीं ॥ ११ ॥ और अगर कर्पूर जलाकर चंदन चढा, देवतां सहित मुनि-  
गण अनेक प्रकारके स्तोत्र पढतेहैं ॥ १२ ॥ और कर्पूरकी आर्ती करतेहैं, उस

तस्मिन्स्थाने महातीर्थे धर्मकर्मसमागमः ॥ १३ ॥ गुरुपदेश-  
 मार्गेण पूजयित्वा महेश्वरम् ॥ स्तोत्रमंत्रैर्महादेवं वेदसिद्धान्त-  
 मध्यगेः ॥ १४ ॥ तस्मिन्स्थाने महातीर्थे निवसेच्चैकरात्रकम् ॥  
 आचार्यसाधकाः सर्वे निद्रावशमुपागताः ॥ १५ ॥ अर्द्धरात्रे  
 भवेन्निद्रा स्थाने तस्मिन्महाबुधैः ॥ स्वप्ने च दृश्यते तत्र रुद्रदेवो  
 महेश्वरः ॥ १६ ॥ जटामुकुटधारी च चंद्रार्द्धकृतशेखरः ॥ नी-  
 लकंठो वृषारूढशूलपाणिर्महाबलः ॥ १७ ॥ त्रिनेत्रो दशहस्तश्च  
 भस्मगात्रविलेपनः ॥ सिद्धवाक्यं वदेत्तत्र सिद्धाश्चैवोपदेशिनः ॥  
 ॥ १८ ॥ देवस्य पश्चिमे भागे तिष्ठति फलिता द्रुमाः ॥ तत्फलै-  
 रानताः शाखाः कूर्ष्मांडसदृशैर्भुवि ॥ १९ ॥ कूर्ष्मांडफलरूपेण  
 त्वमृतं तत्र तिष्ठति ॥ आचार्यसाधकाः सर्वेऽप्यागत्य द्रुमसन्नि-  
 धिम् ॥ २० ॥ गृहीत्वा फलमेकैकं गताश्चैव शिवालयम् ॥  
 पंचते साधकास्तत्र पूजयित्वा महेश्वरम् ॥ २१ ॥ फलं चाद्धि  
 च नैवेद्यमर्धभक्षणमेव च ॥ स्वप्ने चैवं समाख्याता पुनर्निद्रा

महातीर्थ स्थान पर बड़े धर्म कर्म होतेहैं ॥ १३ ॥ और गुरुके उपदेश किये  
 मार्गके द्वारा शिवको पूज, तथा वेदके सिद्धान्तोंके अनुकूल स्तोत्र मंत्रोंसे अर्च-  
 ना करके ॥ १४ ॥ उस महातीर्थपर एक रात जागरण कर फिर संपूर्ण आचार्य  
 साधक निद्राके वशीभूत हुए ॥ १५ ॥ आधीरातके विषय जब संपूर्ण साधकोंको  
 निद्रा आ गई, उस समय महेश्वरदेव स्वप्नमें दीखे ॥ १६ ॥ जो जटा मुकुट धारण  
 किये थे, और मस्तक पर आधा चन्द्रमा विराजताथा, नीलकंठ नाँदिये ( बैल )  
 परचढ़े त्रिशूल हाथमें लिये थे ॥ १७ ॥ तीन नेत्र और दशहाथ भस्म शरीरमें  
 लगाहुई थी, तब सिद्धोंसे वाक्य बोलें और उनको उपदेशादिया ॥ १८ ॥ इन  
 शिवदेवके पश्चिम भागमें फलित हुए वृक्ष लग रहे थे, कुम्हड़ा ( गोलकद्व ) के  
 समान फलोंसे वृक्ष झुकरहेथे ॥ १९ ॥ कूर्ष्मांड फलके रूपमें अमृत स्थित था,  
 संपूर्ण आचार्य साधक उन वृक्षोंके समीप आए ॥ २० ॥ और एक २ फल ग्रहण,  
 एक शिवालयको गये यह पाँचो साधक महेश्वर देवको पूजकर ॥ २१ ॥ आधा-  
 फल और नैवेद्य देवताको चढाया तथा आधा भक्षण किया इस प्रकार स्वप्न देस

हि तद्गता ॥ २२ ॥ विबुधा विस्मयं गत्वा मुखं पश्यांति सत्त्व-  
 र्म् ॥ साधका विस्मयं जग्मुः स्वप्ने दृष्ट्वा महेश्वरम् ॥ २३ ॥  
 आचार्य उवाच ॥ ॥ मयोक्तं हि पूर्वमिदं शास्त्रं सर्वत्र दर्शनम् ॥  
 अद्य वै प्रकटेद्यत्र दृश्यते च महेश्वरः ॥ २४ ॥ तत्र दृष्ट्वा महा-  
 देवं हर्षं यांति मुहुर्मुहुः ॥ अद्य मे सफलं जन्म चाद्य मे सफलं  
 तपः ॥ २५ ॥ अद्य मे सफलं जाप्यं यदि दृष्टो महेश्वरः ॥ श्री-  
 श्वर उवाच ॥ भो भोः सिद्धा महाभागा तुष्टो वो हि त्रिलोचनः ॥  
 ॥ २६ ॥ गुरुभक्तिप्रभावेण मार्गं पश्यांति सत्त्वरम् ॥ तस्य  
 तद्वचनं श्रुत्वापृच्छंस्ते सर्वसाधकाः ॥ २७ ॥ आचार्य साधका  
 सर्वे क्षणमेकं च तिष्ठतं ॥ दृश्यते च पुरं श्रेष्ठं नातिदीर्घं न ह्र-  
 स्वकम् ॥ २८ ॥ सुपकामृतगंधं च फलं कांचनसन्निभम् ॥ गृहीत्वा  
 फलमेकैकं गताश्चैव शिवालयम् ॥ २९ ॥ स्नात्वा भक्त्या  
 च ते सिद्धाः पूजयित्वा महेश्वरम् ॥ अर्द्धं च शिवनैवेद्यमर्द्धभक्ष-  
 णमाचरन् ॥ ३० ॥ फलभक्षणमात्रेण मूर्च्छां गच्छंति साधकाः

फिर वे सब निद्रासे छूटे ॥ २२ ॥ वे पंडितलोग विस्मय को प्राप्तहोकर मुखोंको देखते हुए साधक गण स्वप्न देखकर विस्मयको प्राप्त हुए ॥ २३ ॥ आचार्य बोला मैं पहलेही शास्त्रमें सुनायाथा कि, दर्शन होगा। आज शिव देवने प्रकट होकर दर्शन दिया ॥ २४ ॥ उस समय महादेवको देखकर वे लोग वारंवार हर्षको प्राप्त हुए और कहा आज हमारा जन्म और तप सफल हुआ ॥ २५ ॥ आज हमारा जप महेश्वरके दर्शनसे सिद्ध हुआ। ईश्वर बोले, हे सिद्धो ! तुमसे त्रिलोचन शिव संतुष्ट हुए ॥ २६ ॥ गुरुभक्तिके प्रतापसे शीघ्र सुमार्गको देखते हैं उनका यह वचन सुनकर संपूर्ण साधक पूछने लगे ॥ २७ ॥ क्षणमात्र उन आचार्य साधकोंके स्थित होनेपर एक नगर जो न बहुत बड़ा न बहुत छोटा ॥ २८ ॥ जो सुन्दर २ पके हुए फल और सुगंधसे शोभायमान और सुवर्णके समान देदीप्यमान था तहां से प्रत्येक साधक एक २ फलको ग्रहण करके शिवके स्थानको गए ॥ २९ ॥ और उन्होंने स्नान करके शिवका पूजन किया, आधा २ फल शिवको चढ़ाया आधा स्वयम् भोजन किया ॥ ३० ॥ फलके भक्षण मात्रसे साधक विस्मय



तावत्तिष्ठन्ति ते सिद्धा यावद्गोदोहमात्रकम् ॥ ३१ ॥ चितकाः स्थि-  
 तिमात्रेण स्मरन्ति परमेश्वरम् ॥ सर्वव्याधिविनिर्मुक्ता जरामृत्यु-  
 विवर्जिताः ॥ ३२ ॥ दिव्यदेहां महाकाया मलगंधविवर्जिताः ॥  
 अशेषवेदवक्त्रारः सर्वशास्त्रविशारदाः ॥ ३३ ॥ देवद्विजप्रसादेन  
 गुरुधर्मबलेन च ॥ भवन्ति साधकास्तत्र रुद्रतुल्यपराक्रमाः ॥  
 ॥ ३४ ॥ बहुज्ञानात्ततः सिद्धा जाता जातिस्मरा ध्रुवम् ॥ प-  
 श्यन्ति साधकाः सर्वे स्वर्गं मृत्युं रसातलम् ॥ ३५ ॥ महावीरा  
 महावेगा महाबलपराक्रमाः ॥ रूपवन्तो महातेजा जायन्ते तत्र  
 साधकाः ॥ ३६ ॥ पश्यन्ति गगने रम्ये कैलासशिखरालयम् ॥  
 सर्वे पुरीं प्रपश्यन्ति आचार्यः साधकाश्च ये ॥ ३७ ॥ दिव्यचक्षु-  
 र्भवेत्तेषां दीर्घदृष्टिस्ततो भवेत् ॥ इच्छया कुर्वते सृष्टिमिच्छया  
 ग्रन्ति ते जगत् ॥ ३८ ॥ त्रीनपीमान्पुनर्लोकान्कुर्वन्ते ते च ली-  
 लया ॥ सहस्रं योजनं गत्वा पुनरायन्ति ते ध्रुवम् ॥ ३९ ॥ नव-  
 कोटिगजानां च बलं प्राप्य दिवं गताः ॥ तेषां संख्या न कर्त्त-

(मूर्च्छा)को प्राप्त हुए और गोदोहन(क्षण)मात्र वे इस दशामें रहे ॥ ३१ ॥ फिर सचेत  
 होकर परमेश्वरको स्मरण करने लगे और सब व्याधि और जरामरण से रहित  
 हुए ॥ ३२ ॥ दिव्य देह को धारण कर जो मल दुर्गंधसे रहितहैं चारों वेदके कहने-  
 वाले तथा संपूर्ण शास्त्रोंमें निपुण हुए ॥ ३३ ॥ देवता और ब्राह्मणोंके प्रसादसे  
 तथा गुरुभक्तिके बलसे तहांपर वे साधक शिवके समान पराक्रमी होगये ॥ ३४ ॥  
 तब उन सिद्धोंको अधिक ज्ञानसे जातिका स्मरण होगया और सब साधकोंने  
 स्वर्गमृत्यु रसातलको देख ॥ ३५ ॥ वे बड़े शूर वीर तथा महातेजवी; पराक्रमी,  
 और सुन्दर रूपवाले साधक हैं ॥ ३६ ॥ रम्य आकाशसे शिखरों सहित कैलास  
 पर्वतको और संपूर्ण पुरीको देखतेहैं ॥ ३७ ॥ उनके दिव्यनेत्र होतेहैं और दीर्घ-  
 दृष्टि होतीहै, अपनी इच्छासे सृष्टि कर सकते हैं तथा इच्छासेही हरण करसकते हैं  
 ॥ ३८ ॥ क्षणमात्रमें तीनों लोकोंमें भ्रमण करसकतेहैं और सहस्रों योजन जा  
 करके फिर आसफतेहैं ॥ ३९ ॥ नौ करोड हाथियोंका बल पाकर स्वर्गको प्राप्त

व्या देवदानवराक्षसैः ॥ ४० ॥ स्वर्गं मृत्युं च पातालं लंघेरन्गो-  
 प्पदं यथा ॥ एवं देहे बलं तेषां सत्यं सत्यं वदाम्यहम् ॥ ४१ ॥  
 तत्र ते साधकाः सर्वे भवंतु ह्यजरामराः ॥ सिद्धाचार्यसमायुक्ता  
 आत्मानं शोधयन्ति हि ॥ ४२ ॥ मनुष्यजन्मसंभूता स्थितास्ते-  
 नरकार्णवे ॥ विहायैतन्महाशास्त्रं महामार्गं भयानकेः ॥ ४३ ॥  
 न पश्यन्ति परं दिव्यमंधास्ते ज्ञानमोहिताः ॥ अनेनैव च देहेन  
 स्वर्गो यैर्नाधिगम्यते ॥ ४४ ॥ ये वदन्ति च आचार्यः सिद्धाश्च वि-  
 स्मयं गताः ॥ तत्र ते साधकाः सर्वे गतास्ते चोत्तरां दिशम् ॥ ४५ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे विख्यातपुराणे श्रीश्वरकार्तिकेय संवादे  
 पंचयोगेन्द्रेच्छासिद्धिजीवन्मुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महापथे शि-  
 वदर्शने सदेहकैलासगमने स्वप्ने शंकरप्राप्तिः प्रत्यक्ष  
 दर्शनञ्च नाम विंशः पटलः ॥ २० ॥ श्लोकाः ॥ ५९७ ॥

होतेहैं उनके पराक्रमकी देवता तथा दैत्य, गणना नहीं करसकते ॥ ४० ॥ स्वर्ग  
 मृत्यु तथा पाताल लोकको गोपदकी समान उल्लंघन करसकते हैं इस प्रकार उन  
 के देहमें बल होताहै ॥ ४१ ॥ और वहांपर वे सब साधक अजर अमर होतेहैं सिद्ध  
 और आचार्यों सहित अपनी आत्माको पवित्र करतेहैं ॥ ४२ ॥ मनुष्य जन्मकी  
 स्थिति नरकार्णवमें हैं जो महाशास्त्र तथा महापंथ कल्पको नहीं पढतेहैं ॥ ४३ ॥  
 वे दिव्यमार्गको नहीं देखते वे अंधे हैं और अज्ञानसे मोहित हैं, इसही देहसे जो  
 स्वर्गको नहीं जातेहैं ॥ ४४ ॥ वे अज्ञानीहैं यह वचन सुनकर वे आचार्य सिद्ध  
 विस्मयको प्राप्त हुए तब वे साधक उत्तर दिशाको गमन करने लगे ॥ ४५ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे शिवपार्वतीसंवादे भाषाटीकायां विंशः पटलः ॥ २० ॥

## एकविंशः पटलः ।

श्रीश्वर उवाच ॥ ॐ कृत्वा शिवनमस्कारं सर्वज्ञाने विचक्षणाः ॥ पुरा  
 पश्यन्ति ते सिद्धा नदीं पुलिनगामिनीम् ॥ १ ॥ ब्रजन्ति स्वर्गभवनं

शिवजी बोले उन सिद्धोंने शिवको नमस्कार करके आगे नदी देखा जो पुलिन-  
 वाली ॥ १ ॥ और दशयोजन विस्तारवाली अतिरमणीक और मनोहर थी,

प्राप्य वेगमनुत्तमम् ॥ शोभते विमलं नीरं दृश्यते च मनोरमम् ॥ २ ॥  
 सरस्वती महाभागा पवित्रं पुरमुत्तमम् ॥ तस्य मध्ये निरीक्ष्यास-  
 न्परमानन्दमास्थिताः ॥ ३ ॥ बहूनि पद्मपत्राणि परीतानि समंततः ॥  
 तृप्तिं ते साधका यांति महागंधसुगंधिभिः ॥ ४ ॥ आनन्दतोपिताः  
 सिद्धाः परं निर्वाणमास्थिताः ॥ महानद्यात्सरस्वत्याः सिद्धास्तीर-  
 मुपेत्य ते ॥ ५ ॥ दृष्ट्वा ते चोत्तमां शोभां हर्षं यांति पुनः पुनः ॥  
 दशयोजनविस्तीर्णा अतिरम्या मनोहरा ॥ ६ ॥ लहरतुंगगंभीरा-  
 नेकावर्त्तसमाकुला ॥ मणिरत्नसमाकीर्णा पुष्पाकारा सुवालुका  
 ॥ ७ ॥ शंखमुक्तासमायुक्ता हंससारसशोभिता ॥ चक्रवाकयुगो-  
 पेता मत्स्यकूर्मसमाकुला ॥ ८ ॥ कर्पूरगंधवत्तोयमतिस्वादु सुशी-  
 तलम् ॥ अनेकपुष्पसौगंधपद्मनीलोत्पलैरपि ॥ ९ ॥ अप्सरो-  
 देवगंधर्वविद्याधरवरस्त्रियः ॥ जलक्रीडार्थमागत्य पूजयन्ति सदा-  
 शिवम् ॥ १० ॥ एवं पश्यन्ति ते सिद्धाश्चंद्रवेगां सरस्वतीम् ॥ तत्र

और उसमें निर्मल जल शोभायमान हो रहा था ॥ २ ॥ हे महाभाग ! उसका नाम सरस्वती नदी, और नगर बड़ा श्रेष्ठ था, उसके मध्यमें स्नान करके परम आनंदको प्राप्त हुए ॥ ३ ॥ उसमें अधिक कमलपत्र खिल रहे थे, साधक बड़ी सुगंधियोंसे संतुष्ट ॥ ४ ॥ और आनंदसे पूर्ण वे सिद्ध बड़ी शान्तिको प्राप्त हुए और महानदी सरस्वतीके तीरपर जाकर ॥ ५ ॥ बड़ी शोभा देखी वारंवार हर्षको प्राप्त हुए । वह नदी दशयोजन विस्तृत थी, बड़ी मनोहर और रमणीय ॥ ६ ॥ लहर और तरंगों तथा तटोंसे संयुक्त मणि तथा रत्नोंसे शोभायमान और जिसकी बालू पुष्पोंकी समान थी ॥ ७ ॥ शंख और मोतियोंसे संयुक्त हंस और सारस पक्षियोंसे शोभित चक्रवर्तियोंसे वासित और मत्स्य कछुए इनसे भरी हुई थी ॥ ८ ॥ और जल कर्पूरकी समान सुगंधित और बड़ा स्वादिष्ट शीतल और अनेक प्रकारके पुष्पोंसे सुगंधित और रक्त कमल और नील कमलोंसे व्याप्त थी ॥ ९ ॥ और उसका तट अप्सरा देवता गंधर्वोंसे संयुक्त था, वे जलक्रीडाको करते और सदाशिवका पूजन करते थे ॥ १० ॥ इस प्रकार उन सिद्धोंने चन्द्रमाकी समान चन्द्र और घेगवती सरस्वती नदीको देखा । हे महासेन ! उस महास्थानमें

स्थाने महासेन पंथाश्चैव न दृश्यते ॥ ११ ॥ गंधर्वाणां ध्वनिं  
 श्रुत्वा सम्मुखे यांति साधकाः ॥ पश्यन्ति च महास्थानमतिरम्यं  
 मनोहरम् ॥ १२ ॥ अत्युच्छ्रितं महादिव्यं शंकुपालपुरं महत् ॥  
 संप्राप्ताः साधकास्तत्र ह्यानंदो यत्र तिष्ठति ॥ १३ ॥ प्राकारैर्गो-  
 पुराञ्चैश्च निर्मितं दिव्यकांचनैः ॥ प्रविस्फुरन्महारत्नैर्दिव्यजालै-  
 श्च शोभितम् ॥ १४ ॥ ध्वजमालाकुलं दिव्यं चित्रकर्मापशो-  
 भितम् ॥ भेरीमृदंगशब्दैश्च शंखतूर्यसुवेणुकैः ॥ १५ ॥  
 शतैश्च शतपत्रैश्च लक्षकोटिभिरेव च ॥ एकविंशतिगुणोपेतो  
 दृश्यते धवलो गृहः ॥ १६ ॥ नानापुष्पगणोपेता नानागंधमनो-  
 हरा ॥ देवतासंदृशी दिव्या नानारत्नविभूषिता ॥ १७ ॥ द्वादशादि-  
 त्यतेजस्का मंगलादपि मंगला ॥ पुरी रम्या महादिव्या तप्तकांच-  
 नसन्निभा ॥ १८ ॥ पीतरक्तसितश्यामनानावर्णक्रमेण च ॥ पंच-  
 वर्णपताकाश्च दृश्यन्ते पवनेरिताः ॥ १९ ॥ स्तंभा हेममयाः सर्वे  
 सोमकांतिसमप्रभाः ॥ सपक्वफलसंपूर्णा नानाद्रुमसमाकुलाः २० ॥

मार्गभी नहीं देख पड़ता था ॥ ११ ॥ गंधर्वांकी ध्वनिको सुनकर साधकगण उनके  
 सम्मुख चले और उस स्थानको बड़ा रमणीक देखा ॥ १२ ॥ वह बड़ा सुन्दर  
 दिव्य शंकुपाल पुर था । साधक लोग तहांपर प्राप्त हुए जहां वह आश्रम था  
 ॥ १३ ॥ वह दिव्य सुवर्णकी दीवारोंसे और गोमहाल बना हुआ और बड़े २  
 रत्नोंसे प्रकाशित तथा सुन्दर २ जालोंसे सुशोभित ॥ १४ ॥ पताका और माला-  
 से व्याप्त सुन्दर चित्र कर्मासे शोभित और भेरी मृदंग शंख वेणु आदि बाजोंसे  
 निनादित था ॥ १५ ॥ सैकड़ों तथा लक्ष कोटि कमलोंको इकट्ठासगुना करनेसे जो हो  
 इतने कमलोंसे युक्त स्वच्छ गृह दीख पड़ते थे ॥ १६ ॥ अनेक प्रकारके फूलोंसे  
 और नाना प्रकारकी गंधोंसे मनोहर और देवताओंके समान, अनेक रत्नोंसे भूषित  
 ॥ १७ ॥ बारह सूर्यके समान तेजयुक्त मंगलसे भी सुमंगल तप्त सुवर्णकी समान  
 चमकीली वह मनोहर पुरी थी ॥ १८ ॥ और इवेत लाल पीली श्याम तथा  
 अनेक वर्णक क्रमसे लैप्रकारके वर्णवाली पताकाओंसे जो पवनसे प्रेरित होती  
 हुई शोभायमान थी ॥ १९ ॥ सुवर्णके खंभे जो चन्द्रमाकी समान कान्तिवाले ।

चूतचंदनसंयुक्तं कदलीखंडमण्डितम् ॥ देवगंधर्वसंकीर्णं  
 वंशवादित्रनादितम् ॥ २१ ॥ हेमरत्नसमायुक्तं प्रासादैश्च  
 गृहैस्तथा ॥ शतयोजनविस्तीर्णं शंकुपालपुरं महत् ॥ २२ ॥  
 हेमनैव रचिता भूमिरुद्यदर्कसमप्रभा ॥ इन्द्रनीलमहानीलैः पद्म-  
 रागैश्च शोभितः ॥ २३ ॥ अर्द्धयोजनविस्तीर्णः शंकुपालस्य  
 मंडपः ॥ स्तंभा हेममयास्तत्र चन्द्रकांतिसमप्रभाः ॥ २४ ॥ वि-  
 शेषेण च तिष्ठन्ति दीपमालासमाकुलाः ॥ रत्नमालासमायुक्तं  
 पुष्पमालाभिरावृतम् ॥ २५ ॥ नानारत्नसमायुक्तं शोभितं धव-  
 लैर्गृहैः ॥ स्वस्तिकै रत्नपुगैश्च कुंकुमैर्यक्षकर्दमैः ॥ २६ ॥ नित्यो-  
 त्सवसमाकीर्णं द्वारे च गणशोभितम् ॥ तस्य मध्ये महाश्रेष्ठं शंख-  
 पालं नृपोत्तमम् ॥ २७ ॥ सिंहासनानि दिव्यानि हेमरत्नमया-  
 नि च ॥ तत्र तिष्ठन्ति राजेन्द्रं शंखपालं नृपोत्तमम् ॥ २८ ॥ अ-  
 प्सरोगणगंधर्वास्तिष्ठन्ति ह्यत्र नैकधा ॥ संप्राप्तास्साधकास्तत्र

और अनेक प्रकारके वृक्ष फलोंसे लद रहे थे ॥ २० ॥ आम तथा चंदनके वृक्षोंसे  
 व्याप्त, केलोंके वृक्षोंसे शोभायमान, देवता और गंधर्वोंसे युक्त, वांसुरी आदि  
 वाजोंसे शब्दायमान ॥ २१ ॥ सुवर्ण तथा रत्नजटित प्रासाद और गृहोंसे युक्त,  
 वह शंकुपाल नगर सौयोजन विस्तारवाला है ॥ २२ ॥ और भूमी सुवर्णसे रचना  
 कीहुई उदय हुए सूर्यकी समान कान्तिवाली है और इन्द्रनील तथा महानील  
 पद्मराग मणियोंसे शोभायमान ॥ २३ ॥ शंकुपाल नगरका मंडप (घेरा) आर्ध  
 योजन है, तहांपर सुवर्णके खंभे चन्द्रमाकी समान कान्तिमान हैं ॥ २४ ॥ और  
 दीपकोंके समुदायसे व्याप्त, और रत्नमाला तथा फूलोंकी मालासे चारों ओर  
 घिरे हुए ॥ २५ ॥ और अनेक प्रकारके रत्नोंसे जटित स्वच्छ घर शोभित होरहे हैं  
 रत्नों और कुंकुम, केसर, तथा कस्तूरोंसे पूर्ण हैं ॥ २६ ॥ नित्यके उत्सवोंसे शोभा-  
 यमान, और द्वारपर गण विराजमान हैं, उसके मध्यमें महाश्रेष्ठ शंखपाल राजा  
 है ॥ २७ ॥ और दिव्य सिंहासन सुवर्ण व रत्नोंसे जटित हैं उनके ऊपर राजर्षि  
 शंखपाल विराजमान है ॥ २८ ॥ और तहां अप्सरागण गंधर्व आदि रहते हैं ॥

द्याश्रमो यत्र तिष्ठति ॥ २९ ॥ प्राकारैर्गोपुराट्टालैर्निर्मितं सर्व-  
कांचनैः ॥ प्रस्फुरत्तन्महारत्नैर्वर्षितं च पुरोत्तमैः ॥ ३० ॥ ध्वज-  
मालाकुलोपेतं चित्रकर्मोपशोभितम् ॥ भेरीमृदंगशब्दैश्च शंख-  
तूर्य्यैरवान्वितम् ॥ ३१ ॥ दुंदुभ्युत्तालनिर्वोपर्वशवादित्रनादि-  
तम् ॥ तत्र स्थानं महादिव्यं गताः सर्वे च साधकाः ॥ ३२ ॥  
तत्र तिष्ठन्ति वै कन्याः सर्वाभरणभूषिताः ॥ दिव्यवस्त्रपरीधाना  
दिव्यगंधानुलेपनाः ॥ ३३ ॥ शोभिताः शिरपुष्पैश्च तांबूलमुद्गि-  
रन्ति च ॥ मृगाक्ष्यो हंसगामिन्यः कुंडलाभरणोज्ज्वलाः ॥ ३४ ॥  
संपूर्णचन्द्रवदना वदन्त्यः कोकिलस्वरम् ॥ करकंकणसंयुक्ता  
हारकेयूरभूषिताः ॥ ३५ ॥ दिव्यदेहा महाकाया विद्युत्तेजःसम-  
प्रभाः ॥ अशोकपल्लवा हस्ता रूपयौवनगर्विताः ॥ ३६ ॥ जानु-  
बाहु तथा सेन कदलीस्तंभसन्निभौ ॥ कमलोदरसंपूर्णा रूपशोभा-  
युताः स्त्रियः ॥ ३७ ॥ काश्चिद्गजसमाहृढाः सर्वाः स्वच्छंदगा

साधक लोग वहां गए जहां आश्रम था ॥ २९ ॥ प्राकार, गोपुर और अट्टालोंसे  
जो सुवर्णके से बने थे और बड़े रत्नोंसे प्रकाशित और विरा हुआ था ॥ ३० ॥  
पताका और मालाओंसे व्याप्त चित्र कर्म ( चित्रकारी ) से शोभायमान भेरी  
मृदंगके शब्द और शंखतोरईकी ध्वनिसे गुंजारता हुआ ॥ ३१ ॥ दुंदुभि तथा  
तालके और बांसुरीके बाजेसे शब्दायमान उस दिव्य स्थानमें साधक गये ॥ ३२ ॥  
तहांपर संपूर्ण आभूषणोंसे भूषित कन्या स्थित हैं जो दिव्य वस्त्रोंको धारण किये  
हैं और दिव्य गंधको लेपन किये हैं ॥ ३३ ॥ सीस फूलोंसे शोभायमान हुईं और  
तांबूलको चावती हैं और मृगकी समान नेत्रवाली हंसकी समान गमनशील,  
कुंडल आभूषणोंसे उज्ज्वल ॥ ३४ ॥ पूर्ण चन्द्रमाके समान मुखारविन्दवाली  
कोयलके समान बोलती हाथमें कंकन पहने हार बाजूबंद धारण किये ॥ ३५ ॥  
दिव्य देहवाली, विजलीकी समान तेज और कान्तिवाली अशोक वृक्षके कोमल  
पत्तोंके समान हाथवाली, रूप और यौवनसे गर्वित हैं ॥ ३६ ॥ हे महासेन !  
जंघापर्यन्त लम्बायमान भुजावाली केलके खंभके सदृश सुन्दर कमलके समान  
उदरवाली, पूर्ण शोभायुक्त स्त्रियां ॥ ३७ ॥ कोई हाथीपर चढ़ी स्वतन्त्रता-

मताः ॥ काश्चिद्विमानसंरूढाः काश्चिच्च शिविकाधिगाः ॥ ३८ ॥  
 मत्तमातंगगामिन्यः सर्वा यौवनगर्विताः ॥ ३९ ॥ इच्छावाहन-  
 मारूढा गच्छन्ति ललना गतिम् ॥ शंकुपालसुताः सर्वा रमंते  
 च पठन्ति च ॥ ४० ॥ सुधांशुनिभवक्रास्ता रमंते प्रचरन्ति च ॥  
 वर्धमानलताकाराः पद्मनालभुजोपमाः ॥ ४१ ॥ नानाच्छंदा  
 मद्दोन्मत्ताः पठन्ति पाठयन्ति च ॥ सर्वा लक्षणसंयुक्तास्तपन्ति च  
 परंतपः ॥ ४२ ॥ आपगा चंचलाकारा पद्मनालैस्सकंटकैः ॥  
 क्षणं शुक्ला क्षणं कृष्णा क्षणं दर्पणसंनिभा ॥ ४३ ॥ शंखपाल  
 सुताः सर्वाः कैर्मुखं चुम्बयन्ति ताः ॥ चन्द्रवेगात्तद्वैव बहु-  
 पुष्पोपशोभितः ॥ ४४ ॥ तस्य मध्ये महावृक्षःसुवटो नाम  
 नामतः ॥ तस्मिस्तु दोलिता दोला घंटाचामरभूषिताः ॥ ४५ ॥  
 रत्नसंक्ताप्रवालैश्च कांचनै रचितालयाः ॥ हिंदोलयन्ति ताःक-  
 न्याः गायन्ति क्रीडयन्ति च ॥ ४६ ॥ फलपुष्पसमाकीर्णास्तस्य  
 शाखा विलंबिताः ॥ नानापुष्पसमाकीर्णः सुपक्वफलसंयुतः ॥ ४७ ॥

पूर्वक गमन करनेवाली, कोई विमानपर चढ़ी कोई पालकीपर चढ़ी हुई थीं ॥ ३८ ॥  
 सब गजगामिनी हाथोंपर चढ़ी हुई ॥ ३९ ॥ तथा अपने इच्छानुकूल वाहनपर  
 चढ़कर मनोहर गतिवाली, शंकुपालकी कन्या पढ़ती और रमण करती थीं  
 ॥ ४० ॥ चंद्रमाकी समान सुखवाली, विचरती और रमण करती बढ़ती हुई  
 चेलोंके समान लंबी कमलदंडी ( भसींडा ) के समान भुजावाली ॥ ४१ ॥ नाना  
 प्रकारके छन्दोंको उन्मत्त होकर पढ़ती और पढ़ाती थीं, सब लक्षणोंसे लक्षित  
 तपस्विनी तप करती थीं ॥ ४२ ॥ और चंचल आकारवाली नदी है जो कमल  
 दंडी और काँठोंमें क्षणमात्रमें शुद्ध, क्षणमें कृष्णवरणकी तथा क्षणमें दर्पणकी  
 समान म्यच्छ भान होती है ॥ ४३ ॥ शंखपालकी कन्यायें, किसके निमित्त  
 दी जाती ? चन्द्रवेगा नदीके किनारे अधिक पुष्प शोभायमान हैं ॥ ४४ ॥ उसके  
 मध्यमें एक सुवट नामक वृक्ष है, उस वृक्षमें आनन्दमय घंटा घंजता है ॥ ४५ ॥  
 रत्न, मोती, शंखा, मोने आदिसे मंदिर घना है, और पहाँ कन्या झुलती, गार्ती,  
 और प्रीडा परती हैं ॥ ४६ ॥ उस वृक्षकी शाखाएँ फल फूलोंमें शुकी और

अर्द्धयोजनविस्तीर्णं उच्छ्रायो दशयोजनम् ॥ तस्य शाखाः  
 प्रमाणैः स्वैर्गताश्चैव दिशो दश ॥ ४८ ॥ दिव्यवर्णो महा-  
 कायश्छाया तस्य सुशीतला ॥ रम्यो मनोहरो दिव्यंश्चन्द्रादित्य-  
 समप्रभाः ॥ ४९ ॥ तत्र तिष्ठन्ति ताः कन्याः सर्वाभरणभूषिताः ॥  
 पंचलक्षाश्च तिष्ठन्ति शंखपालसुतास्तथा ॥ ५० ॥ साधकाश्च  
 गतास्तत्र यत्र तिष्ठति सा पुरी ॥ दृष्ट्वा ताश्च ततः कन्याः सा-  
 धका विस्मयं गताः ॥ ५१ ॥ आगताः स्वागताः सिद्धाः  
 कन्यास्तत्र वदन्ति च ॥ आचार्यसहितास्तत्र मूर्च्छां गच्छन्ति सा-  
 धकाः ॥ ५२ ॥ कन्यकानां कृते चान्ते आचार्यसहितास्तु  
 ते ॥ शंखपालसुतानां च नित्यं यानैर्न्रजन्ति ते ॥ ५३ ॥ कन्याः  
 सर्वे निरीक्ष्यैवमूचुराचार्यसाधकाः ॥ अमृतं तासु सरति शंख-  
 पालसुतासु च ॥ ५४ ॥ नखाग्रात्सरते नित्यं ह्यमृतं बहुशीत-  
 लम् ॥ कामयित्वा महासेन पतन्ति साधकोपरि ॥ ५५ ॥ क्षणं

लम्बायमान हैं । अनेक प्रकारके फूल और पके हुए फलोंसे युक्त हैं ॥ ४७ ॥  
 वह आधे योजन विस्तृत है और दश योजन ऊंचा है उसकी शाखाके प्रमाणसे  
 मानों दशों दिशा जागई ॥ ४८ ॥ उसका दिव्य वरण और बड़ा शरीर है और  
 छाया अतिशीतल है रम्य मनोहर दिव्य और चंद्रमा सूर्यके समान कान्तिवाला  
 है ॥ ४९ ॥ तहांपर संपूर्ण आभूषणोंसे युक्त वहां कन्या विश्राम करती हैं, पांच  
 लाख शंखपालकी सुता हैं ॥ ५० ॥ साधक वहां गए, जहां यह नगरी थी, तहां  
 उसको और कन्याओंको देखकर विस्मयको प्राप्त हुए ॥ ५१ ॥ और वहां कन्या  
 आगत स्वागतकर इस प्रकार उन साधकोंसे कहती हैं आइये बैठिये ! उस समय  
 साधक आचार्योंके सहित मूर्च्छाको प्राप्त हुए ॥ ५२ ॥ कन्याओंके समीपहोनेपर  
 वे साधक आचार्योंके सहित हाथको स्पर्श करते हुए ॥ ५३ ॥ कन्याओंने आचार्य  
 सहित साधकोंसे संभाषण किया और शंखपालकी कन्याओंने अमृत छिड़का  
 ॥ ५४ ॥ नखोंके अग्रभागसे अतिशीतल अमृत टपकाया, हे महासेन ! तब वे  
 कामनाकरके साधकोंके ऊपर गिरा ॥ ५५ ॥ क्षणमात्र वहां उन कन्याओंने उनके



तत्र च भाषंते संवादे सह साधकैः ॥ सिंहासनं महादिव्यं हेम-  
 रत्नविभूषितम् ॥ ५६ ॥ तत्र तिष्ठति चाचार्यः साधकैः परिवे-  
 षितः ॥ अर्घ्यं पाद्यं प्रकुर्वीति तेषां ताः कन्यकास्ततः ॥ ५७ ॥  
 करसंपुटितं कृत्वा कन्यास्तत्र वदंति च ॥ दिव्यवस्त्रपरीधाना  
 दिव्यगंधानुलेपना ॥ ५८ ॥ दिव्यपुष्पशिरोवद्धा दिव्या-  
 भरणभूषिताः ॥ स्वागता भो महासिद्धाः क्षणमेकं च तिष्ठत ॥  
 ॥ ५९ ॥ साधुसाधु महाप्राज्ञा दर्शनं वोऽत्र दुर्लभम् ॥ कन्यका  
 ऊचुः ॥ आगता भुवनात्सिद्धाः क स्थाने चैव गम्यते ॥ ६० ॥  
 एतद्ब्रूहि महाचार्य साधकैः परिवेष्टित ॥ सिद्धा उचुः ॥ कथ-  
 यामि महायक्ष्यः शृणुतेदं वचो मम ॥ ६१ ॥ आगता मृत्यु-  
 लोकाच्च गंतव्यं शंकरालये ॥ कन्यका उचुः ॥ पितास्माकं  
 गतः सिद्धा वाटिकां पुष्पकारणात् ॥ ६२ ॥ क्षणाद्धै स्थीय-  
 तां तावद्यावत्तातो न चाव्रजेत् ॥ ६३ ॥ यावद्ब्रूदंति ताः  
 कन्याः शंखपालः समागतः ॥ जटामुकुटधारी च दिव्यदेहश्च  
 मूर्तिमान् ॥ ६४ ॥ दिव्यवस्त्रपरीधानो दिव्यगंधानुलेपनः ॥

साथ संभाषण किया, और जो महादिव्य सुवर्णरत्नोंसे भूषित सिंहासन था ॥ ५६ ॥  
 वहां साधक आचार्यों सहित बैठ गए तब उन कन्याओंने उनका अर्घ्यपाद्य किया  
 ॥ ५७ ॥ और हाथ जोड़ कन्या उनसे बोलीं जो दिव्य वस्त्र और सुन्दर गंधसे  
 लिप्त थीं ॥ ५८ ॥ सुन्दर सीस फूल धारण किये और सुन्दर गहने पहने थीं उस  
 समय बोलीं हे सिद्धो !! क्षणमात्र यहां ठहरो ॥ ५९ ॥ हे महाबुद्धिमान !  
 आपका दर्शन बड़ा दुर्लभ है । कन्या बोलीं । हे सिद्धो ! कहांसे आए हो और  
 कहांको जाते हो ? ॥ ६० ॥ हे आचार्यों ! सिद्धोंके सहित यह कहो । सिद्ध बोले ।  
 हम कहते हैं मुनो ॥ ६१ ॥ मृत्युलोकसे आये हैं और शंकरके स्थानको जाते  
 हैं कन्या बोलीं हे सिद्धो !!! हमारा पिता फूल लेनेको बागमें गया है ॥ ६२ ॥  
 जबतक पिता नहीं आवे क्षणमात्र स्थित रहो ॥ ६३ ॥ जबही कन्या ऐसा कह  
 रही थीं तभी उनका पिता शंखपाल आगया जो जटा मुकुट धारण किये हुआ,  
 दिव्य देह और मूर्तिमान था ॥ ६४ ॥ और दिव्य वस्त्र धारण किये, सुगंध लिप-

दिव्यपुष्पशिरोवद्धो रूपवांश्च महानृपः ॥ ६५ ॥ महाराजेन  
 तेनाथ दृष्टा वै पंचसाधकाः ॥ हृष्टपुष्टस्ततो भूत्वा राजा तान-  
 वदत्ततः ॥ ६६ ॥ साधकानां मुखं दृष्ट्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥  
 अद्य मे सफलं जन्म चाद्य मे सफलं तपः ॥ ६७ ॥ अद्य मे  
 सफलं राज्यमद्य मे सफलाः क्रियाः ॥ पुष्पकाण्डं ततस्त्यक्त्वा  
 राजा तानभ्यवोचत ॥ ६८ ॥ शंखपाल उवाच ॥ पुष्पाणि  
 शिवपूजायां समर्प्य च शिवालये ॥ कृताञ्जलिपुटो भूत्वा  
 साधकांश्च नमस्यति ॥ ६९ ॥ आगता भुवनात्सिद्धाः कं स्थाने  
 चैव गम्यते ॥ ७० ॥ साधक उवाच ॥ कथयामि महाराज शृणु  
 मे वचनं शुभम् ॥ आगता मृत्युलोकाच्च गंतव्यं शंकरालये ॥  
 ॥ ७१ ॥ राजोवाच ॥ अस्मिन्नेव पुरे रम्ये बहुकन्यासमाकुले ॥  
 पश्याचार्य इमाः कन्याः सर्वालंकारभूषिताः ॥ ७२ ॥ स्तनौ  
 तालफलाकारौ सर्वास्ता मदविह्वलाः ॥ तिष्ठन्ति पंचलक्षा वै क-  
 न्यकाश्च ममालये ॥ ७३ ॥ क्रीडंतु कन्यकाः सार्द्धमाचार्य

टापे सुन्दर फूल सिरपर बांधे अतिरूपवान्था ॥ ६५ ॥ तर्हापर उसने पांचों साधकोंको  
 देखा । प्रसन्न होकर राजा उनसे वचन बोला ॥ ६६ ॥ हे साधको !! आपके दर्श-  
 नसे सब पाप मुक्त होते हैं आपके दर्शनोंसे मेरा जन्म तथा तप सफल हुआ  
 ॥ ६७ ॥ आज मेरा राज्य सफल हुआ और सब क्रिया सफल हुई, राजाने पुष्प-  
 समूहको रखकर उनको प्रणाम किया ॥ ६८ ॥ शंखपाल बोला, ( पुष्पोंको  
 शिवपूजामें समर्पणकर ) अंजलि बांधकर साधकोंको नमस्कार किया ॥ ६९ ॥  
 हे सिद्धो ! किस स्थानसे आये हो ? और किस स्थानमें जाते हो ? ॥ ७० ॥ साधक  
 बोले । हे महाराज ! हमारा वचन सुनो हम कहते हैं । मृत्युलोके आये हैं शंकर-  
 रके मंदिरमें जाते हैं ॥ ७१ ॥ राजा बोला । इन रमणीक, कन्याओंसे पूर्ण नगरमें  
 रहो । हे आचार्य ! इन संपूर्ण आभूषणोंसे शोभित कन्याओंको देखो ॥ ७२ ॥  
 स्तन तालके फलके समान हैं, और सब मदोन्मत्त पांचलाख कन्या हिमालयपर  
 रहती हैं ॥ ७३ ॥ हे साधक आचार्यो ! इन कन्याओंके साथ क्रीडा करो हे महा-

साधकैरिह ॥ भुंजते विपुलान्भोगान्साधकाश्च महारथाः ॥  
 ॥ ७४ ॥ साधक उवाच ॥ अस्मिन्नेव पुरे रम्ये कति वर्षाणि  
 जीवति ॥ पश्चाच्च कां गतिं गच्छेदिति नो वद सत्वरम् ॥ ७५ ॥  
 शंखपाल उवाच ॥ सहस्रत्रयकन्यानां दीयते च पृथक्पृथक् ॥  
 संवत्सरसहस्रं च ह्यायुरत्र विधीयते ॥ ७६ ॥ भुक्त्वा च विपु-  
 लान्भोगान्मृत्युलोके हि गम्यते ॥ सर्वकामैः समृद्धे च जायते  
 विपुले कुले ॥ ७७ ॥ सर्वे गुणगणोपेता राजानोऽपि भविष्यथ ॥  
 चंद्रास्याश्च स्त्रियः प्राप्याभुंक्त भोगान्यथेप्सितान् ॥ ७८ ॥  
 धन्या माता पिता धन्यो धन्यो देशो नृपस्तथा ॥ धन्यो ग्रामः  
 पुरी धन्या चोत्पन्ना यत्र साधकाः ॥ ७९ ॥ उत्थिता गमने सिद्धा-  
 स्त्वरंते च महापथम् ॥ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा पुनश्चितंति साधकाः ॥  
 ॥ ८० ॥ साधका ऊचुः ॥ आचार्य वदनं पश्य प्रत्यक्षं चैव  
 दृश्यते ॥ किमत्र पांडुगात्राणि कन्यानां च महामुने ॥ ८१ ॥  
 राजोवाच ॥ केतकीनां सुगंधेन लिप्तास्ताः पद्मरेणुभिः ॥  
 आनन्देनोच्चकैः कन्याः पद्मानां धूलिलेपनात् ॥ ८२ ॥

रथो ! अधिक भोगोंको भोगो ॥ ७४ ॥ साधक बोले इस नगरमें रहकर कितने  
 वर्ष जीते हैं और पीछे किस गतिको पाते हैं ? यह शीघ्र कहो ॥ ७५ ॥ शंखपाल  
 बोला पृथक् २ तीन सहस्र कन्याओंके संहित यहां एक हजार वर्षको आयु दी  
 जायगी ॥ ७६ ॥ और अत्यन्त भोगोंको भोगकर मृत्यु लोकमें प्राप्त होते हैं सब  
 कामना पूर्ण होता है और उत्तमकुलमें जन्म होता है ॥ ७७ ॥ और सब गुणोंसे  
 अलंकृत राजा भी होता है । चन्द्रमाकी समान सुखवाली कन्या और लक्ष्मीकी  
 पाकर यथेप्सित भोगोंको अनुभव करे ॥ ७८ ॥ वे माता पिता धन्य हैं । धन्य वह  
 दश और धन्य वह राजा तथा ग्राम देश धन्य है, जहांपर साधक उत्पन्न हुए ॥ ७९ ॥  
 साधकोंने उठके महापथके जानकी शीघ्रता करी, उनका यह वचन सुनकर  
 साधक फिर विचार करने लगे ॥ ८० ॥ साधक बोले हे आचार्य ! देखो इन  
 कन्याओंके शरीर पांडु ( पीले ) धरणके क्यों हैं ? जो प्रत्यक्ष दीखते हैं ॥ ८१ ॥  
 राजा बोला केतकीके सुगंध सहित कमलकी धूलिके लिप्त होनेसे ॥ ८२ ॥

कामरागप्रपन्नाश्च तेन पांडुरतां गताः॥ अत्र स्थाने महावीरा भुं-  
जंतु विपुलां थियम् ॥८३॥ साधका ऊचुः ॥ शंखपाल महाराज  
गंतव्यं शंकरालये ॥ तेषां तद्रचनं श्रुत्वा भूयो वचनमब्रवीत् ॥  
॥ ८४ ॥ राजोवाच ॥ कथं भूयो न रोचते कथं चैवात्र आगताः॥  
मृत्युलोके महाभोगान्कथमेतान्त्रवामि वः ॥ ८५ ॥ नानाभोगा-  
न्परित्यज्य मृत्युलोकादिहागताः ॥ नार्यश्च विविधाश्चापि  
त्यक्ता यौवनगर्विताः ॥ ८६ ॥ मृत्युलोके महाभोगान्कथयामि  
ततः शृणु ॥ शालिमुद्गघृतं क्षौद्रं पयोऽन्नं गुडशर्कराः ॥ ८७ ॥  
चंदनादिमहाभोगाः केतकीराजचंपकाः ॥ जातयः शतपत्राणि  
त्रकुलाः पाटलैस्सह ॥८८॥ मृत्युलोके महापीडा वायुवेगास्तु-  
रंगमाः ॥ गजो रथस्मुखं चेति पूर्णचंद्रमुखाः स्त्रियः ॥ ८९ ॥  
मृगाक्ष्यो हंसगामिन्यः कुंडलाभरणोज्ज्वलाः ॥ करकंकणसंयुक्ता  
हारकेयूरमेखलाः ॥ ९० ॥ संपूर्णनागलतिकाः कर्पूरेण सम-  
न्विताः ॥ ईच्छाभोगाश्च सर्वेऽमी मृत्युलोके च साधकाः॥ ९१ ॥

कामराग अपने शरीरमें लगायाहै, इसकारण पांडुवरण हांगया है सो हे महावीर !  
इस स्थानमें अधिक भोगोंकी भोगो ॥ ८३ ॥ साधक बोले हे शंखपाल महा-  
राज ! हम शंकरके स्थानको जायेंग, इसप्रकार साधकोंका वचन सुन फिर वह  
॥ ८४ ॥ राजा बोला, क्यों आप इच्छा नहीं करते ? और क्यों यहां प्राप्त हुए  
मृत्युलोकमें जो २ भोगहैं उनको तुमसे कहताहूं ॥ ८५ ॥ कि जो अनेक प्रकार-  
के भोगोंको त्यागकर यहां आए और तुमने अनेक प्रकारकी यावनवती स्त्रियां  
त्यागी ॥ ८६ ॥ मृत्युलोकमें जो महाभोगहैं उनको तुमसे कहतेहैं सुनो ! धान,  
मूंग- धी, शहत, दुग्ध- शर्करा, ॥ ८७ ॥ चंदन, केतकी, राजचंपक, आदिके  
अनेक संभारहैं और कमलकेसर पाटल आदिके अनेक वृक्षोंमें शोभायमान ॥  
॥ ८८ ॥ मृत्युलोकमें पवनकी समान वेगवाले घोडे हाथी रथ और पूर्णचन्द्र-  
मुखी स्त्रियोंका सुखहै ॥ ८९ ॥ जो मृगनयनी हंसगामिनी कुंडलआदि आभूषणों  
से शोभितहैं और हाथमें कंकणधारे हार और वाजूबंद भेरुला ( कीं रनी ) पहरे  
॥ ९० ॥ कर्पूरसहित पानको चाबै हैं इस प्रकार मृत्युलोकमें संपूर्ण इच्छानुकूल

नानाफलसमाकीर्णो नानापुष्पसमाश्रितः कदलीफलसंयुक्तो नारिकेलैश्च चूतकैः ॥ ९२ ॥ नानावृक्षसमाकीर्णो नानापक्षिसमाकुलः ॥ मृत्युलोको महाचार्य साधनेः परिवेष्टितः ॥ ९३ ॥ भुंजतां साधकाः सर्वे स्वर्गतुल्यो न संशयः ॥ भुक्त्वा च विपुलान्भोगान्क्रीडन्तश्च यथासुखम् ॥ ९४ ॥ साधका ऊचुः ॥ मृत्युलोके महादुःखं कथयामि ततः शृणु ॥ मातृपितृसुतानां च बांधवानां तथैव च ॥ ९५ ॥ वियोगेन महादुःखं तस्मात्स्थातुं न शक्यते ॥ गर्भवासभयाद्भीता राजन्नत्रागता वयम् ॥ ९६ ॥ संसारः स्वप्नमात्रश्च चलाः प्राणा धनं तथा ॥ चिन्ता बहुतरा तत्र क्षुधा तत्र पुनःपुनः ॥ ९७ ॥ एवं दुःखभयाद्भीता राजन्नत्रागता वयम् ॥ एवंदुःखे महादुःखं मृत्युलोके व्यवस्थितम् ॥ ९८ ॥ कथयामि पुनर्दुःखं शृणु तत्तन्महानृप ॥ अष्टोत्तरशतं देहं व्याधयः पीडयन्ति हि ॥ ९९ ॥ सागरश्च जलैस्तद्भ्रत्संसारो दुःखपूरितः ॥ सुखं तत्र न पश्यामि दुःखं तत्र दिनेदिने ॥ १०० ॥

भोगहैं ॥ ९१ ॥ अनेक प्रकारके फल लगेहैं नानाप्रकारके पुष्प लहलहातेहैं केलेके फल और नारियल तथा आम आदिसे संयुक्तहैं ॥ ९२ ॥ अनेक प्रकारके वृक्षोंसे तथा नाना प्रकारके पक्षियोंसे व्याप्तहैं । ऐसे मृत्युलोकमें साधकों सहित ॥ ९३ ॥ सब भोगोंको भोगो, कारण कि वह स्वर्गके तुल्यहै, इसमें कुछ संशय नहीं है, अधिक भोगोंको भोगके मुखपूर्वक क्रीडा करो ॥ ९४ ॥ साधक बोलें । मृत्युलोकमें बड़े दुखहैं, सुनो ! माता, पिता, पुत्र तथा भाइयोंके ॥ ९५ ॥ वियोगसे महादुःख होताहै इस कारण वहाँ स्थित होनेको हम समर्थ नहींहैं हे राजन् ! गर्भमें रहनेके भयसे यहाँ आएहैं ॥ ९६ ॥ यह संसार स्वप्नमात्रहै । प्राण और धन नाशमानहैं, वहाँ अधिक चिन्ताहै और बारम्बार क्षुधा लगती है ॥ ९७ ॥ इस प्रकारके अनेक भयोंसे भीत हुए हम इस स्थानमें प्राप्त हुए हैं मृत्युलोकमें उपरोक्त दुखहैं ॥ ९८ ॥ हेराजन् ! और मैं मृत्युलोकके दुःखवर्णन करता हूँ कि शरीरके मध्यमें एकसी आठ व्याधि (रोग) पीडा देतीहैं ॥ ९९ ॥ निस प्रसार समुद्र जलसे पूर्ण है तैसेही संसार दुःखोंसे पूर्णहै, वह

तत्रैव विपुलान्भोगानायुर्हीनांश्च मानवान् ॥ इन्द्रजालमयं दृष्ट्वा  
संसारं सरितो यथा ॥ १०१ ॥ महादुःखं नृपश्रेष्ठ मया दृष्टं  
पुनःपुनः ॥ मृत्युलोके महादुःखं सत्यं सत्यं वदाम्यहम् ॥  
॥ १०२ ॥ अल्पं सुखं च संसारे पुनर्दुःखं गता वयम् ॥ प्रथमं  
गर्भमध्ये हि ऊर्ध्वपादमधोमुखम् ॥ १०३ ॥ द्वितीयं जन्मकाले  
च महादुःखं प्रवर्तते ॥ तृतीयं यौवने दुःखं कामांधा मदविह्व-  
लाः ॥ १०४ ॥ पश्चाद्दुःखं महादुःखजर्जरीकृतदेहिनाम् ॥ तत्र  
संकुचितं गात्रं जरया पांडुरं वपुः ॥ १०५ ॥ पुत्रदारास्तथा  
बंधुर्नैव कुर्वति किंचन ॥ नासानेत्रजलश्रावा मुखे लाला च  
जायते ॥ १०६ ॥ अभ्रमध्ये च पश्यंति चंचलां विद्युतां गतिम् ॥  
क्षणं दृष्ट्वा च नश्यंति तथा संसारिणो जनाः ॥ १०७ ॥ तस्मि-  
न्काले महादुःखं पश्चाद्रूपं विनश्यति ॥ एवं दुःखभयाद्गीता  
राजत्रागता वयम् ॥ १०८ ॥ अहं ते कथयिष्यामि पुनर्दुःखं  
महानृप ॥ शंखपाल महाराज श्रूयतां वचनं मम ॥ १०९ ॥

सुख कुछ नहीं प्रतिदिन दुःखकोही देखताहूँ ॥ १०० ॥ वहां भोगतो  
अधिकहैं परन्तु मनुष्य आयुहीन हैं इन्द्रजालकी बनी हुई नदीके समान संसार  
है ॥ १०१ ॥ हे नृपश्रेष्ठ ! मैंने दुःख वारम्बार देखा सत्य २ कहताहूँ कि-मृत्यु-  
लोक दुःखका सागरहै ॥ १०२ ॥ क्षणिक सुखवाले संसारमें फिर दुःखको प्राप्त  
हुए, पहले तो गर्भके बीचमें ऊपरको पैर और नीचको मुझ किया ॥ १०३ ॥  
दूसरे जन्मके समय बड़ा दुःख होताहै तीसरे युवा अवस्थामें दुःखको कामांध  
और मदसे विह्वल हुए भोगतेहैं ॥ १०४ ॥ पीछेसे बुढ़ापेमें जब शरीर जर्जरी  
भूत होजाताहै तब महादुःख होताहै और उस अवस्थामें सब शरीर सुकड़ और  
पांडुवरणका होताहै ॥ १०५ ॥ पुत्र स्त्री बांधवगण कुछभी नहीं करसकते, ना-  
सिका नेत्र सुखमेंसे जल टपकताहै ॥ १०६ ॥ जैसे मेघोंके बीच विजली चंचल  
दिखाई पड़तीहै, क्षणमात्रमें नहीं दीखती इसी प्रकार संसारी मनुष्य हैं ॥ १०७ ॥  
उस जीवनके समय महादुःख होताहै, पश्चात् रूपभी नष्ट होताहै, हे राजन् !  
इस प्रकारके दुःखोंसे डरे हुए हम यहां आरहें ॥ १०८ ॥ हे शंखपाल ! मैं और

यथा हि कूपमध्ये च घटमाला भ्रमंति च॥ गमागमौ हि पश्यामि  
 तद्भ्रत्संसारिणो जनाः॥११०॥ जले च बुद्बुदो यद्भ्रत्तद्भ्रत्संसारिणो  
 जनाः॥ मया दृष्टा महाराज सत्यं सत्यं वदाम्यहम्॥१११॥ निमग्नो  
 जलमध्ये तु प्राप्तस्तत्र रसातलम् ॥ संसारेषु तथा लोका भयं  
 दृष्ट्वा पुनःपुनः ॥ ११२॥ स्वकर्मणा समायुक्ताः पुनर्गर्भे पतंति  
 च ॥ तेन दुःखभयाद्भीताः श्रूयतां वचनं मम ॥ ११३ ॥ गिरे-  
 श्च शिखरे यद्ब्रन्निर्मलं वर्षते जलम् ॥ मोघं चैव हितं तोयं तथा  
 संसारिणो जनाः ॥ ११४ ॥ लोचने च महाराज निमेषपरि-  
 पूरिते ॥ मया दृष्टा महाराज तद्भ्रत्संसारिणो जनाः ॥ ११५ ॥  
 चपलं सर्वसंसारमहं दृष्ट्वा पुनः पुनः ॥ एवं दुःखभयाद्भीता राज  
 न्नागता वयम् ॥ ११६ ॥ संसारस्य महाघोरं महादुःखैः प्रपी-  
 ङिताः ॥ महाकष्टं त्रिता राजंस्तस्मात्संसारिणो जनाः॥११७॥  
 तस्य तद्ब्रचनं श्रुत्वा राजा वचनमंत्रवीत् ॥ राजोवाच ॥ मंदिरं

भी वडे दुःखको वर्णन करताहं मेरा वचन सुनो ॥ १०९ ॥ जिस प्रकार कूपके  
 मध्यमें घटोंका समुदाय घूमताहै आना जाना सा दीख पडताहै तद्वत् संसारी  
 मनुष्यहैं ॥ ११० ॥ और जलमें जैसे बुद्बुदे रहतेहैं तैसे संसारी  
 मनुष्य क्षणभंगुर हैं ऐसा मैंने देखा सो सत्य २ कहताहूं ॥ १११ ॥ जैसे जलके  
 मध्यमें गिरकर पातालको प्राप्त होताहै इसीप्रकार प्राणी संसारमें आकर धार २  
 दुःख ( भय ) देरताहै ॥ ११२॥ अपने कर्मके अनुसार फिर गर्भमें प्रविष्ट होतेहैं,  
 वे दुःख और भयसे अस्त होतेहैं यह मेरा वचन सुनो ॥ ११३ ॥ जैसे पर्वत  
 शिखरपर भयोंमें निर्मलजल वर्षताहै परन्तु क्षणमें नहीं दीसता, उसी प्रकार  
 संसारिजन हैं ॥ ११४ ॥ हे महाराज ! जैसे नेत्र एक क्षणमात्र पलक मारते हैं  
 ठम पालकों समान संसारियोंका जीवनहै ॥ ११५ ॥ यह सब जगत् चलाप-  
 मानहै ऐसा मैंने धारग्यार देखाहै, हे राजन इस दुःखके भयसे भीतहुए हम इस  
 स्थानपर आयेहैं ॥ ११६ ॥ संसारके महाघोर दुःखसे दुरीदुओंका महाकष्ट  
 सुनो ॥ ११७ ॥ ठमका ऐसा वचन सुनकर राजा घोला, मेरा मंदिर देगो फिर

मम द्रष्टव्यं यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ११८ ॥ शंखपालेन सहि-  
ता गतास्ते नृपमन्दिरम् ॥ आचार्य्यसहिताः कन्या वदन्ति च  
परस्परम् ॥ ११९ ॥ सिद्धा ऊचुः ॥ क्व माता क्व पिता  
वोऽद्य भ्रातरो वः क्व च प्रियाः ॥ कामिन्यो ब्रूत तत्सर्वं यत्पृच्छा-  
मो वयं च वः ॥ १२० ॥ कन्यका ऊचुः ॥ वयं च कथयिष्यामो मद्रचः  
शृणुतादरात् ॥ शंखपालसुताः सिद्धा दोलिते दोलितास्तथा ॥  
॥ १२१ ॥ कथयिष्यामहे वो वै शृणुतेमानि वचांसि नः ॥  
शंखपालसुता एता वलाढ्या मदविह्वलाः ॥ १२२ ॥ सिद्धा  
ऊचुः ॥ कामिन्यस्तत्त्वतो वाक्यं शृणुत ब्रूमहे वयम् ॥  
शंखपालस्य राजर्षेः कथ्यन्ते कति पुत्रिकाः ॥ १२३ ॥ कन्य-  
का ऊचुः ॥ पंचलक्षैकपुत्रीणां सतलक्षैकपुत्रकाः ॥ अर्द्धलक्षैक  
नारीणामेवं सिद्धाः कुटुंबता ॥ १२४ ॥ सिद्धा ऊचुः ॥  
रथाश्च कति तिष्ठन्ति कति संति तुरंगमाः ॥ गजाश्च कति तिष्ठन्ति  
कति योधाश्च भृत्यकाः ॥ १२५ ॥ कन्यका ऊचुः ॥ ॥ दश  
कोटिगजाश्चैव षोडशकोटितुरंगमाः ॥ त्रिंशत्कोटी रथानां च  
पद्मकोटिश्च भृत्यकाः ॥ १२६ ॥ सिद्धा ऊचुः ॥ ॥ रोचते

जैसी इच्छा हो वैसा करना ॥ ११८ ॥ फिर सब साधक शंखपालके साथ उसके  
मंदिरको गये, तब आचार्यसहित कन्या आपसमें संभाषण करती हुई ॥  
॥ ११९ ॥ सिद्ध बोले हे प्रिये ! तुम्हारे माता और पिता तथा भाई कहां गए हैं  
हे कामिनी ! यह सत्य २ कहो ॥ १२० ॥ कन्या बोलीं हे महातप ! हे सिद्धो !  
सुनो हम कहती हैं । कि हम सब शंखपालकी पुत्री झूलोमें झूलनेवाली हैं ॥ १२१ ॥  
हे महामते ! हे महातप ! सुनो यह सब कन्या पूर्वकर्मसे मदमें मोहित हुई  
॥ १२२ ॥ सिद्ध बोले हे कामिनियो ! सुनो हम कहते हैं कि शंखपाल राजर्षिके  
कितनी पुत्रों हैं ॥ १२३ ॥ कन्या बोलीं पांच लाखपुत्र, सातलाख पुत्री और आधे  
लाख स्त्रियाँ हैं इसमकार राजाका कुटुम्ब है ॥ १२४ ॥ सिद्ध बोले रथ और कितने  
घोड़ों हैं ? कितने हाथी कितने योद्धा और कितने नौकर हैं ? ॥ १२५ ॥ कन्या बोलीं बारह  
करोड़ हाथी सोारह करोड़ घोड़े तीस करोड़ रथ पद्मकोटि भृत्य हैं ॥ १२६ ॥ सिद्ध बोले



नात्र वै स्थाने वासो नो मृगलोचनाः ॥ अनेकव्यसनोपेते  
 नानाभोगसमाकुले ॥ नानाविचित्रचित्राढ्ये नानावस्त्र-  
 सुवासिते ॥ १२७ ॥ मृत्युलोके यदि पुनर्गतव्यं च महानृप ॥  
 अस्मभ्यं रोचते नेदं यदि भोगा ह्यनेकधा ॥ १२८ ॥ राजोवाच  
 न रोचते यदा भोगा रोचते न च कन्यकाः ॥ गच्छगच्छ महा-  
 मार्गं साधकैः परिवेष्टित ॥ १२९ ॥ अद्य मे सफलं जन्म  
 चाद्य मे सफलं तपः ॥ अद्य मे सफलं राज्यं मया दृष्टाश्च सा-  
 धकाः ॥ १३० ॥ अद्य मे सफलं कर्म चाद्य मे सफलाः क्रियाः  
 अद्य मे सफलं सेवा मया दृष्टाश्च साधकाः ॥ १३१ ॥ अद्य मे  
 सफला भूमिरद्य मे सर्वसाधनम् ॥ तत्रैवं साधकाः सर्वे गतास्ते  
 चोत्तरां दिशम् ॥ १३२ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे विख्यातपुराणे श्रीश्वरकार्तिकेय संवादे-  
 पंचयोगेन्द्रेच्छासिद्धिजीवन्मुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महापथे  
 शिवदर्शने सदेहकैलासगमने शंखपालराजपुरी-  
 वर्णनं नार्मकविंशः पटलः ॥ २१ ॥

इस अनेक भोगोंसे व्याप्त स्थानमें रहनेकी रुचि नहीं है, जो स्थान अनेक चित्रोंसे  
 विचित्र और अनेक वस्त्रोंसे सुवासित है ॥ १२७ ॥ हे महानृप ! यहांसे फिरभी  
 मृत्युलोकमें प्राप्त होते हैं इस कारण यह अनेक प्रकारके भोग नहीं रुचते ॥ १२८ ॥  
 राजा बोला. यदि भोग तथा कन्या नहीं रुचती तो महापथ ( शिवालम ) को  
 जाओ ॥ १२९ ॥ आज हमारा जन्म, तप, राज्य सब सफल हुआ, कि-जो आप  
 साधकोंके दर्शन हुए ॥ १३० ॥ आज मेरा कर्मकांड, तथा सब क्रिया, सेवा  
 आदि सब सफल हुई ॥ १३१ ॥ आज मेरी भूमि तथा हे साधको आज मेरा  
 सब सफल हुआ, फिर ये साधक उत्तर दिशाकी ओरको गए ॥ १३२ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे विख्यातपुराणे श्रीश्वरकार्तिकेय संवादे शंखपालराजपुरी-  
 वर्णनं नार्मकविंशः पटलः ॥ २१ ॥

## द्वाविंशः पटलः ।

श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ ॐ तस्मात्ते साधकाः सर्वे गताश्चैवो-  
त्तरामुखम् ॥ अग्रतो दृश्यते तत्र ह्यप्रमादो महागिरिः ॥ १ ॥  
अप्रमादपुरो दृश्यो ज्ञानाह्वः पर्वतोत्तमः ॥ पर्वतद्वयमध्ये  
च क्षीराब्धिसदृशप्रभः ॥ २ ॥ अप्रमादस्य सोपानो  
हेमरत्नविभूषितः ॥ तदा तेनैव मार्गेण गंतव्यं साधकैः सह ॥  
॥ ३ ॥ तस्य शृंगे परा रम्या अतिदिव्या मनोरमाः ॥ शतयो-  
जनविस्तीर्णा वालार्कसदृशप्रभाः ॥ ४ ॥ प्रतौलीद्वारसंयुक्ता  
हेमप्राकारवेष्टिताः ॥ तत्र गच्छन्ति मार्गे च साधकाः सत्वरं ततः  
॥ ५ ॥ प्रासादगृहसंकीर्णास्तरणैरुपशोभिताः ॥ हेम्ना विरचि-  
ता भूम्यो वह्निज्वाला समप्रभाः ॥ ६ ॥ पुष्पप्रकरसंपूर्णं चित्र  
कर्मोपशोभितम् ॥ अर्द्धयोजनविस्तीर्णं मंदिरे तत्र मण्डपम् ॥ ७ ॥  
सिंहासनानि दिव्यानि रत्नैश्च जटितानि च ॥ तत्र तिष्ठति  
राजेन्द्रः श्रुतपालो महानृपः ॥ ८ ॥ सर्वलक्षणसंपूर्णो महाबल-

वे साधक उस स्थानसे उतर दिशाको गए । वहां सन्मुख अप्रमादनामक बड़ा पर्वत देख पड़ा ॥ १ ॥ उसके आगे ऊंचे उचुंग शृंगवाला ज्ञान पर्वत दीखा, और दोनों पर्वतोंके मध्यमें बड़ा क्षीर सागर था ॥ २ ॥ अप्रमाद पर्वतके सोपान (सीढ़ीयों) पर सुवर्ण और रत्न जड़े हुए थे उस समय उस मार्गसे साधकोंके सहित आचार्य चले ॥ ३ ॥ उस शिखरके ऊपर परम मनोहर दिव्य और सौ योजन विस्तीर्ण-वाले सूर्यकी समान कान्तिवाली ॥ ४ ॥ प्रतौली और द्वारसे संयुक्त सुवर्णके प्रकर ( परकोटे ) से घिरी हुई नगरी देखी वहां साधक शीघ्र गये ॥ ५ ॥ वह प्रासाद और घरोंसे व्याप्त थी और चन्द्रवालोंसे शोभायमान और सुवर्णसे रचित भूमि और अभिकी लपटकी समान कान्तियी ॥ ६ ॥ फलोंके परकोटे और चित्रकर्मसे शोभित और उसका मंडप आधे योजन विस्तार वाला था ॥ ७ ॥ और दिव्य सिंहासन रत्नजटितये, उनपर राजेन्द्र श्रुतपाल विराजमान था ॥ ८ ॥ जो संपूर्ण लक्षणोंसे सुन्दर और महाबली पराक्रमी था, और प्रकाशमान

पराक्रमः ॥ दीप्तदेहा महाकन्या दिव्याभरणभूषिताः ॥ ९ ॥  
 दिव्यवस्त्रपरीधाना दिव्यगंधानुलेपनाः ॥ संपूर्णचन्द्रवदनाः  
 सर्वालंकारभूषिताः ॥ १० ॥ साधकाश्च गतास्तत्र दृष्ट्वा  
 वै नृपमन्दिरे ॥ साधकैः सह चाचार्यमालिंगंति परस्पर-  
 म् ॥ ११ ॥ राजोवाच ॥ आगता भवनात्कस्मात्क  
 स्थाने चैव गच्छत ॥ सत्यं ब्रूत महासिद्धाममाये कार्यविस्तरम् ॥  
 ॥ १२ ॥ सिद्धा ऊचुः ॥ शृणु राजन्महद्वाक्यं वृत्तांतः कथयिष्य-  
 ते ॥ आगता मृत्युलोकाच्च गंतव्यः शंकरालयः ॥ १३ ॥ राजो-  
 वाच ॥ पृथिव्यां च रुचिर्नैव किमर्थं चागतः प्रभो ॥ सत्यं ब्रूहि  
 महाचार्य साधकैः परिवेष्टित ॥ १४ ॥ सिद्ध उवाच ॥ संसारः  
 स्वप्नसदृशो ह्यपारो दुःखसागरः ॥ महादुःखतरो राजञ्छोक-  
 चिन्ताप्रपीडितः ॥ १५ ॥ जननीगर्भमध्ये च महादुःखं प्रव-  
 र्त्तते ॥ भोक्तव्यो नरको घोरो महादुःखेन पीडितैः ॥ १६ ॥  
 गर्भाग्निज्वालाया दग्धैर्मलज्वालादिभिर्नवैः ॥ भोक्तव्यं च महा-

शरीर महाकन्यायें सुन्दर आभूषणोंसे भूषित ॥ ९ ॥ सुन्दर वस्त्र पहने दिव्य सुगंध  
 लगाए पूर्ण चन्द्रमाकी समान मुखवालीं सब गहनोंसे अरुंकृतर्थां ॥ १० ॥ उस  
 राजाके मंदिरको देख कर साधक लोग वहां गए तब साधकों सहित आचार्यको  
 परस्पर आलिंगन करती हुई ॥ ११ ॥ राजा बोला हे सिद्धो ! कहांसे आतेहो  
 और यहांको जाओगे ? यह विस्तारपूर्वक मेरे आगे कहो ॥ १२ ॥ सिद्ध बोले  
 हे राजन् ! सुनो सब वृत्तान्त कहतेहैं हम मृत्यु लोकसे आए और शंकरके मंदिर-  
 को जाते हैं ॥ १३ ॥ राजा बोला हे प्रभो ! पृथ्वीपर तुम्हारी रुचि नहीं है ? क्या  
 किसलिये आरहो ? हे आचार्यो ! साधकों सहित सत्य २ कहो ॥ १४ ॥  
 सिद्ध बोले संसारतो स्वप्न मात्रही और अपार दुःखोंका सागरहै हे राजन् ! संसारी  
 मनुष्य महादुःखी और शोक चिन्तासे पीडितहैं ॥ १५ ॥ माताके गर्भके मध्यमें  
 बड़ा दुःखहै मनुष्य बड़े दुःखोंसे पीडित हुए घोर नरकको भोगतेहैं ॥ १६ ॥ गर्भ-  
 रूप अमिसे तथा मलरूप अमिसे महा कष्ट भोगना होता है और अति दुःख

कष्टमतिदुःखं प्रवर्तते ॥ १७ ॥ पश्चादुत्पद्यते भूमौ महाप्रसव-  
वेदना ॥ काले तस्मिन्न जानंति सुखं दुखं च ते जनाः ॥ १८ ॥  
तुच्छमायुर्मनुष्याणामर्द्धं गृह्णाति शर्वरी ॥ तस्यार्द्धं च वियोगेन  
शेषं बालं च यौवनम् ॥ १९ ॥ एतद्दुःखभयाद्गीता राजन्नत्रा-  
गता वयम् ॥ मृत्युलोके महादुःखं सत्यं सत्यं वदाम्यहम् ॥ २० ॥  
इन्द्रजालं यथा स्वप्नः संसारश्च तथा नृप ॥ विह्वलः सर्वसंसारो  
ह्यतिकष्टेन पीडितः ॥ २१ ॥ मायामोहमहालोभतृष्णाव्याकुल-  
चेतसः ॥ कुर्वते मनुजाः कर्म देवोपहतबुद्धयः ॥ चपलः सर्वसंसारो  
मया दृष्टः पुनःपुनः ॥ २२ ॥ चपलं च धनं तत्र चपलं तत्र  
यौवनम् ॥ स्वजनैर्भृत्यवर्गेश्च धनैर्हीनं च मंदिरम् ॥ २३ ॥  
एतत्सर्वं मया दृष्टं चपलं च महानृप ॥ अतिकष्टं च संसारे  
महानरकपूरिते ॥ २४ ॥ एतद्दुःखभयाद्गीता राजन्नत्रागता  
वयम् ॥ पितृवन्धून्परित्यज्य स्वजनानि च नैकधा ॥ २५ ॥  
पुत्रदारास्तथा सर्वे त्यक्त्वा ह्यत्रागता वयम् ॥ वैभवं धनराज्ये  
च भूमिं वैदूर्यमौक्तिकान् ॥ २६ ॥ सर्वस्वं च मया त्यक्तं नाना-

हंताहै ॥ १७ ॥ पश्चात् भूमिपर उत्पत्तिकी पीडा उत्पन्न होतीहै, उस समय वे  
मनुष्य सुख और दुःखको नहीं जानतेहैं ॥ १८ ॥ प्रथमतः मनुष्योंकी आयुही  
कितनीहै ? आधी रात्रि ग्रहण करतेहैं उसकी आधी वियोगसे शेष बालक और  
जवान अवस्थामें व्यप होतीहै ॥ १९ ॥ हे राजन् ! इस दुःख भयसे डरे हुए हम  
यहांपर आएहैं मृत्युलोकमें महा कष्टहै यह सत्य २ कहतेहैं ॥ २० ॥ हे नृप !  
जैसे इन्द्रजाल और स्वप्नहै उसी प्रकार यह संसारहै, संपूर्ण संसारो विह्वलहै  
और अति कष्टसे पीडित होतेहैं ॥ २१ ॥ माया, मोह, लोभ, और तृष्णा, में  
मनुष्य फँस जातेहैं यह सब संसार चंचलहै, ऐसा वार २ दे वा ॥ २२ ॥ उसमें  
धन और यौवन चपलहै, कुटुम्बीलोग नीकर भाई मकान ॥ २३ ॥ हे राजन् !  
यह सब चंचलहै और बड़े नरकोंसे पूर्ण इस संसारमें अति कष्टहै ॥ २४ ॥ इस  
भयसे डरे हम यहां आए और पिता बंधु स्वजन आदि ॥ २५ ॥ पुत्र स्त्रियोंको  
त्याग कर यहां आएहैं ऐश्वर्य धन राज्य मणि वैदूर्य मोतीको ॥ २६ ॥ हे राजन् !

देशो महानृप ॥ गजाश्वाश्वरथास्तत्र तिष्ठन्ति च गृहे मम ॥  
 ॥ २७ ॥ उष्टृश्च वाहनं चैव शुभं शिविकथा सह ॥ तिष्ठन्ति  
 मंदिरे सर्वैर्गतव्यो हि शिवालयः ॥ २८ ॥ सर्वमेतत्परित्यज्य  
 राज्यं चैव मनोरमम् ॥ चलं सर्वं तथा दृष्ट्वा तस्मादत्रा गता  
 व्रजम् ॥ २९ ॥ एतद्दुःखं च संसारे श्रूयतां वचनं मम ॥ तत्र  
 तिष्ठति रम्यं च यत्र देवो महेश्वरः ॥ ३० ॥ तत्र स्थाने महासे-  
 न विमानेन गता बहु ॥ आगताश्च सुरास्तत्र विमानैश्च मनो-  
 रमैः ॥ ३१ ॥ आरुढाश्च सुराः सर्वे वामाश्चैव समागताः ॥  
 तथैवाप्सरसो दिव्या देवगंधर्वयोपितः ॥ ३२ ॥ सुरेन्द्रसहिता-  
 स्सर्वे देवाश्चैव समागताः ॥ आगताश्च ततः सर्वा रंभाद्याः  
 सकलाः स्त्रियः ॥ ३३ ॥ देवता दिव्यकन्याश्च सर्वभूषणभूषि-  
 ताः ॥ आगताश्च तथा सिद्धाः वाद्यन्ते च ह्यनेकधा ॥ ३४ ॥  
 इन्द्र उवाच ॥ साधुसाधु महाप्राज्ञ आचार्य साधकैः सह ॥ विमा-  
 नैश्च शतैर्वीराः शिवलोके च गच्छत ॥ ३५ ॥ अहं च प्रेषितः  
 सिद्धा ब्रह्मविष्णुमहेश्वरैः ॥ युष्मासु तुष्टो देवेश उमासहित-

नाना प्रकारके देश आदि सबही हमने छोड़, हाथी घोडा रथ आदि सब मेरे  
 घरपर स्थित हैं, ॥ २७ ॥ ऊंट, वाहन, सुसीन, पालकी, आदि सब मेरे घर  
 स्थित हैं, सबको त्याग शंकरके आलयको जाते हैं ॥ २८ ॥ और मनोहर राज्यभी  
 त्यागाई हे राजन् ! यह सब हमने चपल देखा, इस कारण इस स्थानमें प्राप्त हुए  
 हैं ॥ २९ ॥ यह अनेक प्रकारके दुःख हैं संसारमें, हम तहां पर स्थित होंगे जहां  
 महेश्वर देव हैं ॥ ३० ॥ हे महासेन ! उस समय वहां पर बहुतसे देवता मनोहर  
 विमानोंपर चढे हुए आए ॥ ३१ ॥ सब देवता और स्त्रियां तथा अप्सरा और  
 देवता गंधर्वाकी स्त्रियां आई ॥ ३२ ॥ इन्द्रसहित संघर्ष देवता और रंभा मनया  
 आदि समस्त अप्सरा प्राप्त हुई ॥ ३३ ॥ देवता और सुन्दरी कन्या संघर्ष आभू-  
 षणोंसे शोभायमान थीं और सिद्ध भी आए थे तथा अनेक प्रकारके वाज बजते थे  
 ॥ ३४ ॥ इन्द्रवाले, हे महाप्राज्ञ ! हे साधु हे साधु ! आप साधकों सहित विमा-  
 नोंके द्वारा शिव लोकमें चलिए ॥ ३५ ॥ हे सिद्धो ! हमको ब्रह्मविष्णु और

शंकरः ॥ ३६ ॥ उत्थाय गम्यतां सिद्धा गंतव्यः शंकरालयः ॥  
 विमानसहितास्तत्र आगताः स्युरनेकधा ॥ ३७ ॥ शंखदुन्दुभि-  
 निर्वोपैः काहलैर्भैरिर्मर्दलैः ॥ पटहैर्वेणुवंशैश्च वादयन्ति ह्यनेकधा  
 ॥ ३८ ॥ आगताश्च ततः कन्या रूपयौवनगर्विताः ॥ संपूर्ण-  
 चन्द्रवदना वदन्त्यः कोकिलस्वरम् ॥ ३९ ॥ मृगाक्ष्यो हंसगा-  
 मिन्यः कुंडलाभरणोज्ज्वलाः ॥ विद्युत्तेजोनिभाः सर्वा वृषूरा-  
 रावसंकुलाः ॥ ४० ॥ दिव्यवस्त्रपरीधाना दिव्यगंधविलेपनाः ॥  
 शिरस्सुशोभिताः पुष्पैर्नागवल्लीविभूषिताः ॥ ४१ ॥ स्वर्ण-  
 कंकणसंयुक्ता हारकेयूरभूषिताः ॥ सर्वलक्षणसंपूर्णाभानुविंव-  
 समप्रभाः ॥ ४२ ॥ कन्यकासहिता देवा विमानारूढसंपदः ॥  
 चामरैर्वीज्यमानाश्च च्छत्रैरुपरि शोभिताः ॥ ४३ ॥ इन्द्रस्य  
 वचनं श्रुत्वा आचार्यो वदते तदा ॥ आचार्य उवाच ॥ शृणु-  
 राजन्वचः शक्र एकचित्तो व्यवस्थितः ॥ न रोचते विमानं मे

महेश्वरने भेजाहै क्योंकि पार्वती समेत शिवजी बडे सन्दुष्टहैं ॥ ३६ ॥ हे सिद्धा !  
 उठो शंकरके स्थानको चलो अनेक प्रकारके विमानोंपर चडे हुए देवता आए ॥  
 ॥ ३७ ॥ शंख, दुन्दुभिका कोलाहल भेरी मृदंगके शब्द तथा पटह, वेणु, वाँसुरी  
 आदि अनेक प्रकारके बाजे बज रहेये ॥ ३८ ॥ तत्पश्चात् रूपवती यौवनवाली  
 कन्या आई जो पूर्ण चन्द्रमाके समान मुख वाली थीं, और कोयलकी समान  
 स्वरसे बोलतीथीं ॥ ३९ ॥ मृगकी समान नेत्र, और हंसके समान चालवाली,  
 कुंडल, आभूषणोंसे प्रकाशित, विजलीकी समान कान्तिवाली, पायजेवोंको धारण  
 कियेथीं ॥ ४० ॥ सुन्दर वस्त्र पहने और सुगंध लिपटाये सीसफूलोंसे शोभाप-  
 मान पान चावे हुए ॥ ४१ ॥ हायमें कंगन धारे, हार, वान्जुवंद, पहरे सब लक्ष-  
 णोंसे श्रेष्ठ सूर्यकी किरणोंके समान कान्तिवाली थीं ॥ ४२ ॥ कन्याओंके सहित  
 देवता विमानोंपर चडेके आए जिनके चौर दुर रहेये ऊपर छत्र लगेये ॥ ४३ ॥  
 तब इन्द्रका वचन सुन आचार्योंने कहा आचार्य बोले, हेमहाशक्र ! हेमहाराज !

सत्यंसत्यं वदाम्यहम् ॥ ४४ ॥ विमाना नैव रोचन्ते गुरुधर्मवलेन च ॥  
 अहं चात्रागतो देवालं विमानैर्न संशयः ॥ ४५ ॥ शंकरस्य प्रसा-  
 देन विमानं नैव रोचते ॥ विमानैर्न च मे कार्यं शृणु शक्र महा-  
 प्रभो ॥ ४६ ॥ विमानं च नमस्कृत्य आचार्यः साधकैः सह ॥  
 गतानि च विमानानि यत्र ब्रह्मा हरो हरिः ॥ ४७ ॥ श्रुतपाल  
 उवाच ॥ ॥ शृणु साधक तत्त्वेन मम वाक्यं तु निश्चितम् ॥  
 अस्मिन्स्थाने महारम्ये भुंक्ष्वभोगान्यथेप्सितान् ॥ ४८ ॥ सा-  
 धक उवाच ॥ मह्यं भोगा न रोचन्ते राज्यं च विपुलं धनम् ॥  
 यत्र स्थाने महादेव उमासहितशंकरः ॥ ४९ ॥ तत्र स्थाने महा-  
 राज गंतव्यं साधकैः सह ॥ भोगल्लोभो न मे राजल्लोभः शंकर-  
 दर्शने ॥ ५० ॥ आगताश्च ततः कन्याः श्रुतपालस्य वै सुताः ॥  
 सर्वाल्लविमानाश्च गजैश्चैव रथैस्तथा ॥ ५१ ॥ रूपयौवन-  
 संपूर्णाः सर्वाभरणभूषिताः ॥ भूतिमत्यः प्रधानाश्च कन्या ल-  
 क्ष्मीसमप्रभाः ॥ ५२ ॥ सर्वा लक्षणसंयुक्ताः सकामा मदविह्वलाः ॥

एकाम चित्तहो सुनो हमें विमान नहीं रुचता, आपसे सत्य २ कहतेहैं ॥ ४४ ॥  
 हम सब शिवके प्रसादसे तथा गुरुभक्तिके बलसे यहांतक आए कुछ विमानकी  
 नहीं आएहैं ॥ ४५ ॥ शिवके प्रसादसे विमान नहीं रुचता, हे महाप्रभो ! हे  
 शक्र ! मुझे विमानसे कुछ कार्य नहींहै ॥ ४६ ॥ आचार्य और साधकोंने विमान-  
 की नमस्कार किया विमान वहां गए जहांपर ब्रह्मा शिव विष्णु थे ॥ ४७ ॥  
 श्रुतपाल बोला हे साधक ! मेरे वचनको यथार्थसे सुनो कि इस स्थानपर रह-  
 कर यथेच्छा भोगोंको भोगो ॥ ४८ ॥ साधक बोले हमको भोग राज्य और  
 अधिक धन नहीं रुचता, जिस स्थानमें पार्वती सहित शंकरहैं ॥ ४९ ॥ हे राजन् !  
 उस स्थानको साधकों सहित जानाहै हे राजन् ! भोगका लोभ मुझे कुछ नहींहै,  
 केवल शंकरका दर्शन फरनाहै ॥ ५० ॥ तब श्रुतपालकी कन्या विमान रथ हाथि-  
 यों पर चढ़ी हुई आई ॥ ५१ ॥ जो रूप और यौवन तथा आभूषणोंसे सजी हुईरथी  
 और समृद्धिवती साक्षात् लक्ष्मीके सदृश रथी ॥ ५२ ॥ और सुन्दर लक्षणोंसे

ईदृश्यश्चागताः कन्या मायिनामपि मोहिकाः ॥ ५३ ॥ कन्यका  
 ऊचुः ॥ ॥ अस्मिन्स्थाने वरं लब्ध्वा भुङ्क्वभोगान्यथेप्सि-  
 तान् ॥ किं करिष्यति कैलासः किं करिष्यति शंकरः ॥ ५४ ॥  
 देवा अस्मान्वरिष्यन्ति ह्युमासहितशंकरम् ॥ किमर्थं वृष्वते सिं-  
 द्धाः किमर्थं न सुखे रतिः ॥ ५५ ॥ रूपपात्रं ततः कन्याः पूर्ण-  
 चन्द्रनिभाननाः ॥ दिव्यवस्त्रपरीधानाः सर्वाभरणभूषिताः ॥  
 ॥ ५६ ॥ पंचलक्षा महासेन श्रुतपालस्य वै सुताः ॥ दिव्यदेहा  
 महाकाया महाबलपराक्रमाः ॥ ५७ ॥ राजोवाच ॥ ॥ अस्मि-  
 न्नेव पुरे रम्ये स्वर्गतुल्ये न संशयः ॥ इच्छ यां यां च साचार्य  
 संवरिष्यति सत्वरम् ॥ ५८ ॥ इच्छावस्त्रपरीधाना दिव्यगंधानु-  
 लेपनाः ॥ अस्मिन्स्थाने महाभोगा ये भोगा देवदुर्लभाः ॥  
 ॥ ५९ ॥ आचार्य उवाच ॥ ॥ किमत्र भोग्यमायुष्यं कति  
 कन्याः प्रदास्यसि ॥ पश्चाच्च का गती राजन्सत्यं कथय  
 सुव्रत ॥ ६० ॥ राजोवाच ॥ ॥ कन्याः पंचसहस्राणि दीर्य-  
 ते च पृथक्पृथक् ॥ संवत्सरायुतं सिद्धा आयुरत्र विधीयते ॥ ६१ ॥

परिपूर्ण कामना सहित और मदमें विह्वल थीं चन्द्रमाके समान और मायीकोभी  
 मोहित करनेवाली थीं ॥ ५३ ॥ कन्या बोलीं हे वीरो ! इस स्थानपर निवास  
 करके यथेच्छित भोगोंको भोगो कैलास, और शंकर क्या ? करेंगे ॥ ५४ ॥ हे  
 देव ! हमको वरण करो पार्वती सहित शिवसे किस अर्थ वरण करतेहो ?  
 मनुष्य देहमें किस अर्थ प्रातिहै ? ॥ ५५ ॥ रूपवती चन्द्रमुखी कन्या जो दिव्य  
 वस्त्र धारण किये संपूर्ण आभूषणोंसे भूषितहैं ॥ ५६ ॥ हे महासेन ! पांच लाख  
 श्रुतपालकी पुत्री सुन्दर शरीरवाली अति बलपराक्रमवालीहैं ॥ ५७ ॥ राजा  
 बोला, इस स्वर्गतुल्य रमणीक पुरमें विमानपर चढ़कर जो इच्छाहो सो भोगो ॥  
 ॥ ५८ ॥ इच्छाके अनुसार वस्त्र विद्यौने सुगंध आदि लगाओ । इस स्थानपर  
 महा भोगोंको भोगो, जो देवताओंको भी दुर्लभहैं ॥ ५९ ॥ आचार्य बोले यहां  
 पर कितना भोग और कितनी आयु, और पीछसे क्या गति मिलतीहै ? सो  
 सत्य २ कहो ॥ ६० ॥ राजा बोला, एक सहस्र कन्या पृथक् २ दी जायंगी और



भुक्त्वा च विपुलान्भोगान्मृत्युलोकं व्रजंति च ॥ सर्वकामसमृ-  
द्धे च जायंते विमले कुले ॥ ६२ ॥ चक्रवर्ती महाराजो भवे-  
द्भूयो न संशयः ॥ मृत्युलोकान्महाप्राज्ञ पुनरायाति चात्र वै ॥  
॥ ६३ ॥ आचार्य उवाच ॥ मृत्युलोको यदि पुनर्गन्तव्यश्च मया  
नृप ॥ मृत्युलोकभयाद्गीता राजन्नत्रागता वयम् ॥ ६४ ॥ रोचते  
गर्भवासो न तस्माद्भोगा निरर्थकाः ॥ अवश्यं तत्र गंतव्यं यत्र  
ब्रह्मा हरो हरिः ॥ ६५ ॥ अस्मिन्नेव पुरे रम्ये रुचिर्नैव महानृपः  
प्रत्यक्षं यत्र दृश्यंते ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ ६६ ॥ अस्मिन्स्थाने  
न मे कार्यं राज्यं च विपुलं नृप ॥ मया च तत्र गंतव्यं यत्र देवो  
महेश्वरः ॥ ६७ ॥ पतिहीना च या नारी नासिकाहीनमा-  
स्यकम् ॥ शर्वरी चन्द्रहीना च रविहीनं दिनं यथा ॥ ६८ ॥ नृप-  
हीनं यथा सैन्यं शिवहीनं पुरं तव ॥ तस्मान्न रोचतेऽस्माकं गमि-  
ष्यामो न संशयः ॥ ६९ ॥ राजोवाच ॥ ॥ यदा न रोचते

दश सहस्र वर्षकी अवस्था प्राप्त होगी ॥ ६१ ॥ और पूर्ण भोगोंको अनुभव  
करके फिर मृत्यु लोकमें जाना होगा सब कामनाओंसे पूर्ण और निर्मल कुलमें  
जन्म होगा ॥ ६२ ॥ और चक्रवर्ती महाराजा होतो इसमें कुछ संशय नहीं, और  
फिर मृत्युलोकसे यहां आना होगा ॥ ६३ ॥ आचार्य बोले हे महानृप ! यदि  
फिरभी मृत्युलोकमें जाना पडताहै तो हम मृत्युलोकके भयसे व्याकुल हुए यहां  
पर आएहैं ॥ ६४ ॥ गर्भमें निवास होना नहीं चाहते, इस कारण यह सारे भोग  
निरर्थकहैं, अवश्य वहां जायेंगे जहांपर साक्षात् ब्रह्मा, शिव, विष्णुहैं ॥ ६५ ॥  
हे महानृप ! इस नगरमें रहनेकी रुचि नहींहैं तहांकी इच्छाहै जहां ब्रह्मा, विष्णु  
महेश्वर प्रत्यक्ष दीखते हैं ॥ ६६ ॥ हे राजन् ! इस स्थानमें अधिक राज्यसे मुझे  
कुछ काम नहीं है, मुझे तो तहांपर जाना है जहांपर महेश्वर देव विराजमान हैं  
॥ ६७ ॥ जैसे पति हीन स्त्री, विना नासिकाके मुख, चन्द्रमाके विना रात्रि सुर्यके  
विना दिन है ॥ ६८ ॥ और जैसे विना राजाके सेना है उसी प्रकार शिवके  
विना ब्रह्मद्वारा पुर है इस कारण हमें नहीं रुचता इससे अब हम जाते हैं ॥ ६९ ॥  
राना बोला हे सिद्धी ! यदि नहीं रुचता तो क्षण मात्रतो यहां ठहरो जबतक

सिद्धाः क्षणमेकं च तिष्ठत ॥ अपूर्णता भवेत्तावद्यावद्द्रक्ष्यसमा-  
गमः ॥ ७० ॥ क्षीरं दधि मधु द्राक्षाममृतं येऽपि वंति च ॥ क्षण-  
मात्रं च ते धीरा मूर्च्छां गच्छन्ति साधकाः ॥ ७१ ॥ पश्चाच्च  
साधकाः सर्वे रुद्रतुल्यपराक्रमाः ॥ चतुर्वेदप्रवक्तारः सर्वशास्त्र-  
विशारदाः ॥ ७२ ॥ यदा न रोचते राज्यं देवकन्यास्तथैव च ॥  
गच्छगच्छ महासत्त्व यत्र देवो महेश्वरः ॥ ७३ ॥ व्रजन्ति साध-  
काः सव चोत्तरस्यां दिशि स्वयम् ॥ ७४ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे विख्यातपुराणे श्रीश्वरकार्तिकेयसंवादे  
पंचयोगेन्द्रेच्छासिद्धिजीवन्मुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महापथे  
शिवदर्शने सदेहकैलासगमने श्रुतपालराजपुरीवर्णनं  
नाम द्वाविंशः पटलः ॥ २२ ॥

भोज्य पदार्थ पूर्ण होत हैं तबतक ठहरा ॥ ७० ॥ तब दूध, दही, शहत, अमृत  
उन साधकोंने पिया और क्षण मात्रमें वे मूर्च्छाको प्राप्त हुए ॥ ७१ ॥ पश्चात् वे  
साधक शिवके तुल्य पराक्रमी हुए और चारों वेदके वक्ता तथा संपूर्ण शास्त्रोंमें  
विचक्षण हुए ॥ ७२ ॥ राजाने कहा कि यदि राज्य और कन्या नहीं रुचती तो  
हे महासत्त्व ! आप वहाँ जाय जहाँ देवताओंके स्वामी महेश्वर उपस्थित हैं ॥ ७३ ॥  
फिर संपूर्ण साधक उत्तर दिशाको चल दिये ॥ ७४ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे शिवपार्वतीसंवादे भापाटीकायां द्वाविंशःपटलः ॥ २२ ॥

### त्रयोविंशः पटलः ।

श्रीश्वर उवाच ॥ ७५ ॥ अप्रमादस्य सोपान उत्तीर्य गम्यते ततः ॥  
अग्रतो दृश्यते तत्र चंद्रादित्यसमप्रभः ॥ १ ॥ साधकाश्च महा-

श्री ईश्वर वाले तब वे अप्रमाद पर्वतको उतर कर गए तो आगे चन्द्रमा  
तथा सूर्यके समान प्रकाशमान दिशा दीर्घा ॥ १ ॥ वे महा पराक्रमी साधक प्रमाद  
रहित हो उत्तरकी ओर चले वहाँ अप्रमाद पर्वतकी सीढ़ियां सुवर्ण और रत्नोंसे

सत्त्वा गतास्ते उत्तरामुखम् ॥ अप्रमादस्य सोपाने हेमरत्नविभू-  
 पिते ॥ २ ॥ ज्वलन्त्यः पद्मरागेश्च वैदूर्यमणिरश्मिभिः ॥ चंद्रकांत-  
 शिलास्तत्र भानुविंसमप्रभाः ॥ ३ ॥ महागिरिर्महाशृंगो  
 ह्यतिरम्यो मनोहरः ॥ दिव्यवृक्षैर्महातेजा दृश्यते च दिशो दश  
 ॥ ४ ॥ अप्रमादो गिरिश्रेष्ठ उत्तीर्य गम्यते ततः ॥ अग्रतो दृश्यते  
 तत्र क्षीरोदसागरोपमः ॥ ५ ॥ शतयोजनविस्तीर्णस्तडागो वि-  
 पुलोमहान् ॥ सुवर्णपंकजाकीर्णो बहुपुष्पोपशोभितः ॥ ६ ॥  
 कुमुदोत्पलपद्मैश्च कल्हारैरुपशोभितः ॥ तडागो हेमसोपानैर्वेष्टि-  
 तश्च दिशो दश ॥ ७ ॥ सुवर्णकर्दमस्तत्र रेणुकांचनशोभितः ॥  
 इन्द्रनीलमहानीलैर्वैदूर्यमणिरश्मिभिः ॥ ८ ॥ तत्र वृक्षो महा-  
 दिव्यो हंससारसशोभितः ॥ तस्मिन्स्थाने महातीर्थं धर्मकर्म-  
 समागमे ॥ ९ ॥ पितृणामुदकं दत्त्वा पिंडदानं तथैव च ॥ श्राद्धं  
 कृत्वा विधानेन ते च पंच पृथक्पृथक् ॥ १० ॥ अथ श्राद्धमंत्रः ॥  
 ॐ हुं हुं क्षुं क्षुं रुं रुं हुं हुं ॐ एकोत्तरशतं चैव पितृवंशं समु-

जटित र्था ॥ २ ॥ पद्मराग मणिं और वैदूर्य मणियोंकी किरणोंसे प्रकाशित थीं,  
 और शिलाएँ चन्द्रमाकी तथा सूर्यकी समान कान्तिवाली थीं ॥ ३ ॥ उस महा  
 पर्वतका शिखर अति रमणीक और मनोहर था, सुन्दर वृक्षोंवाली अति तेज-  
 युक्त उत्तर दिशा देखपड़ी ॥ ४ ॥ अप्रमाद पर्वतको लांघकर तहां गए, जहां  
 क्षीरसागरकी समान ॥ ५ ॥ सौ योजन विस्तारवाला बड़ा सरोवर था जो स्व-  
 र्णमय कमलोंसे व्याप्त बहुतसे पुष्पोंसे शोभायमान ॥ ६ ॥ बगुले रक्त कमल  
 नील कमलोंसे शृंगोंके समान देदीप्यमान थे उस सरोवरमें सुवर्णके सोपानोंसे  
 चारों ओर दशों दिशा घिर रही थीं ॥ ७ ॥ सुवर्णकी कीचड़ और सुवर्णकी  
 धूलि तहांपर शोभित थी, इन्द्रनील वैदूर्य महानील मणियोंकी कान्तिसे प्रका-  
 शित ॥ ८ ॥ और वहांपर बड़े सुन्दर २ वृक्ष हंस सारस पक्षियोंसे शोभायमान  
 थे, उस महातीर्थके स्थानपर धर्म कर्म करनेवालोंका समागम था ॥ ९ ॥  
 पितरोंका जलदान और पिंडदान करके और विधान सहित श्राद्ध करके शिव  
 आदि पांचोंको पृथक् २ स्थापन करे ॥ १० ॥ यह श्राद्धका मंत्र है " ॐ हुं हुं

द्धरेत् ॥ मातृपक्षेण संयुक्तं श्वश्रूपक्षं समुद्धरेत् ॥ ११ ॥ कल्प-  
कोटिसहस्राणि कल्पकोटिशतानि च ॥ अत्र श्राद्धप्रभावेण पितृ-  
भ्यश्चाक्षया गतिः ॥ १२ ॥ सायकाः सह पित्रा च जल्पन्ति च  
परस्परम् ॥ प्रत्यक्षं तत्र दृश्यन्ते पितरोऽपि वदन्ति च ॥ १३ ॥  
प्रसादात्तव भोः पुत्र ह्यक्षया च गतिर्मम ॥ तेन पुण्यप्रभावेण  
निर्विघ्नो भव पुत्रक ॥ १४ ॥ ब्रह्मणा स्थापितं लिगं मध्ये पूर्वं  
महात्मनाम् ॥ शंखमुक्ताप्रवालैश्च हंससारसशोभितः ॥ १५ ॥  
चक्रवाक्युगोपेतो मत्स्यकूर्म्मश्च संश्रितः ॥ कर्पूरगंधवत्तोयाऽ-  
मृतस्वाद्दुः सुशीतलः ॥ १६ ॥ दुग्धं दधिं घृतं क्षौद्रममृतं  
खंडशर्कराः ॥ एतैस्तु पूरितो नित्यं क्षीरोदसागरोपमः ॥ १७ ॥  
सहस्रस्तंभविन्यस्तः प्रासादश्चित्रवेष्टितः ॥ ध्वजमालाकुलो  
दिव्यश्चित्रकर्मोपशोभितः ॥ १८ ॥ गयाकोटिगुणं पुण्यं तत्पुण्यं  
क्षीरसागरे ॥ प्रत्यक्षं तत्र दृश्यन्ते पितरोऽपि वदन्ति च ॥ १९ ॥

कुं कुं रु रु हुं हुं ” इसके करनेसे एकसौएक पिताका वंश उद्धार होता है माताके  
वंश सहित और सासके वंश सहित एकसौएक वंश उद्धारको प्राप्त होतहैं ॥ ११ ॥  
सहस्र कोटि कल्प तथा शतकोटिकल्प पर्यन्त इस श्राद्धके प्रभावसे पितरोंकी  
अक्षयगति होती है ॥ १२ ॥ और सायकोंके साथ पितर आपसमें संभाषण  
करते हैं तहांपर पितर प्रत्यक्ष बोलते दीखते हैं ॥ १३ ॥ हे पुत्रो ! तुम्हारे प्रसा-  
दसे हमारी अक्षय गति हुई है पुत्र ! इस पुण्यके प्रभावसे निर्विघ्न होजो ॥ १४ ॥  
प्रथम महात्मा ब्रह्मणे इसके मध्यमें शिवलिङ्ग स्थापन किया था, वह शंख मोती  
मूंगे आदि हंस सारस आदिसे शोभित था ॥ १५ ॥ चक्रवाजोंमें व्याप्त मत्स्य  
कूर्म आदि जल जंतुओंसे सेवित और कर्पूरकी समान सुगंधित और स्वादिष्ट  
शीतल जलवाला है ॥ १६ ॥ दूध, दही, घी, मधु, अमृत, खंड, शर्करा, आदि-  
से पूरित, और क्षीर सागरकी समान है ॥ १७ ॥ और हजारों खंभोंसे युक्त चित्र-  
कारियोंसे शोभित महलोंसे वेष्टित है और पताका मालाओंसे शोभायमान है  
॥ १८ ॥ यहांपर कोटि गयाके समान पुण्य मिलता है और क्षीर सागरमें जो पुण्य  
है सो पुण्य मिलता है और यहां पितर प्रत्यक्ष संभाषण करते हैं ॥ १९ ॥

साधकाश्च गतास्तत्र सर्वे ते विस्मयं गताः ॥ स्तुतिं कुर्वति  
 देवस्य साधकाश्च पृथक्पृथक् ॥ २० ॥ अप्सरोयक्षगंधर्वा अर्च-  
 यन्ति ह्यनेकधा ॥ भेरीमृदंगशब्देन शंखतूर्यरवेण च ॥ २१ ॥  
 पटहैर्घोपशृंगैश्च मंजीरैस्तालनादितैः ॥ गीतं कुर्वति गंधर्वा  
 वीणां रणति सुन्दरी ॥ २२ ॥ विलिप्यन्ति च ते लिंगं कर्पूराग-  
 रुचंदनैः ॥ भवभक्त्या महासेन नमस्कृत्य पृथक्पृथक् ॥ २३ ॥  
 अर्द्धरात्रे च ते देवं स्तुतिं कृत्वा पुनःपुनः ॥ अप्सरोगणगंधर्वा  
 अर्चयन्ति ह्यनेकधा ॥ २४ ॥ नानाप्रकारभक्त्या च नानापूजा  
 व्यवस्थया ॥ सुवर्णपंकजैस्तत्र पूजयन्ति सदाशिवम् ॥ २५ ॥  
 आरातिकं प्रकुर्वति लिंगस्याग्रे निरंतरम् ॥ सरसः पश्चिमे भागे  
 आस्ते वनमनुत्तमम् ॥ २६ ॥ रणितं भृंगराजैश्च रक्तकृष्णं च  
 कर्बुरम् ॥ वनेन तेन तच्चारु शोभते सर उत्तमम् ॥ पीतपंकजशोभा-  
 ढयं रक्तकैरवमंडितम् ॥ २७ ॥ तच्च भ्रमरगुंजारैर्नानापद्मैश्च  
 शोभितम् ॥ चूतचंदनसयुक्तं कदलीखंडमंडितम् ॥ २८ ॥

सब साधक वहां गए और विस्मयको प्राप्त हुए और वे साधक पृथक् २ देवताओंकी  
 स्तुति करने लगे ॥ २० ॥ जहांपर अप्सरा गंधर्व आदि अनेक प्रकारसे पूजन करते  
 थे, और भेरी मृदंग शंख तुरईके शब्दोंसे गुंजारता ॥ २१ ॥ पटह, घोप, शृंग,  
 तबला, ताल लय आदिके साथ गंधर्व गीत गाने सुन्दरी वीणा बजाती हैं ॥ २२ ॥  
 तथा कर्पूर अगर, चंदन आदिसे शिवलिंगको लेपन करतीं हे महासेन ! भ्रम  
 भक्तिके सहित पृथक् २ नमस्कार करती हैं ॥ २३ ॥ अर्द्धरात्रितक वे देवको  
 पूजतीं वारम्बार स्तुतिकों करके अनेक प्रकार अप्सरा गंधर्व अर्चना करते हैं ॥ २४ ॥  
 अनेक प्रकारकी भक्ति और पूजासे एकाग्र चित्तहो सुवर्णके कमलोंसे सदाशिवको  
 पूजते हैं ॥ २५ ॥ और शिवलिंगके आंग निरंतर आरती करते हैं उस सरोवरके  
 पश्चिम भागमें उत्तम वन है ॥ २६ ॥ गुंजारते हुए भौरांके आकारसे लाल काले  
 चित्र कवोर पीले वरणके कमलोंसे विचित्र शोभा हो रही थी और रक्त कुमुदके  
 खंडोंसे शोभायमान ॥ २७ ॥ और फिनारपर भ्रमरशब्द करते और अनेक प्रका  
 रके कमलोंसे शोभित, आम और चंदन तथा फेलेके वृक्षोंसे सुशोभित ॥ २८ ॥

सुवर्णकेतकीजातीनानापुष्पोपशोभितम् ॥ वकुलैश्शतपत्रैश्च तिष्ठं-  
ति राजचंपकाः ॥ २९ ॥ कूष्मांडफलरूपेण सर्वे वृक्षाः फलंति  
च ॥ वनमध्ये महाचार्यः साधकैः परिवेष्टितः ॥ ३० ॥ सौवर्ण-  
कांस्तत्र वृक्षान्दृष्ट्वा चैव दिशो दश ॥ अग्रतो दृश्यते तत्र प्रोक्तं-  
गश्च महागिरिः ॥ ३१ ॥ तस्य सोपानमार्गेण गंतव्यं च ततः  
परम् ॥ तस्य शृंगे पुरी रम्या हेमरत्नविभूषिता ॥ ३२ ॥  
साधकाश्च गतास्तत्र पश्यंति च हिमालयम् ॥ नानाविनोदसंयुक्ताः  
पश्यंति च दिशो दश ॥ ३३ ॥ विवाहोत्सवसंकीर्णा मंगलाद-  
पि मंगलम् ॥ दृष्ट्वा तत्र पुरीं रम्यां चन्द्रादित्यसमप्रभाम् ॥ ३४ ॥  
ध्वजमालाकुलां दिव्यां विस्तरे शतयोजने ॥ प्रतोलीद्वारसंयुक्तां  
हेमप्राकारशोभिताम् ॥ ३५ ॥ वापीकूपतडागाभ्यां प्राकारेण  
प्रवेष्टिताम् ॥ रम्यां मनोहरां दिव्यां बहुगंधादिवासिताम् ॥ ३६ ॥  
अग्रितेजःसमोपेतां चित्रकर्मोपशोभिताम् ॥ यस्या मध्ये मुनि-  
श्रेष्ठः पूर्वधन्यो महामुनिः ॥ ३७ ॥ जटामुकटधारी च दिव्य-

सुवर्णमयी केतकी खिलीहुई तथा नाना प्रकारके पुष्पोंसे देदीप्यमान. केसर शत-  
पत्र और राजचंपिका आदि खिल रही थीं ॥ २९ ॥ कुम्हडा (गोलकट्ट) के  
समान फलोंसे वृक्ष फलित होरहे हैं उस वनके मध्यमें आचार्य और साधकोंने ॥  
॥ ३० ॥ सुवर्णके वृक्ष दशों दिशाओंमें देखे, और आगे बड़ा ऊंचा एक महा  
पर्वत अवलोकन किया ॥ ३१ ॥ तब बड़ी सीड़ियोंके मार्गसे गए तो उसके  
शिखरपर एक नगरी जो अनेक प्रकारके रत्न और सुवर्णसे भूषित थी ॥ ३२ ॥  
देखी साधक वहां गये और वहां परसे हिमालयको देखा और अनेक प्रकारसे  
आनंदपूर्वक दशों दिशाओंका अवलोकन किया ॥ ३३ ॥ विवाह उत्सवोंसे सु-  
शोभित मंगलसेभी मंगल अति मनोहर सूर्यके समान प्रकाशित पुरी देखी ॥  
॥ ३४ ॥ वह पताकाओं तथा मालाओंसे सुन्दर और सौ योजन विस्तारवाला  
था, प्रतोली द्वार तथा सुवर्णके प्राकारोंसे सुशोभित ॥ ३५ ॥ बावड़ी कुँ सेरो-  
वर आदिसे घिरी तथा रम्य मनोहर और बहुतसुगंधिसे वासित ॥ ३६ ॥ और  
जन्मिये: सनात तेनवाला चित्र कर्मसे विचित्र थी, जिसके मध्यमें एक धन्य  
महामुनि ॥ ३७ ॥ जटा और मुकट धारण किये दिव्य देह और चर्त्तमान तथा

देहश्च मूर्तिमान् ॥ दिव्याभरणशोभाख्या दिव्यवस्त्रपरिच्छदाः ॥  
 ॥ ३८ ॥ दिव्यपुष्पशिरोवद्धा दिव्यकुंडलभूषिताः ॥ चतुर्वेद-  
 प्रवक्तारः सर्वशास्त्रविशारदाः ॥ ३९ ॥ अर्द्धयोजनविस्तीर्ण  
 मंडपं तत्र मंदिरे ॥ सिंहासनानि दिव्यानि हेमरत्नचितानि वै ॥  
 ॥ ४० ॥ तत्र तिष्ठति राजेंद्रः सभायां परिवेष्टितः ॥ साधकाश्च  
 गतास्तत्र दृष्ट्वा दिव्यं महामुनिम् ॥ ४१ ॥ ऋषिराज उवाच ॥  
 कागता भुवनात्सिद्धाः क्व स्थाने चैव गम्यते ॥ सत्यं वदत भोः  
 सिद्धा यदि कल्याणमिच्छथ ॥ ४२ ॥ सिद्ध उवाच ॥ शृणु  
 राजन्प्रवक्ष्यामि मम वाक्यं सुनिश्चितम् ॥ आगता मृत्युलोकाच्च  
 गंतव्यः शंकरालयः ॥ ४३ ॥ ऋषिराज उवाच ॥ अस्मिन्नेव पुरे  
 रम्ये नानाभोगसमाकुले ॥ तिष्ठन्तु साधकाः सर्वे भुंजतां विपुलां  
 श्रियम् ॥ ४४ ॥ किं करिष्यति कैलासः किं करिष्यति शंकरः ॥ मम  
 स्थाने महाभोगा देवदानवदुर्लभाः ॥ ४५ ॥ साधक उवाच ॥ किमत्र  
 भोग्यमायुष्यं पश्चात्किं च भविष्यति ॥ कस्य लोके भवेद्दासः सत्यं

सुन्दर वस्त्र पहने दिव्य आभूषण धारे ॥ ३८ ॥ सुन्दर २ फूल सीसपर बांधि  
 सुन्दर कुंडलोंसे प्रकाशित, चारों वेदोंके वक्ता सर्व शास्त्रोंमें निपुण थे ॥ ३९ ॥  
 और उसका मंडप ( घेरा ) आधे योजन विस्तृतथा और दिव्य सिंहासन जो रत्न  
 जडित थे सुवर्णसे आच्छादित थे ॥ ४० ॥ उस सभामें राजेन्द्र सुशोभितथा साधक  
 तहां गए उस दिव्य महर्षिको देखा ॥ ४१ ॥ ऋषिराज बोला हे सिद्धों ! कहाँसे  
 आएहो और किस स्थानपर जातेहो ? सो सत्य २ कहाँ यदि कल्याण चाहतेहो ॥  
 ॥ ४२ ॥ सिद्ध बोला हे राजन् ! मेरे वचनको सुनो कि हम मृत्युलोकसे आएहैं  
 और शिवके स्थानको जातेहैं ॥ ४३ ॥ ऋषिराज बोला, अनेक प्रकारके भोगोंसे  
 व्याप्त इस मनोहर नगरमें तुम सब साधक रहो और अधिक भोगोंको अनुभव  
 करो ॥ ४४ ॥ कैलास और शंकर क्या करेंगे, ? इस हमारे स्थानपर अधिक  
 सुखहै जो देवता दानवोंकीभी दुष्प्राप्य है ॥ ४५ ॥ साधक बोले, यहां पर क्या  
 भोग और कितनी आयुहै ? और फिर किस लोकमें निवास होताहै सो ? सुप्रत !

कथय सुव्रत ॥ ४६ ॥ ऋषिराज उवाच ॥ कन्याः सप्तसहस्राणि  
दीयन्ते च पृथक्पृथक् ॥ तथा लक्षं भवेदायुर्महाभोगसमन्वितम् ॥  
॥ ४७ ॥ भुक्त्वा च विपुलान्भोगान्मृत्युलोके च गम्यते ॥ चक्र-  
वर्ती भवेद्भूपः पश्चाज्जातिस्मरो भवेत् ॥ ४८ ॥ पुत्रपौत्रसमा-  
युक्तो धनधान्यसमाकुलः ॥ दीर्घायुर्विपुलान्भोगान्पुनस्ते स्व-  
र्गगामिनः ॥ ४९ ॥ साधक उवाच ॥ मृत्युलोको यदि पुन-  
र्गतव्यः शंकरालयः ॥ मृत्युलोकभयाद्भीता राजन्नत्रागता वयम् ॥  
॥ ५० ॥ मृत्युलोके महादुःखं त्यक्त्वेह समुपागताः ॥ तत्र  
चैवागताः सर्वा विमानारूढयोपिताः ॥ ५१ ॥ साधकस्त-  
स्ततो दृष्ट्वा दृष्टपुष्टा वदन्ति च ॥ दिव्यवस्त्रपरीधानां दिव्यगंधा-  
नुलेपनाः ॥ ५२ ॥ कर्णालम्बितताटङ्काः कटिघंटासुशोभिताः ॥  
शिरःपुष्पैः सुगंधाश्च तांबूलेन मुहुर्मुहुः ॥ ५३ ॥ मृगाक्ष्यो हंस-  
गामिन्यो रूपयौवनगर्विताः ॥ करकंकणसंयुक्ता हारकेयूरभूषि-  
ताः ॥ ५४ ॥ संपूर्णचंद्रवदना नूपुरैः समलंकृताः ॥ कथ्या मृगे-

सव सत्य २ कहो ॥ ४६ ॥ ऋषिराज बोला, सात सहस्र कन्या पृथक् २ दी  
जायगी और लाख वर्षकी अवस्था भोगोंसहित मिलेगी ॥ ४७ ॥ और संपूर्ण  
भोगोंको भोगकर मृत्युलोकको प्राप्त होओगे, और चक्रवर्ती राजा होओगे,  
पश्चात् जातिका स्मरण होगा ॥ ४८ ॥ और पुत्र पौत्र सहित धन धान्य समेत  
अधिक आयुपूर्वक पूर्ण भोग अनुभव करके फिर स्वर्गके गामी होंगे ॥ ४९ ॥  
साधक बोले हे राजन् ! यदि फिरभी मृत्यु लोकको जाना पड़ताहै तो हम मृत्यु  
लोकके भयसे व्याकुल हुए यहांपर आएहैं ॥ ५० ॥ मृत्युलोक महा दुःखहै जिस  
को छोड़ यहां प्राप्त हुए तब साधकोंके समीप उस स्थानपर सम्पूर्ण विमानपर  
चढ़ी कन्या प्राप्त हुई ॥ ५१ ॥ और साधकोंके दर्शन करके प्रसन्न हुई मनोहर  
वचन बोलती हुई सुन्दर वस्त्र पहने सुगंध लगाए ॥ ५२ ॥ कुंडलोंसे कर्ण शोभित  
थे जिनके कमरपर घंटा स्थितथा और मस्तकपर फूल विराजतेथे पानसे शोभित  
॥ ५३ ॥ मृगके समान नेत्रवालीं, और हंसके सदृश चलनेवालीं, और रूप  
तथा यौवनमें भरीहुईं, जिनके हाथोंमें कंकण धारण होरहेथे, और जो हार चानू-  
बंदको धारेंथीं ॥ ५४ ॥ पूर्ण चन्द्रमाके तुल्य मुखारविन्दवालीं, पायजोबोंसे



न्द्रमानिन्यः कुचतालफलैश्शुभाः ॥ ५५ ॥ कन्यका ऊचुः ॥  
 आगताः स्थ कुतः सिद्धाः क स्थाने चैव गच्छथ ॥ कन्याः  
 पृच्छन्ति तान्सेन वराथै सुन्दरभ्रुवः ॥ ५६ ॥ आचार्य उवाच ॥  
 शृण्वन्तु कन्यकाः सर्वा मम वाक्यं सुनिश्चितम् ॥ आगता  
 मृत्युलोकाच्च गच्छामः शंकरालयम् ॥ ५७ ॥ कन्यका ऊचुः ॥  
 अस्मिन्नेव पुरे रम्ये नानाभोगसमाकुले ॥ तिष्ठंतु साधकाः सर्वे  
 भुंजतां विपुलां त्रियम् ॥ ५८ ॥ साधक उवाच ॥ अस्मिन्स्था-  
 ने महारम्ये कामिन्यो न रुचिर्मनाक् ॥ अस्माभिस्तत्र गंतव्यं  
 यत्र देवो महेश्वरः ॥ ५९ ॥ एवं वदन्ति ते सिद्धाः शृण्वतीनां  
 सुयोपिताम् ॥ तस्माच्च साधकास्सर्वे गताश्चैवोत्तरामुखम् ॥ ६० ॥

इति श्रीकेदारकल्पे विख्यातपुराणे श्रीश्वरकार्तिकेयसंवादे  
 पंचयोगेन्द्रेच्छासिद्धिजीवन्मुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महापथे शि-  
 वदर्शने सदेहकैलासगमने ऋषिराजतपःपुरीवर्णनं  
 नाम त्रयोविंशः पटलः ॥ २३ ॥

भूषित, जिनकी कमर सिंहकीसी और स्तन तालके फलोंके समान थे ॥ ५५ ॥  
 कन्या बोलीं हे सिद्धो ! किस स्थानसे आणहो और किस स्थानको जातिहो ?  
 इस प्रकार यह सब सुन्दरी पूछतीहैं ॥ ५६ ॥ आचार्य बोले हे कन्याओ !! तुम  
 सब हमारे वाक्यको सुनो, हम मृत्युलोकसे आए और शिवके आलयको जातहैं  
 ॥ ५७ ॥ कन्या बोलीं इस रम्य नगरमें जो अनेक प्रकारके भोगोंसे भराहै तुम  
 सब साधक रहो और अधिक भोगोंको भांगो ॥ ५८ ॥ साधक बोले. इस दिव्य-  
 स्थानमें हमको कामिनी नहीं रुचती, हमको तो वहां जानाहै जहांपर महेश्वर  
 देव विराजतहैं ॥ ५९ ॥ हे सुन्दरियो !! सुनो ऐसा टन सिद्धोंने कहा और सब  
 साधक फिर उत्तर दिशाको चले ॥ ६० ॥

इति श्रीकेदारकल्पे शिवसर्वनामवादे नापाठोकायां त्रयोविंशः पटलः ॥ २३ ॥

## चतुर्विंशः पटलः ।

श्रीश्वर उवाच ॥ ॐ अग्रतो दृश्यते तत्र कृतरूपांतरो हरः ॥  
 वृद्धब्राह्मणरूपेण जर्जरकृतदेहवान् ॥ १ ॥ रूपयौवनहीनश्च  
 क्षीणकुब्जश्च देहिनाम् ॥ मंदान्मंदतरो दीनो वेपमानश्च रोगवान्  
 ॥ २ ॥ कायस्तस्य क्षीणतरः कम्पमानौ कर्णौ तथा ॥ वदन्मंद-  
 स्वरश्चैव पीडितश्च क्षुधा तृषा ॥ ३ ॥ अस्थिचर्मावशेषश्च क्षुवृद्भू-  
 म्यां प्रपीडितः ॥ ईदृशो ब्राह्मणो वृद्धो दृष्ट्वाचार्यश्च तत्क्षणात् ॥  
 ॥ ४ ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ कागताभुवनात्सिद्धाः कस्थाने चै-  
 वगम्यते ॥ सर्वकथयवृत्तांतंब्राह्मणायेमहातपः ॥ ५ ॥ साधक  
 उवाच ॥ ॥ आगतामृत्युलोकाच्च गंतव्यं शंकरालये ॥ एतन्म-  
 तं द्विजश्रेष्ठ प्रसादेन हरस्य च ॥ ६ ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ ॥  
 नैवदृष्टो महासिद्धारुद्रस्त्रिभुवनेश्वरः ॥ स्वर्गं मर्त्यं च पाताले  
 भ्रामितोहिदिशोदश ॥ ७ ॥ दिव्यवर्षसहस्राणि नैव दृष्टो  
 महामुने ॥ मयानिरीक्षतासिद्धा कनिष्ठात्प्राप्यतेजरा ॥ ८ ॥  
 कुतस्त्वंगच्छसे सिद्धमागच्छकुरुभाषितम् ॥ रुद्रस्य दर्शनं कुत्र

आगे चलकर क्या देखतेहैं कि दूसरा वेप धारण किये वृद्ध ब्राह्मण जिसका शरीर जर्जर भूत था देखा ॥ १ ॥ जो कुक्ष्य यौवन रहित था. और अतिक्षीण तन, हीन, कुबडा, दीन, मंदसे भी मंद, रोगीया ॥ २ ॥ उसकी काया क्षीण और हाय कांपते और मंदस्वर ( धीमी वाणी ) से बोलता, क्षुधा तृष्णासे व्याकुल ॥ ३ ॥ केवल हड्डी शेषी, भूंस्र प्याससे व्याकुल ऐसा वृद्ध ब्राह्मण देखा उस समय ॥ ४ ॥ ब्राह्मण बोला हे सिद्धो ! कौन स्थानसे आरहो और किस स्थानको जातेहो हे महातप ! सो मुझ ब्राह्मणके आगे सब वृत्तान्त कहो ॥ ५ ॥ साधक बोले, हम मृत्युलोकसे आए और शंकरके स्थानको जाते हैं, हे द्विजश्रेष्ठ ! इतना संमत है ॥ ६ ॥ ब्राह्मण बोला हे महासिद्धो ! तीनों लोकोंके स्वामी रुद्रको हमने नहीं देखा, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताललोकमें दशों दिशा-ओपर भ्रमण किया ॥ ७ ॥ दिव्य सहस्रवर्ष में देखा वाल्य अजस्थासे बूटा होगया परन्तु शिवको नहीं देखा ॥ ८ ॥ अब तुम कहां जातेहो ? मत जानो,

देवानामपि दुर्लभम् ॥ ९ ॥ आचार्य उवाच ॥ ॥ यच्च त्वयोदि-  
 तं विप्र हृदये नैव रुच्यते ॥ अवश्यं तत्र गंतव्यं यत्र देवो  
 महेश्वरः ॥ १० ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ कत्र स्थाने वसेद्गुद्रः किं  
 रूपं कीदृशं फलम् ॥ कथं कायो महादेवः किं फलं किं प्रयोजनम् ॥  
 ॥ ११ ॥ आचार्य उवाच ॥ ॥ दुर्लभः सर्वसंसारे दुर्लभ्यो हीतरै-  
 जनः ॥ दुर्लभः सर्वभूतानां संसरतामति दुर्लभः ॥ १२ ॥ कस्य चैव  
 समो रुद्रः केन रूपेण दृश्यते ॥ कथं कायो महादेवः कथं वाच्यः  
 स शंकरः ॥ १३ ॥ ब्रूहि तन्मे महावीर किं करिष्यति शंकरः ॥  
 रुद्रस्य दर्शनं दृष्ट्वा कथयामि शृणुष्व तत् ॥ १४ ॥ सिद्ध-  
 उवाच ॥ ॥ शृणु विप्रेन्द्र यद्रूपं कथयामि यथाश्रुतम् ॥ नील-  
 कंठं वृषारूढं शूलपाणिं महाबलम् ॥ १५ ॥ त्रिनेत्रं च दशभुजं  
 चंद्रार्द्धकृतशेखरम् ॥ भस्मना धूलितं गात्रं सूर्यकोटिसमप्रभम् ॥  
 ॥ १६ ॥ कर्पूरगौरं शिरसा जटासुकुटभूषणम् ॥ देवदेवं जग-  
 त्नाथं भक्तानामभयप्रदम् ॥ १७ ॥ एवमुक्ते साधकेन रुद्रो वै

रुद्र ( शिव ) का दर्शन देवताओंको भी दुर्लभ है ॥ ९ ॥ आचार्य बोले हे  
 ब्राह्मण ! जो तुमने कहा सो हृदयमें नहीं रुचता, हमको अवश्य वहां जाना  
 है, जहांपर साक्षात् महेश्वर विराजते हैं ॥ १० ॥ ब्राह्मण बोला कि शिवजी  
 किस स्थानमें रहते हैं उनका कैसा रूप है क्या फल है क्या कार्य है क्या प्रयो-  
 जन है ॥ ११ ॥ आचार्य बोले जो संपूर्ण संसारमें दुर्लभ है और तदितर जनोंमें  
 तथा सब प्राणियोंमें दुर्लभ है ॥ १२ ॥ और रुद्र किसके समान है और किस  
 रूपसे दीपता है ? क्यों महादेव है और क्यों शंकर है ? ॥ १३ ॥ हे महावीर !  
 शंकर क्या करेंगे सो हमसे कहो, हम रुद्रक दर्शनको तुमसे सुनाना चाहते हैं  
 ॥ १४ ॥ सिद्ध बोले हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! सुनो जो रुद्रका रूप मैंने सुना है सो कहता  
 हूं नीलकंठ हैं साक्षात् नंदियेपर चढ़े विशूल हाथमें लिये हैं ॥ १५ ॥ तीन नेत्र  
 दश भुजा आधा चंद्रमा माथेपर विराजता है, भस्मसे सारा शरीर लिप्त है,  
 फाटि सूर्योक्त समान कान्ति है ॥ १६ ॥ कर्पूरके समान गौरवर्ण सिरपर जटा  
 रत्न सुकुट धारें ऐसे देवताओंक तथा जगतक स्वामी और भक्तोंको अभय देने-  
 वाले हैं ॥ १७ ॥ ऐसा साधकके कहनेपर शिवने उस समय दर्शन दिया और

दर्शनं ददौ ॥ विप्ररूपविनाशेन साक्षाद्देवो महेश्वरः ॥ १८ ॥  
 रुद्रस्य दर्शनं कृत्वा सर्वाभरणभूषितः ॥ दिव्यदेहो महाकायो  
 दिव्यगंधानुलेपनः ॥ १९ ॥ जटासुकुटधारी च चंद्रार्धकृत-  
 शेखरः ॥ दिव्यज्योतिर्महामूर्तिर्महारूपो महाप्रभुः ॥ २० ॥  
 नीलकंठो वृषारूढः शूलपाणिः पिनाकधृक् ॥ सर्वलक्षणसंपूर्णो  
 वालार्कस्य समप्रभः ॥ २१ ॥ दशबाहुस्त्रिनयन उमासहित-  
 शंकरः ॥ प्रत्यक्षं दर्शनं लब्ध्वा साधका प्रवदन्ति च ॥ २२ ॥  
 नमस्कृत्य ततो देवं पिनाकिवृषभध्वजम् ॥ दंडवच्च प्रणम्याथ  
 पततो धरणीतले ॥ २३ ॥ कृतांजलिपुटो भूत्वा प्रणम्याति  
 पुनः पुनः ॥ अद्य मे सफलं जन्म ह्यद्य मे सफलं तपः ॥  
 ॥ २४ ॥ अद्य मे सफलं जाप्यमद्य मे सफलाः क्रियाः ॥ अद्य  
 मे सफलः पंथा अद्य मे सफलार्चनम् ॥ २५ ॥ अद्य मे सफलं  
 कर्म मया दृष्टं सदाशिवः ॥ नमस्यं चरणं पूज्यं दृष्टं संभा-  
 पितः शिवः ॥ २६ ॥ श्रीशिव उवाच ॥ ॥ वरं ब्रूहि महा-

उस वृद्ध ब्राह्मणका रूप दूर कर साक्षात् महेश्वर देव होगए ॥ १८ ॥ रुद्रका  
 दर्शन किया जो सब आभूषण धारे दिव्य देह महाकाय सुन्दर गंध लेपन किये  
 थे ॥ १९ ॥ जटा और मुकुट धारे मस्तकपर आधा चन्द्रमा अवलम्बन किये  
 जो दिव्य तेज और बड़ी मूर्तिवाले सुन्दर रूपवाले थे ॥ २० ॥ नीले कंठवाले  
 वृष ( बैल ) पर चढ़े त्रिशूल हाथमें लिये पिनाक ( धनुष ) को धारण किये सब  
 लक्षणोंसे शोभायमान उदय हुए सूर्यके समान कान्तिमान् ॥ २१ ॥ दश भुजा  
 और तीन नेत्रवाले पार्वतीसहित शिवने साधकोंको दर्शन दिया तब साधक  
 परस्पर बोले ॥ २२ ॥ और वे सब वृषभध्वज साक्षात् शिवको नमस्कार करके  
 भूमिपर गिरे और साष्टांग दंडवत की ॥ २३ ॥ और हाथ जोड बारंबार नम-  
 स्कार किया और कहा आज हमारा जन्म सफल हुआ, और आजही तप सफल  
 हुआ ॥ २४ ॥ तथा आज हमारा जप, क्रिया, पंथ, अर्चन, सब सफल हुआ  
 ॥ २५ ॥ तथा आज हमारा कर्म सफल हुआ सदाशिवके दर्शन करके, चरणोंको  
 पूजते हुये और दंडवत करते हुये उनको देखकर शिवजी बोले ॥ २६ ॥ हे

सिद्ध साधकैः परिवेष्टित ॥ तव तुष्टो महादेवो महावीरो महा-  
 तपाः ॥ २७ ॥ साधक उवाच ॥ ॥ यदि तुष्टो महादेव उमा-  
 युक्तद्विलोचनः ॥ गर्भवासं न पश्यामि तादृशं कुरु मां प्रभो ॥  
 ॥ २८ ॥ कस्मिन्काले तु संप्राप्ते मृत्युलोके न याम्यहम् ॥ गृही-  
 त्वा गम्यते तत्र शिवकल्पं महापथे ॥ २९ ॥ तव मार्गेण गं-  
 तव्य रुद्रदेव महेश्वर ॥ एवं देहि वरं देव यदि तुष्टोऽसि शंकर  
 ॥ ३० ॥ एतादृशं वरं लब्ध्वा चित्ते ते ह्यतिहर्षिताः ॥ दृष्ट-  
 पुष्टमनाः सिद्धाः प्रणमन्ति महेश्वरम् ॥ ३१ ॥ स्तुतिं कथ्युस्त-  
 तः सव प्रणमन्ति मुहुर्मुहुः ॥ साधकानां वरं दत्त्वा शिवलोकं गतो  
 हरः ॥ ३२ ॥ क्षणमेकं च तिष्ठन्ति साचार्याः साधकाः पुनः ॥  
 तत्र ते साधकास्तत्र गताश्चैवोत्तरामुखाः ॥ ३३ ॥

इति श्रीरुद्रयामले केदारकल्पे विख्यातपुराणे श्रीश्वरकार्तिकेय-  
 संवादे पंचयोगेन्द्रेच्छासिद्धिजीवन्मुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महापथे  
 शिवदर्शने सदेहकैलासगमने वृद्धब्राह्मणरूपेण रुद्रदर्श-  
 नवरप्रदानं नाम चतुर्विंशः पटलः ॥ २४ ॥

साधको ! हे आचार्यो !!! वरदान मांगो हे महातप ! तुमसे हम साक्षात् शिव  
 प्रसन्न हुए ॥ २७ ॥ साधक बोले हे महादेव ! हे त्रिलोचन ! यदि आप पार्व-  
 तीके सहित प्रसन्न हैं तो हे प्रभो ! हम गर्भके वासको फिर न देखें ऐसा करो  
 ॥ २८ ॥ और किसी समय हम मृत्युलोकको नहीं प्राप्त होंगे और शिव कल्पको  
 ग्रहण करके महापथको जावें ॥ २९ ॥ हे महेश्वर ! तुम्हारे मार्गसे रुद्रदेवको जावें  
 ऐसा वर देवो यदि प्रसन्न हो तो ॥ ३० ॥ इस प्रकार वरको पाकर उनके चित्तमें  
 चैत्र हर्ष हुआ और दृष्टपुष्ट मन होकर महेश्वरको प्रणाम करने लगे ॥ ३१ ॥  
 और सब पाग्यार स्तुति करने लगे तब शिव उन साधकोंको वर देकर शिवलो-  
 कको मिथार ॥ ३२ ॥ क्षणमात्र आचार्य साधकों सहित स्थित हुए फिर आगे  
 उत्तरी ओर चले ॥ ३३ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे विख्यातपुराणे भाष्यटीकायां चतुर्विंशः पटलः ॥ २४ ॥

## पंचविंशः पटलः ।

श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ ॐ अग्रतो दृश्यते तत्र चेन्द्रराजो महानृपः ॥ कृत्वा वै सिंहरूपं च महारौद्रो भयंकरः ॥ १ ॥ पर्वतस्थदरीवक्रो गिरिशृङ्गशिरास्तथा ॥ तस्य शूरनिनादश्च यथा मेघस्य गर्जितः ॥ २ ॥ भूमिश्च स्फोटते क्रोधात्कंपते भुवनत्रयम् ॥ एवं दृष्ट्वा महासिंहं तीक्ष्णदंष्ट्राभयानकम् ॥ ३ ॥ वर्द्धते च ततः सिंहो नखलांगूलवेगतः ॥ जिह्वा चातिचलादिव्या वर्द्धते च पुनःपुनः ॥ ४ ॥ ततो दृष्ट्वा महासेन वने सिंहं भयंकरम् ॥ दृष्ट्वा सिंहं महारूपं तीक्ष्णदंष्ट्रं महाबलम् ॥ ५ ॥ साधकाश्च ध्वनिं श्रुत्वा वर्द्धमानं पुनःपुनः ॥ सिंहं दृष्ट्वा महाप्रौढं साधका विस्मयं गताः ॥ ६ ॥ भयभीतास्ततः सिंहादात्मनः शोचयन्ति हि ॥ अघोरैणव मंत्रेण सर्वविघ्नः क्षयं गतः ॥ ७ ॥ अथ मंत्रः ॥ ॐ हुँ फट् स्वाहा ॥ सिंह उवाच ॥ भुवनात्कुत आयाताः कस्थाने चैव गच्छथ ॥ सत्यं ब्रूत ममाग्रे हि यदि कल्याण-

शिवजी बोले, जब वहाँसे आगे चले तब इन्द्रमहाराज जो बड़े भयंकर । सिंहके रूपको धारण किये हुए दीख पड़े ॥ १ ॥ जिनका मुख पर्वतकी गुफाकी सदृश ऊँचा पर्वत शिखरके सदृश था, और शब्द मेघके गर्जनेकी समान था ॥ २ ॥ क्रोधसे भूमिको खोदता हुआ जिससे तीनों लोक कम्पायमान होते थे इस प्रकार तीक्ष्ण दाँतोंवाले भयानक सिंहको देखा ॥ ३ ॥ तब वह सिंह नख और पूँछके वेगसे बढ़ने लगा और उसकी जिह्वा बिजलीकी समान चपल थी ॥ ४ ॥ हे महासेन ! वनमें ऐसे महासिंहको देखकर जो भयंकर रूप और बड़ा बली था तथा जिसकी डाँटें बड़ी तीक्ष्ण थीं ॥ ५ ॥ साधकगण उसकी ध्वनिको सुन और क्षण क्षणमें वृद्धि होती देख तथा विलक्षण रूपको देखकर विस्मयको प्राप्त हुए ॥ ६ ॥ सिंहके भयसे व्याकुल होकर मनमें चिन्ता करनेलग, तब अघोरमंत्र के जपनेसे सब विघ्न नष्ट हुए ॥ ७ ॥ ॐ हुँ फट् स्वाहा यह मंत्रहै, तब सिंह बोला हे सिद्धो ! कहाँसे आयेहो और कहाँको जातेहो सो मेरे आगे सत्य २ कही यदि

मिच्छथ ॥ ८ ॥ सिद्ध उवाच ॥ आगता मृत्युलोकाच्च गंतव्यं शंकरालये ॥ एवं नो हि मतं सिंह तत्रेच्छा पारमेश्वरी ॥ ९ ॥ सिंह उवाच ॥ आयान्तु साधकाः सर्वे वांछामि वश्व दर्शनम् ॥ आगंतव्यं समीपे च पातव्यं रुधिरं हि वः ॥ १० ॥ कुतो गच्छेत्तं यूयं हि मम दृष्ट्यावलोकिताः ॥ तृप्तं करोमि आत्मानं मांसेन रुधिरं च ॥ ११ ॥ सिंह रूपं समाश्रित्य यत्र तिष्ठामि वै सदा ॥ नैव गच्छंति ते स्वर्गं स्वयं देहेन मानवाः ॥ १२ ॥ आचार्यसाधकाः सर्वे मा गच्छत शिवालये ॥ यदि गच्छथ चेत्सिद्धाः स्वयं देहेन जीवता ॥ १३ ॥ षण्मासाभ्यंतरे सिद्धा भोजनं न कृतं मया ॥ मया दैवाच्च भोक्तव्यं मांसं वो साधका ध्रुवम् ॥ १४ ॥ जीवंतो नैव पश्यंति उमया सहितं हरम् ॥ महापथे महाघोरं जपंतश्च शनैः शनैः ॥ १५ ॥ आगता दिव्यमार्गेण दृष्ट्वा सिंहं भयंकरम् ॥ आकर्ण्यार्गाजितं घोरं शब्दत्रैलोक्यव्यापिनम् ॥ १६ ॥ आचार्यमूचिरे सिद्धाः सिंहनासेन व्याकलाः ॥

अपने कल्याणकी इच्छा करतेहो ॥ ८ ॥ सिद्ध बोले हम मृत्युलोकसे आये हैं और शिवके स्थानको जातेहैं हे सिंह ! यह हमारी इच्छाहै इस विषयमें शिवजी प्रमानहैं ॥ ९ ॥ सिंह बोला, हे साधकों, तुम सब मेरे निकट आओ मैं तुम्हारा रुधिर पान करूंगा ॥ १० ॥ तुम मेरी दृष्टिक सामनेसे कहां जासकते हो, तुम्हारे मांस और रुधिरसे अपनी आत्माकी तृप्ति करूंगा ॥ ११ ॥ मैं यहां सिंहकारूप धारण किये मंदैय निवास करताहूं जिससे मनुष्य संदेह स्वर्गको न जायें ॥ १२ ॥ तुम सब साधक आचार्य शंकरके लोकको मतजाओ, यदि तुम जाओगे तो देह नहीं रहेगा ॥ १३ ॥ हे साधको ! हे महीनेमें मैंने भोजन नहीं किया, इस कारण तुम्हारे मांसको अवश्य भोजन करूंगा ॥ १४ ॥ जीते मनुष्य पावतोंसहित शिष्यों नहीं देगसकते, यह मुनकर ये साधक धीरे २ महापथको जाने और अघोर मंत्रों जपनेसे ॥ १५ ॥ दिव्यमार्गमें प्राप्त हो उस भयंकर सिंहको देग, जिसके भयंकर गर्जनेवा शब्द तीनोंलोकोंमें व्याप्त हुआ था ॥ १६ ॥ आचार्यगण, सिंहके भयसे

आचार्यो वदते तांश्च सिंहात्रैव भयं मम ॥ १७ ॥ अघोरस्तु-  
महामंत्रो ह्यघोरो देवदुर्लभः ॥ भीतैश्च जपितो मंत्रः सर्वत्रास-  
क्षयंकरः ॥ १८ ॥ अथ मंत्रः ॥ ॐ श्रीं श्रीं श्रीं श्रीं ॐ हुं फट्  
स्वाहा ॥ अघोरश्च महामंत्रः सर्वविघ्नविनाशनः ॥ अघोराय  
नमस्तस्मै दुर्लभो भुवनत्रये ॥ १९ ॥ अघोराय नमस्तुभ्यं  
अघोराय च ते नमः ॥ अघोरः सर्वसिद्धयर्थं शिवेन निर्मितः  
पुरा ॥ २० ॥ अघोरं जपमानश्च पिनाक्येवाभिजायते ॥ मूर्ति-  
रूपो भवेद्बुद्धः सर्वालंकारभूषितः ॥ २१ ॥ सिंहरूपं परित्यज्य  
प्रत्यक्षोऽसौ बभूव च ॥ गजारूढः सहस्राक्षो वज्रायुधमुशोभितः  
॥ २२ ॥ इन्द्र उवाच ॥ धन्याधन्या महासिद्धा एकचित्ते व्य-  
वस्थिताः ॥ आगता मृत्युलोकाच्च गंतव्यं शंकरालये ॥ २३ ॥  
अहं तुष्टो महासिद्धा वरं वृणुत सुव्रताः ॥ तत्सर्वं च प्रदास्यामि  
येन श्रेयो ह्यवाप्स्यथ ॥ २४ ॥ आचार्य उवाच ॥ यदि तुष्टोऽसि  
मे देव शंकराज मरोत्तम ॥ महापथे च यत्किंचिद्विघ्नं माभूत्क-

व्याकुलहुए साधकोंसे बोले, हमको सिंहसे कुछ भय नहीं है ॥ १७ ॥ डराहुआ मनुष्य  
देवताओंको दुर्लभ अघोरमंत्रका जप करे तो उसके सब भय दूर होजातेहैं सो जप  
कर सब दुःख दूर करो ॥ १८ ॥ श्रीं श्रीं श्रीं श्रीं ॐ हुं फट् स्वाहा यह मंत्र है, यह अघोर  
महामंत्र सब विघ्नोंका नाशक है, इस अघोर मंत्रको नमस्कार है ॥ १९ ॥ यह मंत्र सब सि-  
द्धियोंके अर्थ पूर्वकालम स्वयं शिवजीने बनाया था ॥ २० ॥ इस अघोरमंत्रको जपकर  
शिवके तुल्य होजाता है, साधकोंने ज्योंही मंत्र जपा कि वह सिंह सब अलंकारसे  
भूषित इन्द्रकी मूर्ति धारण करताहुआ ॥ २१ ॥ और उस सिंहके स्वरूपको त्या-  
गन करके साधकोंके प्रत्यक्ष हुआ, और हाथीपर चढे वज्र शस्त्र धारण किए, इन्द्र  
शोभित हुआ ॥ २२ ॥ इन्द्र बोला हे सिद्धो ! धन्य है. आप सब लोग एकाग्र-  
चित्त हो मृत्युलोकसे आये तथा शिवलोकको जाओगे ॥ २३ ॥ हे साधको ! मैं  
प्रसन्न हुआ आप लोग जो वर मांगोगे उसको मैं प्रदान करूंगा कि जिससे कल्या-  
णके प्राप्त होंगे ॥ २४ ॥ आचार्यबोले हे राजा इन्द्र ! यदि आप प्रसन्न हैं तो हम



दाचन ॥ २५ ॥ यत्र स्थाने सुराः सर्वे ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥  
 तत्र स्थाने महाराज न भयं मार्गयाथिनाम् ॥ २६ ॥ महापथेन  
 गंतव्यं न विकल्पो भवेत्ततः ॥ तत्र विघ्नं न पश्यामः सत्यं सत्यं  
 वदाम्यहम् ॥ २७ ॥ साधकेभ्यो वरं प्रार्थ्यमिन्द्रो रात्वा गत-  
 स्तदा ॥ तत्पश्चात्साधकैः सर्वैर्गतव्यमुत्तरादिशम् ॥ २८ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे विख्यातपुराणे श्रीश्वरकार्तिकेयसंवादे  
 पंचयोगेन्द्रेच्छासिद्धिजिविनमुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महापथे  
 शिवदर्शनेसेदहकैलासगमने सिंहरूपेन्द्रराजदर्शनसा-  
 धकवरप्रदानं नाम पंचविंशः पटलः ॥ २५ ॥

यह वरदान मांगतेहैं कि महामार्गमें जाते हुए हमको कोई विघ्न न हो ॥ २५ ॥  
 जिसस्थानमें ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सब देवताहैं वहां जानेसे किसीप्रकारका  
 भय नहीं ॥ २६ ॥ महापथमें विघ्न और विकलता नहीं, यह हम सत्य २ कहतेहैं  
 ॥ २७ ॥ तत्र साधकोंको वरप्रदान करके राजा इन्द्र अन्तर्धान हुए, और फिर  
 साधक आगेकी ओर चले ॥ २८ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे मापाटीकाया साधकवरप्रदानं नाम पंचविंशः पटलः ॥ २५ ॥

### पञ्चविंशः पटलः-१

श्रीश्वर उवाच ॥ ॐ अग्रतश्चमहासेनदृश्यते च महापुरी ॥  
 साधकाश्च गतास्तत्र दृष्ट्वा च विस्मयंगताः ॥ १ ॥ हेमशृंगे  
 महारम्ये नानारत्नविभूषिते ॥ अग्नितेजःसमंरूपचंद्रादित्यसम-  
 प्रभम् ॥ २ ॥ चंद्रवेगातटेचैवपुरीरुद्रेणनिर्मिता ॥ स्थिता-  
 कैलासस्वच्छांशेमहागिरिवरोत्तमे ॥ ३ ॥ शतयोजनविस्ती-

हे महासेन ! इसके आगे एक बड़ी नगरी दीखपड़ी यहाँ साधकलोग जाकर  
 विस्मयने प्रात हुए ॥ १ ॥ सुवर्णके शिखर बड़े शोभायमान और अनेक प्रकार-  
 के रत्नजडित अंगिक समान देदीप्यमान तथा चन्द्रमा और सूर्यके समान वा-  
 न्तियाँट थे ॥ २ ॥ यह पुरी चन्द्रवेगानदीके किनारे साक्षात् शिवने निर्माण की  
 है, पंचामरपर्वतके शिखरपर स्थित है ॥ ३ ॥ जो सौ योजन विस्तारवाली और

र्णारत्नकांचनशोभिता ॥ प्रत्यक्ष्यंतत्रदृश्यतेज्वलितौशशिभा-  
 स्करौ ॥ ४ ॥ इन्द्रनीलमयं रम्यं चंद्रकांतोपशोभितम् ॥  
 हेमेनरचिताभूमिरुद्रप्राकारतोरणम् ॥ ५ ॥ जलमध्येचशोभं-  
 तेनक्षत्रागिचतारकाः ॥ एतास्मिंश्चगृहेरम्येबहुगंधादिवासिते ॥  
 ॥ ६ ॥ चंपिकास्तत्र तिष्ठन्ति कन्याकोटिसमावृताः ॥ कोकिला  
 स्वरनादेननागवल्लीविभूषिताः ॥ ७ ॥ नानापुष्पसमाकीर्णा बहु  
 गंधादिशोभिताः ॥ भेरीमृदंगशब्देन शंखवीणास्वनेनच ॥  
 ॥ ८ ॥ वेणुतालश्च वाद्यंते पट्टहं तत्र नादितम् ॥ ब्राह्मणा वेद  
 निर्घोषैः सर्वशास्त्रविशारदाः ॥ ९ ॥ विदग्धास्वरभेदैश्च गायन्ति क्रीड-  
 यन्ति च ॥ कुंकुमैर्दिव्यगन्धैश्चदिव्यवस्त्रपरिच्छिन्नाः ॥ १० ॥ हारकंकण  
 केयूरनूपुरैश्च ह्यलंकृताः ॥ पद्मपत्रविशालाक्ष्योरूपयौवनगर्विताः  
 ॥ ११ ॥ उद्गिरन्ति च ताम्बूलकंपूरणे समन्वितम् ॥ केशैर्भ्रमर  
 संकासैर्विह्वलागजगामिनी ॥ १२ ॥ प्रोत्फुल्लापद्मवदनाविवोष्ठी

रत्नजटित सुवर्णसे शोभित और साक्षात् सूर्य चन्द्रमाके समान प्रकाशित दोखती  
 है ॥ ४ ॥ इन्द्रनील तथा चन्द्रकान्तमणियोंसे शोभायमान तथा सुवर्णकी भूमि  
 और शिवकेद्वारा प्रकार और तोरणोंसे निर्माण हुईहै ॥ ५ ॥ उस नदीके जलके  
 मध्यमें नक्षत्र तारागण शोभायमान होरहेथे और वहांके घर सुगन्धित पदार्थोंसे  
 सुगन्धित थे ॥ ६ ॥ तहां कोटिकन्याओंके सहित चंपिका स्थित थीं, जिनका  
 नाद कोपलके स्वरकेसमान था, और नागवेल, ( पान ) से भूषित थी ॥ ७ ॥  
 नानाप्रकारके फूलोंसे सुगन्धित अनेक प्रकारके गन्धोंसे लित और भेरी मृदंग  
 वीणा के शब्द ॥ ८ ॥ तथा वेणुताल पट्टह आदि वाजोंसे गुंजारित, और वेद  
 पारंगत ब्राह्मणोंद्वारा वेदोंकी ध्वनिसे शब्दायमान होरहाथा ॥ ९ ॥ कहीं चतुर  
 देवांगना अनेक स्वरभेदोंसे गातीहुई क्रीडा करतीहैं, कुंकुम चन्दनादि सुन्दर गं-  
 धोंसे तथा दिव्यवस्त्रोंसे वेष्टितहैं ॥ १० ॥ हार, कंकण, वाजूबंद, पायजेव, बिलु  
 एको धारण किये. कमलके समान विशालनेत्रवाली रूप और यौवनसे गर्वितहैं ॥  
 ॥ ११ ॥ कपूरसाहित ताम्बूलको भक्षणकिये भौरोंके समान केशवाली हाथीकी  
 समान गतिवाली ॥ १२ ॥ कमलके सदृश खिले हुए मुख कन्दूरीके समान

कोकिलस्वराः ॥ मृदुकोमलदेहाश्चदिव्यगंधानुलेपनाः ॥ १३ ॥  
 मुष्टिग्राह्यसुमध्या च करिकुंभोवतस्तनी ॥ अशोकपल्लवौ हस्तौ  
 नातिह्रस्वौ न लंबतौ ॥ १४ ॥ दृष्ट्वा च तद्विधाःकन्याःसाधका  
 विस्मयं गताः ॥ स्वागतं स्वागतं सिद्धाः कन्यास्तत्रवदन्ति च ॥  
 ॥१५॥ कन्यका ऊचुः ॥ ॥ वदाचार्यश्च सर्वं मे विस्तरेण महा  
 तपः ॥ क्कभुवनागतासिद्धाः क्कस्थाने चैवगम्यते ॥ १६ ॥  
 सिद्ध उवाच ॥ शृणु सुन्दरि यत्नेन एवं वदति साधकः ॥ आ-  
 गतामृत्युलोकाच्च गंतव्यं शंकरालये ॥ १७ ॥ कन्यकाऊचुः ॥  
 चंपिकातिष्ठते तत्र कन्याकोटिसमावृता ॥ चंपिकातिष्ठतेतत्र पुष्प  
 दर्शनकारणम् ॥१८॥ चंपिकातिष्ठते तत्र चंपिका अतिहर्षिता ॥  
 अस्मिन्नेवपुरेऽस्ये नानाभोग समाकुले ॥ १९ ॥ तिष्ठन्ति  
 साधकाः सर्वे भुजन्तु विपुलां त्रियम् ॥ साधकाश्चंपिकां  
 दृष्ट्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ २० ॥ चंपिकोवाच ॥ द्वागता  
 भुवनात्सिद्धा क्कस्थाने चैवगम्यते ॥ एतद्ब्रूहि महाचार्य

दोनों होंड, कोपलके समान स्वरवाली अतिकोमल देहकी सुन्दर सुगन्ध लगायें  
 ॥ १३ ॥ अतिसूक्ष्म मुट्टीमें आनेयोग्य मध्यस्थान ( कमर ) वाली, और हाथोंके  
 कुंभस्थलके समान स्तनवाली, तथा अशोक वृक्षके पत्तोंकी समान लाल हाथोंकी  
 चद्दत घडी न छोटी ॥ १४ ॥ साधक लोग इस प्रकारकी कन्याओंको देख बड़े  
 विस्मयको प्राप्त हुए । हे सिद्धो ! शुभागमन हो इसप्रकार स्वागत करके कन्या  
 वाली ॥ १५ ॥ हे महातप आचार्यो ! आप अपना वृत्तान्त विस्तारसे कहो कि  
 यहाँसे आप और यहाँको जातेहो ॥ १६ ॥ सिद्ध बोले ! हे सुन्दरि ! सुनो, हम  
 मृत्युदेहसे जायें हैं और शंकरके लोकको जाते हैं ॥ १७ ॥ कन्या बोली यहाँ  
 चम्पा अनेक कन्याओं सहित निवास करती हैं ॥ १८ ॥ अनेक प्रकारके भोगों  
 सहित इस मनोहर नगरमें चम्पा अति प्रसन्न हुई हैं ॥ १९ ॥ हे साधको !  
 त्राय लोग यहाँपर नियाम करो और अधिक भोगोंको भोगो, हे साधकगणों !  
 चम्पायों देवप्रद सब पापोंसे छुटते हैं ॥ २० ॥ चम्पिका बोली हे साधकों !  
 यहाँमें आपसे तथा किस स्थानको जाओंगे ? हे आचार्यो ! यह सब मैं समुद्र

ममाग्रेत्वमशेषतः ॥ २१ ॥ साधक उवाच ॥ ॥ चंपिका  
वचनं सत्यं कथयामि च तच्छृणु ॥ आगता मृत्युलोका च गं-  
तव्यं शंकरालये ॥ २२ ॥ चंपिकोवाच ॥ तिष्ठतिष्ठ महा-  
चार्य भुक्त्वाभोगसमाकुलाम् ॥ एवमुक्त्वा ततः कन्या साधको  
वाक्यमब्रवीत् ॥ २३ ॥ साधक उवाच ॥ ॥ किमत्रभोगमा-  
युष्यं पुनःस्थानं क्व लभ्यते ॥ एतत्सर्वं समासेन ममाग्रे शीघ्रमु-  
च्यताम् ॥ २४ ॥ चंपिकोवाच ॥ ॥ कन्याशतसहस्रणि  
दीयंते च पृथक्पृथक् ॥ कोटिवर्षं च ह्यायुष्यं महाभोगसम-  
न्वितम् ॥ २५ ॥ आचार्य मन्दिरे भोगान्देवानामपि दुर्ल-  
भान् ॥ आचार्य उवाच ॥ ॥ चंपिके वचनं सत्यं तव शब्देच्छ-  
याशृणु ॥ २६ ॥ सर्वैर्मया प्रतिज्ञा च गंतव्यं शंकरालये ॥ किं  
कन्याया च कथ्यंते ह्येकचित्ते व्यवस्थितम् ॥ २७ ॥ किंचि-  
त्मात्रा प्रतिष्ठंति कितुसंख्या च पातने ॥ चंपिकोवाच ॥ ॥  
अस्मिन्नेवपुरे रम्ये बहुकन्यासमाकुले ॥ २८ ॥ तिष्ठतिष्ठमहा

निवेदन करो ॥ २१ ॥ साधक बोले हे चंपिके ! तुमसे हम सत्य वचन कहते  
हैं सुनो, मृत्युलोकसे आते हैं और शिवलोकको जाते हैं ॥ २२ ॥ चंपिका बोली  
हे महाचार्यो ! इस स्थानपर ठहरो और भोगोंको अनुभव करो, ऐसा कन्याओंके  
कहनेपर साधकोंने उत्तर दिया ॥ २३ ॥ साधक बोले । इस स्थानपर कितनी  
आयु और क्या २ भोग हैं फिर कौनसा स्थान प्राप्त होता है, हे देवि ! सब  
शीघ्र हमारे आगे संक्षेपसे कहो ॥ २४ ॥ चम्पिका बोली शतसहस्र कन्या  
पृथक् २ दी जायँगी, और करोड वर्षकी अवस्था, सम्पूर्ण भोग आनन्दके सहित  
भोगोगे ॥ २५ ॥ हे आचार्यो ! इस मंदिरमें जो भोग हैं सो देवताओंको भी  
दुर्लभ हैं, आचार्य बोले हे चंपिके ! तुम्हारा वचन सत्य है, अब हमारा वचन  
सुनो ॥ २६ ॥ हमारी यह प्रतिज्ञा है कि शिवलोकको जायँगे, हम एकाग्रचित्त  
वालोंको यह कन्याओंके वचन नहीं रुचते ॥ २७ ॥ कारण कि कुछ कालतक  
यहां रहकर फिर भी तो पतनका भय है, चम्पिका बोली हे महासिद्धो ! अनेक  
कन्याओंसे व्याप्त इस नगरमें ॥ २८ ॥ निवास करो विपुल भोगोंको भोगो इस

सिद्धाभुंजंतुविपुलांश्रियम् ॥ अस्मिन्नेवपुरेभोगाभोक्तव्याः साधकैः  
 सह ॥ २९ ॥ सर्वदैव समंसिद्धोभुंजतु विपुलांश्रियम् ॥ पश्चा-  
 च्चमृत्युलोके वै जायंते सर्वसंपदः ॥ ३० ॥ साधक उवाच ॥  
 किमर्थं चैवतिष्ठामिया गतासत्वयातने ॥ स्थापिता च पुरादि-  
 व्या कन्यासहविनिर्मिताः ॥ ३१ ॥ चंपिकोवाच ॥ ॥ तच्छ्रु-  
 त्वा वचनं तेषां गच्छाचार्यं यथासुखम् ॥ अस्मिन्स्थानेन रुच्यं  
 ते यत्रेच्छा तत्र गम्यताम् ॥ ३२ ॥ मयात्वं पृच्छताचार्यका-  
 मिनो मदविह्वलाः ॥ आराधिता मया पूर्वैः कामांधामदविह्वलाः  
 ॥ ३३ ॥ दिव्य वर्षसहस्राणि तत्र तुष्टो महेश्वरः ॥ महापथेनते  
 सिद्धागच्छंते च सुमध्यतः ॥ ३४ ॥ त्वयापादप्रसादेन गृहमेकं  
 च चंपिकाः ॥ गृहीत्वा चंपिकामेकं प्रस्थितापंचमुत्तमम् ॥  
 ॥ ३५ ॥ साधकस्तिष्ठते तत्र तस्य चित्ते समुद्भवेत् ॥ साधक  
 उवाच ॥ ॥ ब्रूहि मे चंपिका सत्यं किंत्वयासुकृतं कृतम् ॥  
 ॥ ३६ ॥ एवंतु दिव्य लोकेस्मिन्नुत्पन्नाकामयौवना ॥ गृहीत्वा  
 साधका कन्यातावत् दृष्ट्वा च व्याकुलम् ॥ ३७ ॥ साधक उवाच

रम्य नगरमें ठहरो ॥ २९ ॥ सब देवताओंके समान आनन्दको प्राप्त करो-  
 त्पश्चात् मृत्युलोकमें सब सम्पत्तियों सहित जन्म होगा ॥ ३० ॥ साधक बोले-  
 दम किस निमित्त दुःख यातनाओंमें ठहरें, पहलेही अनेकों कन्या उपास्थित थीं  
 ॥ ३१ ॥ चंपिका बोली अच्छा तो आप सुखपूर्वक गमन करें इस स्थानमें न  
 रहनेकी रुचि है तो जहाँ इच्छाहो वहाँ जाओ ॥ ३२ ॥ हे आचार्य ! प्रथम  
 मदमें कामान्धहो हमने प्रार्थना की थी कारण कि पहले भी हमने ऐसीका सेवन  
 किया है ॥ ३३ ॥ सहस्र वर्षोंमें शिवजी प्रसन्न होते हैं, हे सिद्धो ! महापथसे  
 जो गमन करते हैं उनपर शंकर प्रसन्न होते हैं ऐसाही हमने किया था ॥ ३४ ॥  
 आपके चरणोंकी कृपासे हमारे गृहमें जो चंपा है उस एको ग्रहण करके  
 प्रस्थान कीजिये ॥ ३५ ॥ साधक वहाँ गये । और अपने चित्तमें प्रसन्नहो सा-  
 धक बोले हे चंपे ! सत्य २ कह तूने क्या पुण्य किया ॥ ३६ ॥ जो इस दिव्य  
 लोकमें सुन्दर यौवनवती उत्पन्न हुई साधक उस कन्याको ग्रहण करके और  
 देखके व्याकुल हुए ॥ ३७ ॥ साधक बोले यहाँ क्या पुण्य और क्या फल तथा

कस्थानं कञ्चलोकश्च किं पुण्यं फलमाप्यते ॥ कर्तृर्थं च प्रसा-  
 देन किं गृह्णति च साधकाः ॥ ३८ ॥ चंपिकोवाच ॥ ॥ केदा  
 रनामक्षेत्रस्य तत्र मंदाकिनीनदी ॥ केशेहजूपिकानामलोके यदि  
 परमांगतिः ॥ ३९ ॥ लोकेशजपनं कृत्वा भक्तिभावसमन्वि-  
 तम् ॥ नाचेष्टाक्वा गताज्ञाताः साधकाः सहसास्थिताः ॥ ४० ॥  
 तस्यतीर्थप्रसादेन शिवसोपानमास्थितः ॥ अप्सरसो मया प्राप्ताः  
 पूर्वकामसमन्विताः ॥ ४१ ॥ सर्वदेवसमोपेता राज्यं प्राप्तं  
 मयात्विदम् ॥ महारुद्रप्रसादेन महापथप्रदायकम् ॥ ४२ ॥  
 केदारस्यैव पथि च येमृताहैमपूर्णिताः ॥ शूलहस्ताः शिवसमा-  
 भुञ्जति विपुलांश्रियम् ॥ ४३ ॥ एवं तन्मेऽर्चनं सिद्धा गृह्णति  
 ह्येकसाधकाः ॥ तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा ह्याचार्यः साधकैः सह ॥  
 ॥ ४४ ॥ साधक उवाच ॥ ॥ शृणु कामिनि तत्त्वेन कस्ते  
 धर्मः प्रकाशितः ॥ महापथं गता नैव तिष्ठस्यत्र तपस्विनी ॥ ४५ ॥  
 चंपिकोवाच ॥ ॥ शृणुध्वं साधकाः सर्वे मम वाक्यं तु निश्चि-

आगेको कौनसा स्थान मिलता है और किस तीर्थके प्रसादसे साधकोंको यह  
 सब मिलता है ? ॥ ३८ ॥ चम्पिका बोली केदारक्षेत्रके समीप मंदाकिनी नाम  
 नदी है, केशरजूपिका नामवाली परमगति प्रदान करती है ॥ ३९ ॥ वहां  
 लोकेश शिवका भक्तिभावसहित जप करके सारी कुवेष्टाएँ दूर हो जाती हैं ।  
 यह नहीं ज्ञात होता कहां गई ॥ ४० ॥ मुझको उस तीर्थके प्रसादसे शिवके  
 स्थानपर स्थिति हुई तथा अनेक अप्सरोंके कामनाके अनुकूल प्राप्त हुई ॥ ४१ ॥  
 और समस्त देवताओं सहित यह राज्य मैंने प्राप्त किया । शिवके प्रसादसे महा-  
 पथका प्राप्ति हुई ॥ ४२ ॥ केदारके मार्गमें जो मनुष्य बर्फके पर्वतसे नष्ट होजाय  
 वे त्रिशूल हाथमें ग्रहण करके शिवके समान बड़े भोगोंको भोगते हैं ॥ ४३ ॥  
 हे साधको ! इस प्रकारके अर्चनसे यह प्राप्त हुआ है, इस प्रकार वचन सुन आ-  
 चार्योंके सहित साधक बोले ॥ ४४ ॥ हे कामिनी तत्त्वसे मनो तुमने यह क्या  
 धर्म प्रकाशित किया ? तुम महापथको क्यों न गई यहाँ कैसे रह गई ? ॥ ४५ ॥  
 तब चम्पिका बोली हे साधको मेरे वचनोंको सुनो, और निश्चय करो । पृथ्वी-

तम् ॥ पृथिव्यां च वभूवैको राजा वै मंडलेश्वरः ॥ ४६ ॥ उग्र  
 राज्यं कृतं तेन नानालंकारवेष्टिताः ॥ पृथिव्यां च हि तिष्ठति  
 राजपत्न्योऽधिकाः शुभाः ॥ ४७ ॥ महालक्ष्मीमहारत्नधन-  
 धान्यसमाकुले ॥ तस्य राज्ञो गृहे रम्ये जाताहं बुधपुत्रिका  
 ॥ ४८ ॥ कामरूपा कलाभिज्ञा यौवने मदविह्वला ॥ पूर्वपुण्या  
 कृतज्ञा च शुभवाक्यं समाचरम् ॥ ४९ ॥ धर्ममार्गदृशः सर्वे-  
 मंदभावेन वंचिताः ॥ वाक्यं न रोचते तस्या अभ्यासे ह्यागतो  
 मुनिः ॥ ५० ॥ तस्यार्थे सिद्ध शृणु च मनसा धर्मप्रीतये ॥  
 तत्फलं भुंजते सर्वं पूर्वकर्मोपभोगिनः ॥ ५१ ॥ देहश्च धार्यते  
 पूर्वैरिद्धते नारिकुंडके ॥ पूर्वजेन च न मां प्राप्नो गृहीत्वा चेह  
 साधकः ॥ ५२ ॥ कामरूपकलाभिज्ञं तेन संराधितेश्वरम् ॥  
 वासितं च पुरं दिव्यं कोटिसुन्दरिसंगमम् ॥ ५३ ॥ ममपुरी  
 नायकः सोपि तिष्ठते च विनायकः ॥ शिवमापृच्छत्कन्यायै  
 शंकरेण च भापितम् ॥ ५४ ॥ दातव्या वररुद्राय साधकाय सु-

पर एक मंडलेश्वर ( चक्रवर्ती ) राजा हुआ ॥ ४६ ॥ उस पृथ्वीपातिके उग्र-  
 राज्यमें अनेक प्रकारके गहनोंसे युक्त अनेक स्त्रियां थीं ॥ ४७ ॥ वह राज्य बड़ी  
 लक्ष्मी धन तथा धान्य रत्नोंसे व्याप्त था, मुझे उस महाराजाकी पुत्री जानो  
 ॥ ४८ ॥ मैं कामरूपपिणी युवती मदमे व्याकुल समस्त पुण्य करनेवाली तथा  
 श्रेष्ठ धन कहनेवाली हुई ॥ ४९ ॥ मंदभावसे धर्म कहनेवाले मुझे न रुचे,  
 जो मुनि आते उनसे धर्म पढ़ती ॥ ५० ॥ हे सिद्धो ! मनसे धर्म और भौतिक  
 आशय सुनो । जो कुछ मनुष्यने धर्म किये हैं उन सबका फल मिलता है ॥ ५१ ॥  
 जैसा पूर्वं जन्ममें किया है, उसके अनुसार देह धरता है पूर्वजन्मके फलानुसार  
 एक साधक मुझे ग्रहण करके यहाँ आया ॥ ५२ ॥ उसने कामरूपी सब कला-  
 ओंसे युक्त ईश्वर परायण फरोहों सुन्दारियोंसे ध्यात दिव्यपुर निर्माण किया  
 ॥ ५३ ॥ वही हमारी पुरीसा नायक है, उसका कोई नायक नहीं, उसने कन्या  
 के निमित्त शिवजीसे पूछा तब शिवने कहा ॥ ५४ ॥ इस रक्षित कन्याको उस

रक्षिता ॥ महापथे सदेहोयोद्वागंता पथिदिव्यकः ॥ ५५ ॥  
 वदते कन्यकासत्यं शृणु वाक्यं शुभावहम् ॥ वलं तव महाश्रेष्ठ-  
 मस्यास्त्वं रक्षणं कुरु ॥ ५६ ॥ शंकरं वरमिच्छामि साधकं वर-  
 वल्लभम् ॥ मृपा न भापणं मा च समादाय च गच्छ त्वम् ॥ ५७ ॥  
 प्रसादपेश्वरः सिद्धः शृणु साधो महातपः ॥ किं करोमि मोहरूपं  
 तस्मात्संवसनं मम ॥ ५८ ॥ प्रकटे ह्यांतरे देशे सहिता शब्द-  
 भाषिते ॥ सेवावासादिभक्तिश्च रक्ष्यते च गृहे मया ॥ ५९ ॥  
 तिष्ठन्तः प्रथमं सिद्धास्ते रोचंते च संगमे ॥ पश्चाच्च ह्यागताः  
 सिद्धास्ते भापन्ते स्म नायकम् ॥ ६० ॥ पृच्छंतः साधकाः  
 सर्वे भाषिते ह्यामरांगने ॥ त्यक्त्वा तु चंपिकालोकं गतास्ते त्रौ-  
 त्तरामुखम् ॥ ६१ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे विख्यातपुराणे श्रीश्वरकार्तिकेयसंवादे-  
 पंचयोगेन्द्रेच्छासिद्धिजीवन्मुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महापथे  
 शिवदशने सदेहकैलासगमने चंपिकाराज्ञीपुरीवर्णनं  
 नाम पद्मिंशः पटलः ॥ २६ ॥

रुद्रस्वरूप साधकको देना, जो सदेह इस दिव्य महापथमें जानेकी इच्छा करे  
 ॥ ५५ ॥ यह कन्या सत्य कहती है तुम इसका भापण सुनो, तुम्हारा बल महा-  
 श्रेष्ठ है । तुम इकलेही रक्षा कर सके हो ॥ ५६ ॥ मैं एक साधक शंकररूप  
 वरकी इच्छा करती हूं मैं असत्य नहीं कहती तुम मुझे लेकर चलो ॥ ५७ ॥  
 हे साधो ! महातपस्वी सिद्धो ! सुनो, मुझे शंकरका प्रसाद है पर क्या करूं किसी  
 कारणसे मुझे मोह होगया ॥ ५८ ॥ बाहर भीतर प्रगट, शब्द भापणसे रहित  
 सेवा, वास, आदि भक्ति भरे घरमें रक्षित हूं ॥ ५९ ॥ पहले सिद्ध रुचनिके  
 संगममें स्थित रहते थे चंपाके वचन सुन फिर पीछे सिद्धोंने उस पुरीके नायकसे  
 भापण किया ॥ ६० ॥ देवांगनाओंके पूछनेपर उन्हें उत्तर दे चम्पिकाको छोड़  
 कर वे उत्तरकी ओर चले गये ॥ ६१ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे शिवगौरीसंवादे भाषाटीकाया पद्मिंश पटल ॥ २६ ॥



## सप्तविंशः पटलः ।

ईश्वर उवाच ॥ ॥ ॐ अग्रतो दृश्यते तत्र पुंगिरिर्नामपर्वतः ॥  
 सूर्यकोटिप्रतिकाशोऽग्निज्वालासमप्रभः ॥ १ ॥ याजनांशतं  
 चैव दृष्टा च पर्वतोत्तमम् ॥ उत्तमं शिखराकारं रक्तकांतिविभू-  
 पितम् ॥ २ ॥ सौवर्णकास्तथा वृक्षाः फल पुष्पसमन्विताः ॥  
 सर्वाभरणसंयुक्ता देवास्तत्र समागताः ॥ ३ ॥ सप्तद्वीपा वसुमती  
 सप्तसागरसंयुता ॥ तस्मिन् तु शिखरारूढः पश्यते सर्वगोचरम्  
 ॥ ४ ॥ सप्तसागरपृथ्वी चगोप्पदं मात्रदृश्यते ॥ पथं भयानकं  
 दृष्ट्वा मंत्रं जप्त्वा च निर्मलम् ॥ ५ ॥ अथ मंत्रः ॥ ॐ हुं क्षीं  
 क्षीं हुं ॐ हुं फट् स्वाहा ॥ अघोरोयंमहामंत्रो महासिद्धिकरो नृणाम् ॥  
 ॥ ६ ॥ महाविघ्नहरं नित्यं स्वर्गपथप्रदायकम् ॥ मेरुशृंगं महारूढं  
 दिव्यमालाकुलध्वजम् ॥ ७ ॥ पश्यतां तस्य शैलस्य कलापूर्णं  
 समापुरी ॥ आपदा कर्महंता च वैतालायक्षराक्षसाः ॥ ८ ॥ गण  
 गंधर्वसंस्थानं पुरीं पंचकलान्विताम् ॥ शतयोजनविस्तीर्णां रत्न-  
 कांचनभूषिताम् ॥ ९ ॥ ब्राह्मणावेद् निर्घोषैर्वैदूर्यमणिराशेभिः ॥

ईश्वर बोले आगे पुंगिरिनामक पर्वत भिला जो कोटि सूर्यके समान प्रका-  
 शित अगिके लपटकी समान कान्तिमान् था ॥ १ ॥ सैकड़ों योजनसे उस पर्व-  
 तोत्तमको देख जिसके शिखर बड़े उन्नत और लालकान्तिमणियोंसे शोभाय-  
 मान थे ॥ २ ॥ वहाँ सुवर्णके पृक्ष फल फूलोंसे युक्त थे, देवता लोग सम्पूर्ण  
 आभूषणोंसे व्याप्त थे ॥ ३ ॥ सात द्वीपवाली और सातसमुद्रवाली पृथ्वी उस  
 पर्वतके शिखरपर चढ़के ॥ ४ ॥ गोपद ( गायके स्तुर ) के समान दाखती है ।  
 उस भयानक मार्गको देखकर सिद्ध अघोर मंत्रको जपने लगे और उसके जपन  
 मात्रसे निर्मल पंथ दाखने लगा ॥ ५ ॥ ॐ हुं क्षीं क्षीं हुं हुं फट् स्वाहा, यह अघोर  
 महामंत्र मनुष्योंको परमसिद्धि करनेवाला है ॥ ६ ॥ बड़े २ घिघ्रोंका हरनेवाला  
 स्वर्गलोकका देनेवाला है । सुमेरु पर्वतके शिखरपर चढ़ दिव्यमाला पताकाओं  
 सहित ॥ ७ ॥ उस पर्वतकी कलाकी समानताको नहीं पाया ॥ ८ ॥ आपत्तिमें  
 कर्मको नष्ट करनेवाले वैताल, यक्ष, राक्षसगण, गन्धर्व हैं यह पुरी पांच कलाओं  
 मण्डित मी योजन विस्तृत, रत्नोंकरके तथा सुवर्णसे शोभायमान है ॥ ९ ॥ ब्राह्म-

ऋपयो यक्षगंधर्वाः एवते पुरवासिनः ॥ १० ॥ इन्द्रस्य नगरी  
 दिव्याः श्रूयते कन्यकोत्तमाः ॥ ज्वलिता पद्मरागस्य वैदूर्यमणि-  
 शोभिताः ॥ ११ ॥ इन्द्रनील महानीलैः दृश्यते च मनोहरम् ॥  
 तिष्ठति च ततः सर्वे पुत्रदारासमन्विताः ॥ १२ ॥ क्षीरोदधि  
 यथाविष्णुं संप्राप्ते दीर्घनिद्रया ॥ तत्र स्थाने तथालोके भुञ्जति  
 विपुलांश्रियम् ॥ १३ ॥ स्वयंतुष्टोमहोदेवउमासार्द्धत्रिलोचनः ॥  
 अर्घयित्वाऋषिःसर्वैर्गणगंधर्वसेविताः ॥ १४ ॥ भेरीमृदंगश-  
 व्देनशंखतूर्याचवेणुकाः ॥ गीतंगायंतिगंधर्वाः वीणावाद्यंतिसु-  
 न्दरी ॥ १५ ॥ तालवादननिर्घोषैः लिंगस्याग्नेनिरंतरम् ॥  
 केचित्पक्षोपवासैश्चकेचित्मासोपवासिना ॥ १६ ॥ केचित्पुष्प-  
 फलाहारं केचिन्मारुतभोजनम् ॥ अग्निहोत्रेःरताकेचित्केचित्पू-  
 ज्यंतिब्राह्मणम् ॥ १७ ॥ केचित्कामरताशक्तिः केचिद्रिपु-  
 लभोजनाः ॥ केचिद्यज्ञरताविप्राकेचिल्लोकातपंतिच ॥ १८ ॥  
 केचिच्चपवनाशक्तिः केचिद्ध्यानतपोरताः ॥ ऊर्ध्वपादस्थिताःके-

णोंकी वेदध्वनि तथा वैदूर्य मणियोंकी कान्तिसे व्याप्त ऋषि, यक्ष, गन्धर्वासे युक्त  
 ॥ १० ॥ इन्द्रकी दिव्य नगरीमें उत्तम २ कन्या सुनी जाती हैं, पर यहाँकी कुमा-  
 रियां पद्मराग मणियोंकी कान्तिसे प्रज्वलित वैदूर्यमणियोंसे शोभित थीं ॥ ११ ॥  
 इन्द्रनील महानील मणियोंसे अति मनोहर दीखती थीं । तहाँ सब मनुष्य पुत्र  
 स्त्री सहित निवास करते हैं ॥ १२ ॥ जिस प्रकार क्षीरसागरमें विष्णु दीर्घ निद्रासे  
 सोते हैं तैसे उस लोकमें विपुल सम्पत्ति सुखको भोगते हैं ॥ १३ ॥ यहाँ साक्षात्  
 शिव, पार्वती सहित स्वयं सन्तुष्ट हुए हैं, सब ऋषिगण गन्धर्वा सहित अर्चना  
 करते हैं ॥ १४ ॥ भेरी, मृदंग, शंख, वेणु आदि बाजोंसहित गन्धर्व गान करते  
 हैं स्त्रियां वजाती हैं ॥ १५ ॥ शिवलिंगके आगे निरंतर ताल वाजे आदि शब्दोंसे  
 नृत्य करते हैं, कोई पक्षके उपवास तथा कोई मासके व्रतको करते हैं ॥ १६ ॥  
 कोई फूल, फल, कोई पवन भोजन करते कोई अग्नि होत्रमें तपस तथा कोई  
 ब्राह्मणोंको पूजते हैं ॥ १७ ॥ कोई काममें तत्पर कोई अग्नि होत्रमें तपस  
 कोई ब्राह्मण विद्या, यज्ञ करनेमें निमग्न, कोई तप करते हैं ॥ १८ ॥ कोई पव-  
 नकी समान शक्तिवाले कोई ध्यान तपमें तत्पर, कोई ऊपरकी पर किंव

चित्केचिच्चांद्रायणेस्ताः ॥ १९ ॥ एकपादेस्थिताःकेचित्केचिद्धे-  
काँगुपृथा ॥ महाध्यानरतायोगीवायुविन्दुंममागमम् ॥ २० ॥  
एवंबहुविधालोकाअर्चयंतिसदाशिवम् ॥ भृगुमुनिनारदस्यवाल्मी-  
किकश्यपस्तथा ॥ २१ ॥ मरीचीमार्कण्डेयदुर्वासाव्यासपंडिताः ॥  
वशिष्ठगौतमश्चैवकृष्णद्वीपाचअंगिराः ॥ २२ ॥ ऋषिकन्यारथा-  
रूढादृष्टाकाममयोध्वनिः ॥ गौरीचसदृशासर्वपद्मनीमृगलो-  
चनी ॥ २३ ॥ दिव्यवस्त्रपरीधानादिव्यगंधानुलेपना ॥ दिव्य-  
पुष्पशिरोवध्वादिव्याभरणभूषिताः ॥ २४ ॥ दिव्यदेहमहाकाया-  
दिव्यदेहसमावृता ॥ करकंकणसंयुक्ताहारकेयूरभूषिता ॥ २५ ॥  
नातिदीर्घनातिस्थूलाकरिकुंभौकुचस्तथा ॥ एवंसर्वागुणैर्धुक्ता-  
ऋषिकन्यामनोरमाः ॥ २६ ॥ सिद्धाश्चैवागतादृष्टाआगतासा-  
धकाश्रये ॥ पश्चाच्चसाधकाः सर्वैर्वृंदैर्वृंदेसहस्रशः ॥ २७ ॥ स्वा-  
गताभोमहासिद्धाकन्यास्तत्रवदंतिच ॥ कन्यका ऊचुः ॥ क्वगता-  
भुवनात्सिद्धाः कस्थानेचैवगम्यते ॥ २८ ॥ एतद्ब्रूहिमहाचार्य-

कोई चान्द्रायण घत करनेमें प्रवृत्त थे ॥ १९ ॥ और कोई एक पैरसे स्थित कोई  
एक अंगूठेसे खड़ेहुए बड़े ध्यानमें निमग्न हैं, पवन तथा जलविन्दुके खानेवाले  
योगी हैं ॥ २० ॥ इस प्रकार अनक प्रकारसे सदा शिवको पूजते हैं भृगु, मुनिश्चेष्ट  
नारद, तथा वाल्मीकि ॥ २१ ॥ मरीचि, मार्कण्डेय, दुर्वासा, व्यासादि पंडित  
वशिष्ठ गौतम कृष्णद्वीपायन अंगिरा ॥ २२ ॥ तथा रथपर चढोहुई मधुरध्वनि  
वाली ऋषिकन्या और सम्पूर्ण पार्वतीके सदृश पद्मिनी और मृगके समान नेत्र-  
वाली ॥ २३ ॥ सुन्दर २ वस्त्र धारण करनेवाली दिव्य सुगंध लिपटाये दिव्य  
पुष्प शिरपर धारण किये तथा सुन्दर २ वस्त्र सुन्दर आभूषण पहने थीं ॥ २४ ॥  
दिव्यशरीरवाली महाकन्यायें हाथमें कंकण धारण किये हारवानुबंदोंसे शोभाय-  
मान ॥ २५ ॥ अतिलम्बे, न अतिसूट हाथीके पुंभरथलके समान स्तनवाली  
इमप्रकार सब गुणोंसे अलंकृत ऋषिकन्याएं थीं ॥ २६ ॥ वे उनसाधकोंके आश्र-  
ममें आई, पश्चात् सम्पूर्ण कन्यायें सहस्रोंदल समेत स्थित हुईं ॥ २७ ॥ हे साध-  
नो! क्यागते हैं। कन्या वंदी हैं। आप किस ध्यानमें आये हैं और कहीं जाना चा-  
हते हैं? ॥ २८ ॥ हे महाचार्य! मैं आप कृपाकर पतो, माधक घोलें हे महाकन्या-

साधकैःपरिवेष्टित ॥ साधक उवाच ॥ कथयामिमहाकन्या-  
 शृणुमेवचनंपरम् ॥ आगतामृत्युलोकेचगंतव्यंशंकरालये ॥ २९ ॥  
 कन्यका ऊचुः ॥ अस्मिन्स्थानेमहावीरानानाभोगसमाकुलाः ॥  
 भुंजंतिसास्त्रियासर्वैजरामृत्युविवर्जिताः ॥ ३० ॥ साधक उवाच ॥  
 ममभोगानरुच्यंतेसत्यंमृत्यवंदाम्यहम् ॥ अस्माभिस्तत्रगंतव्यंयत्र  
 ब्रह्माहरोहरिः ॥ ३१ ॥ यत्रस्थानेमहादेवस्तत्रगच्छंतिकामिनी ॥  
 साधकाःसहसाकन्यागतायत्रमहामुनि ॥ ३२ ॥ ऋषिभिर्महतो-  
 दृष्टाहर्षतुष्टोसपाहिताः ॥ स्वागताभोमहासिद्धाऋषिस्तत्रवदंतिच ॥  
 ॥ ३३ ॥ ऋषिरुवाच ॥ कन्यकास्तत्रतिष्ठंतिसंख्याश्वैवनविद्य-  
 ते ॥ एतानिसर्वरूपाणिक्रीडयंतिदिशोदश ॥ ३४ ॥ साधक  
 उवाच ॥ किमर्थंभोगमायुष्यंपश्चाच्च किंभविष्यति ॥ एतद्ब्रूहिमु-  
 निश्रेष्ठकुतःस्थानेपुगम्यते ॥ ३५ ॥ ऋषिरुवाच ॥ स्वरूपंचततो  
 कन्याक्रीडयंतियथासुखम् ॥ क्रीडयित्वामहाभोगंयावच्चंद्रार्कता-  
 रकाः ॥ ३६ ॥ भुक्त्वाचविपुलान् भोगान् मृत्युलोकेव्रजंतिच ॥

ओ ! ! हम कहतेहैं । हमारा वचन सुनो । हम मृत्युलोकसे आयेहैं शिवलोकको  
 जातेहैं ॥ २९ ॥ कन्या बोलीं । हे महावीर ! इस स्थानपर अनेक प्रकारके भोगों  
 सहित स्त्रियोंसमेत जरामृत्युसे वर्जित होकर आनन्द भोगो ॥ ३० ॥ साधक  
 बोले हमको भोग नहीं रुचते सत्य २ कहतेहैं हम को वहाँ जानाहैं जहाँ ब्रह्मा,  
 शिव, विष्णु हैं ॥ ३१ ॥ हे कामिनी ! हम उस स्थानको जातेहैं जहाँ महादेवहैं ।  
 तब साधकोंको वह कन्या वहाँ लगीं जहाँ ऋषिये ॥ ३२ ॥ ऋषिगण उन सा-  
 धकोंको देखकर बड़े प्रसन्नहुए हे सिद्धो ! शुभागमनहो इसप्रकार ॥ ३३ ॥ ऋषि  
 बोले यह कन्या स्थितहैं कि जिनकी संख्या नहींहै अतिरूपवती दशों दिशाओंमें  
 क्रीडा करतीहैं इनसे आनन्द करो ॥ ३४ ॥ साधक बोले, भोग और आयु किस  
 अर्थ है, पश्चात् क्या होगा? हे मुनिश्रेष्ठ ! यह आप भले प्रकार कहिये कि, फिर  
 किसस्थानपर जाना होगा ॥ ३५ ॥ ऋषि बोले यह शोभायमान रूपवाली कन्या  
 क्रीडा करती हैं इनके साथ सुखपूर्वक जबतक सूर्य चन्द्रमा हैं आनन्द भोगो  
 ॥ ३६ ॥ और अनेक भोगोंको भोगकर फिर मृत्युलोकमें मनुष्य सब इच्छाओंकी

सर्वकामसमृद्धश्चजायतेविपुले कुले ॥ ३७ ॥ सर्वक्रियासमः  
 सिद्धासर्वाचारोभवेत्छुचिः ॥ सर्वशास्त्रेभवेद्भक्तासर्वश्रीकसमृ-  
 द्धिमान् ॥ ३८ ॥ चक्रवर्तीभवेद्राजाजातोजातिस्मरोभुवि ॥  
 भुक्त्वाभोगान्महाश्रयान्विविधान्मनसेप्सितान् ॥ ३९ ॥ आचार्य  
 उवाच ॥ यदि भूयोमृत्युलोकेचगंतव्यंमहामुने ॥ किंततोरज्य-  
 भोगेनशिवलोकोनप्राप्यते ॥ ४० ॥ साधकान्प्रस्थितान्दृष्ट्वा  
 निःस्वसंतिवराननाः॥यौवनस्थामदोन्मत्ताःसर्वशास्त्रविशारदाः ॥  
 ॥ ४१ ॥ सर्वलक्षणसंपूर्णाःसुभोगैर्वह्नुकुंकुमैः ॥ सुकोमलाश्च-  
 द्रवदनाःसाधकास्तेत्यजन्तिच ॥ ४२ ॥ तत्रतेसाधकाः सर्वगता-  
 स्तेचोत्तरामुखे ॥ यःशृणोतिमहापंथं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥४३॥  
 शिवकल्पंपठति च ईश्वरं प्रतिगच्छति ॥ ४४ ॥

इति श्रीकेदारकल्पेविख्यातपुराणे श्रीश्वरकार्तिकेय संवादे  
 पंचयोगेन्द्रेच्छासिद्धिजीवनमुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महापथे  
 शिवदर्शनेसदेहकैलासगमनेऋषिपुरीवर्णनो नाम  
 सप्तविंशः पटलः ॥ २७ ॥

पूर्तिसहित बड़े उच्च कुलमें उत्पन्न होताहै ॥ ३७ ॥ सम्पूर्ण कार्योंमें सिद्धिवाला  
 तथा समस्त आचरणोंमें पवित्र और सब शास्त्रोंका वक्ता तथा समस्त लक्ष्मीसे  
 भरपूर ॥ ३८ ॥ चक्रवर्ती राजा होताहै हे महाचार्य ! अनेकप्रकारके मनोरथ  
 और भोगोंको भोगकर जातिका स्मरण होताहै ॥ ३९ ॥ आचार्य बोले हेमहा-  
 मुने ! यदि फिरभी मृत्युलोकमें जन्म होताहै तो राज्यभोगसे क्याजयैहे, हम  
 शिवलोकको जातेहैं ॥ ४० ॥ हे वरानने ! यह कह उन साधक लोगोंने प्रत्यान  
 किया उन यौवनमें टन्मत्त मदपिह्वल सब शास्त्रोंमें निपुण ॥ ४१ ॥ सब लक्ष-  
 णोंसे भरी सुन्दर २ भोग वस्त्र और भस्त्र नादिसे षष्ठित अति कोमल शरीर-  
 वाली चन्द्रमाके समान मुखवाली कन्याओंको छोडा ॥ ४२ ॥ तब ये साधक  
 उतर ( आगे ) की ओर चलादिये जां मनुष्य महापंथको श्रयण करतेहैं वह सब  
 पापोंसे छूट जातेहैं ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

इति श्रीकेदारकरे शिवपार्वतीसंवादे भाषाटीकायां सप्तविंशः पटलः ॥ २७ ॥

## अष्टाविंशः पटलः ।

श्रीश्वर उवाच ॥ ॐ अग्रतोदृश्यतेनत्रहेमस्तंभपरिच्छदः ॥  
 ज्वलंतंपद्मरागं च चंद्रकांतिसमप्रभम् ॥ १ ॥ दर्शनंद्भ्रुतं  
 रूपं दृष्ट्वा तत्र महामुनिः ॥ संप्राप्ताःसाधकाः स्तत्रऋषिं दृष्ट्वा  
 ह्यधोमुखम् ॥ २ ॥ हेमस्तंभंततो दृष्ट्वा नानारत्नविभूषितम् ॥  
 अर्द्धयोजनविस्तीर्णं उच्छ्रायोदशयोजनम् ॥ ३ ॥ चंद्रादित्य-  
 समंतजञ्छायातस्य सुशीतला ॥ इन्द्रनीलमहानीलैः पद्मरागो-  
 पशोभितम् ॥ ४ ॥ ध्वजमालाकुलंदिव्यं चित्रकर्मोपशोभितम् ॥  
 तस्य शृंगेपुरंदिव्यं शोभितंधवलंगृहम् ॥ ५ ॥ तस्यमध्येमहा-  
 लिंगंअप्सरःस्थापितंपुरा ॥ पूजयंतिततःकन्यास्त्रिकालंभक्ति-  
 वत्सलम् ॥ ६ ॥ नृत्यंत्यप्सरसस्तत्रगीतंगायंतियोपितः ॥  
 प्रेक्षणीयंप्रकुर्वतिवंशवादित्रनादितम् ॥ ७ ॥ भेरीमृदंगशब्देन-  
 शंखतूर्यरेवेण च ॥ गानंकुर्वतिगंधर्वाअर्चयित्वावृषध्वजम् ॥  
 ॥ ८ ॥ हेमपुष्पैर्महाभक्ताः पूजयंतिह्यनेकधा ॥ पटहोवेणुवंश-

श्रीशिवजी बोले तहां आगे सुवर्णके स्तम्भोंसे युक्त प्रज्वलित पद्मराग चन्द्र-  
 कान्त मणियोंसे प्रकाशित भूमि देखी ॥ १ ॥ साधक वहां गये और नीचेको  
 मुस्र किये एक ऋषिको देखा तथा उसके अद्भुतरूपको देख चकित हुए ॥ २ ॥  
 और नानाप्रकारके रत्नोंसे जटित सुवर्णके खम्भको देखा जो आधे योजन विस्तृत  
 और दसयोजन ऊंचा था ॥ ३ ॥ उसका तेज सूर्य और चन्द्रमाके समान, तथा  
 छाया बड़ी ठंडी थी, इन्द्रनील और महानीलमणि व पद्मरागमणियोंसे शोभाय-  
 मान था ॥ ४ ॥ पताका माला तथा दिव्यचित्रोंसे सजाहुआ उसके शिखरपर  
 स्वच्छ गृह शोभायमान थे ॥ ५ ॥ उनमें शिवलिंग स्थापित थे और अप्सरा  
 व कन्या तीनों समय भक्तिपूर्वक पूजन करतीर्या ॥ ६ ॥ अप्सरायें नृत्य करती  
 स्त्रियां गान करतीथी वाँसुरी आदि वाजोंके शब्द होतेथे ॥ ७ ॥ भेरी मृदंग  
 शंख तोरईके शब्दोंसे गन्धर्व शिवका अर्चन करके गान करतेथे ॥ ८ ॥ अनेक  
 देवता बड़ी भक्तिभ्रद्धासे सुवर्णके पुष्पोंसे पूजन करतेथे, पटह वेद वाँसुरी आदि

श्वायंतेविविधानिच ॥ ९ ॥ चंदनागरुकपूरदिव्यधूपैश्चभूषिताः ॥  
 तस्यशृंगमहासेनगतास्तेसर्वसाधकाः ॥ १० ॥ अर्चयित्वा महा-  
 देवं हेमपुष्पैःसमन्विताः ॥ आरार्तिकंप्रकुर्वन्तिलिंगस्याग्ने-  
 निरंतरम् ॥ ११ ॥ तत्र ते साधकाः सर्वे उतीर्णतत्रतिष्ठति ॥  
 पठंतिसर्वशास्त्राणिचतुर्वेदभवोध्वनिः ॥ १२ ॥ दृष्ट्वा सर्वप्रव-  
 क्ष्यन्तिब्रूहितस्यशुभाशुभम् ॥ ततो दृष्ट्वा मुनिश्रेष्ठसाधकोवाक्य-  
 मब्रवीत् ॥ १३ ॥ साधक उवाच ॥ मया दृष्ट्वा महादुःखमूर्द्ध-  
 पादंमधोमुखम् ॥ सत्यंब्रूहिमहासिद्धाः किंदुःखं हि तपः कृतम् ॥  
 ॥ १४ ॥ ऊर्द्धपाद उवाच ॥ पूर्वजन्मकृतंपापमूर्द्धपादमधोमु-  
 खम् ॥ मृत्युलोकेषुमंजातोरजाहंमंडलेश्वरः ॥ १५ ॥ अहर्निशं  
 शिवध्यानंपूजयित्वा पुनःपुनः ॥ यजंतोहिमहादेवं नविष्णोरर्चनं-  
 कृतम् ॥ १६ ॥ विष्णुधाम महादिव्यंप्रसंगाद्गतवानहम् ॥  
 विष्णुनाशापितं तत्रबूर्द्धपादमधोमुखम् ॥ १७ ॥ साधक  
 उवाच ॥ अस्मिन्स्थानेसुराः सर्वेगणगंधर्वसेविता ॥ अप्सरायो-

अनेक प्रकारके वाजे बजतेथे ॥ ९ ॥ चंदन अगर कपूर आदिकी मुन्दर धूपोंसे  
 सुगन्धित उसके शिखरपर वे सब साधक गये ॥ १० ॥ और सुवर्णके पुष्पोंसे  
 महादेवकी पूजन कर निरंतर शिवलिंगके आगे आर्ती करनेलगे ॥ ११ ॥ तहाँ  
 उन साधकोंने स्थितहोकर सम्पूर्ण शास्त्रों व वेदोंका पाठ किया चारोंवेदोंकी  
 ध्वनि होने लगी ॥ १२ ॥ तब साधक यह शुभाशुभ देखनेकी इच्छासे मुनिसे  
 कहने लगे ॥ १३ ॥ हमने आपको बड़ा दुःखी देखा कि, ऊपरको पैरकिये और  
 नीचेको मुख किये, सो सत्य २ कहो कि किसकारण यह दुष्कर तप करतहो  
 ॥ १४ ॥ ऊर्द्धपाद बोला पूर्वजन्मके पापसे ऊपरको पैर और नीचेको सिर करने-  
 चाला मैं मृत्युलोकमें चक्रवर्ती राजा था ॥ १५ ॥ रातदिन ध्यानसे शिवकी पूजा  
 करता और विष्णुका पूजन नहीं करताया ॥ १६ ॥ कभी प्रसंग वशमें विष्णुके  
 मंदिरमें गया, तब विष्णुने ऊर्द्धपाद अधोमुख होनेका शाप दिया ॥ १७ ॥ सा-  
 धक बोले हम मुन्दर स्थानमें सम्पूर्ण देवतागण गन्धर्वसहित अप्सरा द्विष्ये

पितःसर्वाभुंजतिपुलांश्रियम् ॥ १८ ॥ एकाक्रीत्वमुनिश्रेष्ठदुःख-  
सागरपीडितः ॥ कस्मिन्कालेभवेन्मोक्षोभविष्यसि महासुखः ॥  
॥ १९ ॥ ऊर्ध्वपाद उवाच ॥ कोटिसिद्धागमिष्यन्तिमममोक्षो-  
भविष्यति ॥ चान्द्रायणंभवेत्कृच्छ्रंतदामोक्षोभविष्यति ॥ २० ॥  
आकाशपथमारुढाः पश्यन्ति च हिमालयम् ॥ तत्रच्छायांमहाकायं  
मेरुशृंगंन्यवस्थितम् ॥ २१ ॥ गच्छन्ति च महासिद्धाःपथिचैव  
हिमालये ॥ तस्यसंदर्शनेनैवमममोक्षोभविष्यति ॥ २२ ॥ द्वेम-  
स्तभंचतेदृष्ट्वासर्वरत्नविभूषितम् ॥ २३ ॥ अर्द्धयोजनविस्तीर्ण-  
उच्छ्रायोदशयोजनम् ॥ चंद्रादित्यसमंज्योतिश्छायातस्य सुशी-  
तला ॥ २४ ॥ इन्द्रनीलमहानीलैः पद्मरागोपमानिच ॥ ध्वज-  
मालाकुलं दिव्यंनानारत्नोपशोभितम् ॥ २५ ॥ ज्वलंतंपद्म-  
रागं च स्फुरंतंकिरणैर्यथा ॥ तस्यशृंगमहादिव्यंशोभितंधवलं  
गृहम् ॥ २६ ॥ तस्यमध्येमहालिङ्गंह्यप्सरःस्थापितंपुरा ॥ पूज-  
यन्तितथाकन्यास्त्रिकालंभक्तिवत्सलम् ॥ २७ ॥ नृत्यन्त्यप्सरस-

अधिक सम्पत्तिको भोगतीहुई निवास करतीहैं ॥ १८ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! तुम अकेले  
दुःखसागरमें पीडितदुः स्थितहो, हेमहासुने ! तुम्हारा किसकालमें मोक्ष ( इस  
दुःखसे छुटकारा ) होगा ॥ १९ ॥ ऊर्ध्वपाद बोला जब करोड़सिद्ध इधरसे शिव-  
लोकका जायगे तब मोक्ष होगा अथवा चान्द्रायण कृच्छ्रव्रत करनेसे मोक्ष होस-  
कताहै ॥ २० ॥ सिद्धगण आकाशमार्गमें चढ़कर हिमालयपर्वतको देखतेहैं, वहां  
पर उसकी छायामें महाकाय सुमेरुपर्वत स्थितहै ॥ २१ ॥ जो महासिद्ध हिमा-  
लयपंथको जातेहैं उनके अबलोकनसे भेरा अवश्य मोक्ष होगा ॥ २२ ॥ तब  
चलकर सिद्धोंने तहां सबरत्नोंसे भूषित सुवर्ण का स्तंभ देखा ॥ २३ ॥ जो आ-  
धायोजन चांडा तथा दसयोजन ऊंचा था, उज्ज्वल चन्द्रमा व सूर्यके समान  
प्रकाशित उसकी छाया अतिशीतल थी ॥ २४ ॥ इन्द्रनील मद्दानील पद्मराग  
मणियोंसे जडी हुई ध्वजा मालाओंसे व्याप्त नानाप्रकारके रत्नोंसे शोभायमान ॥  
॥ २५ ॥ पद्मराग मणियोंकी किरणोंसे प्रकाशित उसके शिगराग सुन्दर श्वेत  
गृह शोभित थे ॥ २६ ॥ उनमें शिवकी प्रतिमा स्थापित थी ॥ अप्सरा व  
भक्तिपूर्वक तीनोंसमय शंकरका पूजन करतीथी ॥ २७ ॥ ५



स्तत्रगायंतिताश्चयोपितः ॥ प्रदक्षिणांप्रकुर्वन्तिवेणुवाद्यंचनादितम् ॥ २८ ॥ शंखतूर्यचवीणाश्चभेरीमृदंगशब्दयोः ॥ गतिं गायंतिगंधर्वा अर्चयंतिमहेश्वरम् ॥ २९ ॥ हेमपुष्पैर्महापद्मैरर्चयंतिह्यनेकधा ॥ गुग्गुलेर्धूपितास्तत्रकपूर्मंत्रितस्तथा ॥ ३० ॥ धूपितं देवदेवस्य अतिगंधं मनोरमम् ॥ सर्वप्रकारैः कुर्वीत धूपदीपसमन्वितम् ॥ ३१ ॥ पटहासलवीणाश्चवाद्यंतेवहुनैकधा ॥ कौतूहलंबहुगुणान्नानारंगमनेकधा ॥ ३२ ॥ चंदनं ह्यंगरंतत्रकपूर्चसुवासितम् ॥ तस्य शृंगे महासेनगतास्ते सर्वसाधकाः ॥ ३३ ॥ अर्चयित्वा महादेवं हेमपुष्पैस्तु पूजितम् ॥ पूजयेद्भूपदीपाद्यैः कपूर्रागुरुचन्दनैः ॥ ३४ ॥ आवासास्तत्र सौवर्णाग्निज्वालासमप्रभाः ॥ मौक्तिकैः चंद्रकान्तैश्च प्रासादा विविधास्तथा ॥ ३५ ॥ प्रवालैश्च महामूल्यैः मणिकिरणोपशोभितम् ॥ संप्राप्ताः साधकाः स्तत्रगृहद्वारमुपस्थिताः ॥ ३६ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे विख्यातपुराणे श्रीश्वरकार्तिकेयसंवादे पंचयोगेन्द्रेच्छासिद्धिजीवनमुक्तब्रह्मप्राप्तये महापथे शिवदर्शने सदेहकैलासगमने ऊर्ध्वपादतपस्विदर्शनो-

नामाष्टाविंशः पटलः ॥ २८ ॥

नित्य नृत्य करती, स्त्रियां गान करती और परिक्रमा करती वेणु वाजे वजाते ॥ २८ ॥ शंख तुरई वीणा भेरी मृदंगके शब्दोंके सहित गन्धर्व गीतोंको गाते और शिवका पूजन करते थे ॥ २९ ॥ अनेक प्रकार सुवर्णके पुष्पोंसे पूजते गुग्गुलसे धूप करते तथा कपूरसे आरती करते थे ॥ ३० ॥ देवदेवके सम्मुख अति-सुगंधित मनोहर धूप दीप प्रदान करते ॥ ३१ ॥ अनेक प्रकारके पटह आदि वाजे बजते और अनेकगण वहाँपर कौतूहल करते थे ॥ ३२ ॥ अगर तथा सुवासित कपूर चढाते नमस्कार करते थे हे महासेन ! उसके शिखरपर सब साधक गए ॥ ३३ ॥ महादेवकी सुवर्णके पुष्पोंसे तथा धूप दीप कपूर अगर चन्दनसे पूजा करते थे ॥ ३४ ॥ तहाँ सुवर्णमय स्थान अमिकी समान कान्तिमान मोती चन्द्रकान्तमणि जाटित शोभायमान भवन देखा ॥ ३५ ॥ मूंगे रत्नोंकी किरणोंसे शोभायमान उस स्थानके द्वारपर साधकलोग उपस्थित हुए ॥ ३६ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे भाषाटीकायामष्टाविंशः पटलः ॥ २८ ॥

## एकोनत्रिंशः पटलः ।

श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ ॐ पश्यंतिदक्षिणेभागेपृथिव्यांतिलकंयथा ॥  
हंसस्वरेणदिव्येनवदंतिचसुरोत्तमाः ॥ १ ॥ देवदानवगंधर्वा  
पश्यंतेचैवसाधकाः ॥ साधक उवाच ॥ ॥ मनुष्यसदृशंवाक्यं  
कस्यसंबंदतेगृहः ॥ २ ॥ महारम्यंमहादिव्यंह्यधऊर्द्धदिशोदश ॥  
गृह उवाच ॥ ॥ आगताभुवनात्सिद्धाःकस्थानेचैवगम्यते ॥ ३ ॥  
सिद्ध उवाच ॥ ॥ आगतामृत्युलोकैचगंतव्यशंकरालये ॥ गृह-  
स्यवचनंश्रुत्वासाधकाःस्मयंगताः ॥ ४ ॥ नैवदृष्टंश्रुतं वा-  
पिकनकंबदतेगृहम् ॥ पृच्छंतिसाधकाः सर्वेगृहमेकाग्रचेतसः ॥  
॥ ५ ॥ ब्रूहिवेशममाग्रेणकस्यसंबंधिनोगृहम् ॥ गृह उवाच ॥  
ततःप्रीताःस्तुतिसिद्धाःदृश्यतेनमहागृहम् ॥ ६ ॥ गृहसंबंधि-  
नोकस्यसर्वलक्षणसंयुतम् ॥ हेममयंसुविस्तीर्णसर्वालंकारभूषि-  
तम् ॥ ७ ॥ मुक्तादितेमहाभागैवैदूर्यमणिशोभिता ॥ गाव-  
त्सशतसंकीर्णानानाविहंगसेविता ॥ ८ ॥ नानागंधर्वसिद्धा-

शिवजी बोले उन्होंने पृथ्वीके दक्षिणकी ओर दिव्यस्थान देखा जहां देवता-  
गण हंसकी समान दिव्यस्वरसे बोलते हुए ॥ १ ॥ देवता दैत्य गन्धर्वाको सा-  
धकोंने देखा, साधक बोले यहां मनुष्यके समान वाक्य धरोंमें किसका सुनाई  
देताहै ॥ २ ॥ अतिमनोहर सुन्दर दशोदिशा ( कोने ) समेत गृह बनाहै, गृह  
बोला हे सिद्धो ! कहाँसे आतेहो और कहाँकी जातेहो ? ॥ ३ ॥ सिद्धबोले हम  
मृत्युलोकसे आतेहैं शिवलोककी जाते हैं, धरका वचन सुन साधकलोग आश्चर्य-  
की प्राप्त हुए ॥ ४ ॥ ऐसा न देखा न सुना कि सुवर्णमय गृह बोलताहो, तब सब  
साधकोंने एकाग्रचित्तहो धरसे पूछा ॥ ५ ॥ हे गृह ! हमारे सामने कही कि किस  
सम्बन्धीका गृहहै, गृह बोला हे सिद्धो ! गृहका स्वामी नहीं दीखपड़ताहै ॥ ६ ॥  
किसका यह सबलक्षणोंसे शोभायमान गृहहै जो सुवर्णरचित अति विस्तृत सब  
अलंकारोंसे भूषित है ॥ ७ ॥ मोती आदि तथा वैदूर्यमणियोंसे शोभितहै, गाय  
बछड़े अनेक प्रकारके पक्षियोंसे सेवित है ॥ ८ ॥ नानागन्धर्व सिद्ध नाग आदि-

श्वनागानांसेवितंशिवम् ॥ पुरंदरगृहंचवप्राकारशतमाकुलम् ॥  
 ॥ ९ ॥ पदंपश्यंतिचाचार्यमेतत्कांचनवद्गृहम् ॥ उच्यतेसाध  
 काःसर्वैकिमिदंचैवदृश्यते ॥ १० ॥ नमनुप्यानदेवाश्वनयक्षान  
 चराक्षसाः ॥ किन्नरानचगंधर्वाःसंपूर्णैःसदृशैर्भृतः ॥ ११ ॥ आस्थि  
 ताभुवनेनैवअधऊर्द्धदिशोदश ॥ ममनाथकुलेगत्वाउदधेर्दाक्षे-  
 णेतटे ॥ १२ ॥ स्वपाणीभ्योस्तोपथिमहादेवस्यसाधुना ॥  
 पंथिरुवाच ॥ किमर्थंसाद्यतेदेवंमहादेवेनभोगृहम् ॥ १३ ॥  
 गृह उवाच ॥ ईश्वरस्यस्वयंलिंगंप्रकाशितंतयोमुनिः समुत्थं वै-  
 श्रुतेनित्यंसमुद्रस्यतटेशुभे ॥ १४ ॥ तेनैवकीयतेस्वामीगृह  
 स्यशततंवदेत् ॥ नयत्रस्थानेसंक्रोधःएतत्पश्यंतिकारणम् ॥  
 ॥ १५ ॥ यःस्थित्वायचस्थानेचतत्रासौपार्वतीपतिम् ॥ नन्द-  
 नस्यगृहंनामवेदशास्त्रार्थपारगः ॥ १६ ॥ तेनाहंनिर्मितः  
 सिद्धागृहंवैस्फाटिकंवदेत् ॥ सोपिसंगतपुष्पार्थततःक्षीरोदसा-  
 गरे ॥ १७ ॥ यावद्ददंतितेसिद्धानन्दनोगृहमागतः ॥ कारणड

से सेवित सौ प्रकार युक्त यह इन्द्रका गृह है ॥ ९ ॥ आचार्य इस सुवर्णके घरेके  
 पदको देखते हैं और साधक परस्पर कहते हैं कि यह क्या अद्भुत विषय दाखता  
 है ॥ १० ॥ न मनुष्य, न देवता, न यक्ष, न राक्षस, न किन्नर, न गन्धर्व हैं सब  
 अलक्ष्य हैं ॥ ११ ॥ यह घर ऊपर नीचे दशोदिशाओंमें स्थित है, सागरके दक्षिण-  
 तटमें मानो प्राप्त होकर हमारे स्वामीने ॥ १२ ॥ इसको स्थापित किया है यह  
 महादेवजीने पथिकोंके निमित्त रचा है, यह देख वे पथिक बोले हे गृह ! किस  
 लिये महादेवने यह गृह निर्माण किया ॥ १३ ॥ गृह बोला हे मुने ! ईश्वरका  
 लिंग यहाँ प्रगटहुआ समुद्रके किनारे प्रकाशित ॥ १४ ॥ उसके स्वामीने यह गृह  
 मोल लिया ॥ १५ ॥ इस स्थानमें पार्वतीपति स्थित हुए, यह नन्दनका गृह है  
 जो वेदशास्त्रमें पारंगत है ॥ १६ ॥ हे सिद्धो ! उसनेही हमको बनाया स्फटिक  
 मणियों सहित रचा है, और वह पुष्प लेनेको क्षीरसागरको गया है ॥ १७ ॥  
 गृहके इतना कहनेपर गृहका स्वामी नन्दन गृहको आया, कारंडव ( हंस )

हेमपुष्पैश्चमुक्ताचंपकपूरिताः ॥ १८ ॥ कृताञ्जलिपुटोभूत्वा  
 तेषां कृत्वाभिवादनम् ॥ नन्दनोवाच ॥ ॥ स्वागतं च महासिद्धा  
 दुर्लभंतवदर्शनम् ॥ १९ ॥ कृतंचदुष्कृतंकर्मएकाकीविचरा  
 म्यहम् ॥ साधक उवाच ॥ ॥ ततः पृष्ठाम्यहं ब्रूहि किं त्वया दुष्कृतं  
 कृतम् ॥ २० ॥ एकाकीतिष्ठते चात्र सर्वलोकविवर्जितः ॥ नन्द-  
 नोवाच ॥ ॥ अज्ञानाद्बालभावेन पुरा पूर्वव्यवस्थिताः ॥ २१ ॥  
 पूर्वकर्मविपाकेन एतत्पापं कृतं मया ॥ शुभं वाप्यशुभं वापि भुंक्ते  
 कर्माणि चानघ ॥ २२ ॥ यैर्दृष्टं स्फुटितं लिङ्गं दग्धखंडं च मेव च ॥  
 समुत्थितं दुच्छितं चापि शिवलिङ्गं चालयेत् ॥ २३ ॥ उद्यानज-  
 लमाभावः पुरीपंथेन मास्थिताः ॥ पूर्वकर्मविपाकेन लिङ्गमुत्पादि-  
 तं मया ॥ २४ ॥ निस्वासितं यथानागा सर्वलोकविवर्जिता ॥  
 भुजंति सर्वकर्माणि मेकस्तिष्ठाम्यहं वनम् ॥ २५ ॥ ब्रह्महत्यासह-  
 स्राणि गोहत्याशतानि च ॥ कोटिकन्याहते पापं पितृमातृवधेन च ॥  
 ॥ २६ ॥ यत्पापं प्रभवेत्सिद्धो तत्पापं लिङ्गभग्नकम् ॥ तेन पापेन

सुवर्ण पुष्पों तथा मोती चंपक पुष्पोंसे पूर्ण ॥ १८ ॥ अंजलि बांधकर  
 उनसे बोला, नन्दन बोला हे सिद्धो ! स्वागत है आपका दर्शन दुर्लभ है ॥ १९ ॥  
 मैं दुखपूर्वक अकेला इस धरमें निवास करता हूं, साधक बोले आपने क्या पाप  
 किया सो हम पूछते हैं ॥ २० ॥ कि सब मनुष्योंसे पृथक अकेले यहां रहते हो,  
 नन्दन बोला पहले बाल्यावस्थामें अज्ञानसे यहां रहता था ॥ २१ ॥ पहले कर्मके  
 फलसे मैंने एक पाप किया हे साधो! पूर्व किये हुए शुभ वा अशुभ कर्मोंको अव-  
 श्य भोगते हैं ॥ २२ ॥ जिन्होंने दृष्टा शिवलिङ्ग अथवा जला हुआ या खंडित  
 हुआ देखा उसको उखाड़नेसे महापाप होता है ॥ उखड़े हुए हिलते हुए शिव-  
 लिङ्गको न उखाड़े ॥ २३ ॥ वनमें जलका अभाव था मार्गमें नगरी थी, पूर्व  
 कर्मके फलसे मैंने लिङ्गको उखाड़ा ॥ २४ ॥ जैसे सब नागोंका सब संसार वि-  
 श्वास नहीं करता उसी प्रकार सब कर्मोंको भोगता हुआ अकेला यहां मैं रहता हूं  
 ॥ २५ ॥ सहस्रों ब्रह्महत्या तथा सैकड़ों गोहत्या और करोड़ों कन्या मारनेका व  
 माता-पिताके मारनेका ॥ २६ ॥ जो पाप होता है सो लिङ्गके उखाड़नेसे होता

संयुक्तंनगच्छेच्छंकरालये ॥२७॥ साधक उवाच ॥ ॥ एकाकी  
 चमुनिश्रेष्ठदुःखसागरपीडितः ॥ कस्मिन्कालेभवेन्मोक्षस्तन्मे  
 ब्रूहिमहामुने ॥ २८ ॥ नन्दनोवाच ॥ ॥ कोटिसिद्धागमि-  
 ष्यन्तिमहापंथस्यदर्शनम् ॥ प्रवक्ष्यामि शैवसर्वमममोक्षो भ-  
 विष्यति ॥२९॥ पूर्वकर्मविपाकेनएतत्पापंकृतंमया ॥ भुनक्ति  
 तेनकर्माणिह्येकस्तिष्ठन्महामुने ॥ ३० ॥ यादृशंस्फुटितंलिंगं  
 दग्धंखंडमहामुने ॥ दृष्ट्वाचएवदग्धानिशिवलिंगंचालयेत् ॥  
 ॥ ३१ ॥ एवंश्रुत्वाततोसिद्धागंतव्यंपवनोयथा॥तत्पश्चात्साधकाः  
 सर्वगतावैचोत्तरामुखे ॥ ३२ ॥

इति श्रीरुद्रयामले केदारकल्पे विख्यातपुराणे श्रीश्वरकार्तिकेय-  
 संवादे पंचयोगेन्द्रेच्छासिद्धिजीवन्मुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महापथे  
 शिवदर्शने सदेहकैलासगमने शून्यभवनवर्णनोनाम  
 एकोनत्रिंशः पटलः ॥ २९ ॥

हे हे सिद्धो ! उस पापके कारण मैं शिवलोकको नहीं जाता हूँ ॥ २७ ॥ साधक  
 बोले हे मुनिश्रेष्ठ इस वनमें अकेले निवास करते दुःखसागरसे पीडित होतेहो  
 सो किस समयतक तुम्हारा छुटकारा होगा यह मुझसे कहो ॥ २८ ॥ नन्दन  
 बोला, जब करोंडों सिद्ध शिवलोकको जायंगे इस मार्गमें दर्शन देंगे तो मेरा  
 मोक्ष होगा ॥ २९ ॥ पूर्व कर्मके फलसे यह पाप मैंने किया, उसका फल भोग-  
 ता हूँ ॥ ३० ॥ चाहे लिंग फूटा हो जलाहो खंड २ हो उसको देखकर भी न  
 उखाड़े ॥ ३१ ॥ इस प्रकार वचन सुन सिद्ध पवनवेगसे शीघ्र चल दिये उसके  
 पीछे सब साधक फिर उत्तरकी ओर चले ॥ ३२ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे भाष्यटीकायामेकोनत्रिंशः पटलः ॥ २९ ॥

## त्रिंशः पटलः ।

श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ ॐ अग्रतोदृश्यतेतत्रअपूर्वचममप्रिये ॥  
 आकाशेउत्तरेभागेईशानेदिग्विभागके ॥ १ ॥ ज्वलंतपद्मराग  
 श्रमूर्यकातिसमप्रभम् ॥ ध्वजमालाकुलंदिव्यंनगेन्द्रोस्तनभूपि-  
 तम् ॥ २ ॥ हेमशृंगेमहाकूटेष्वद्वंद्वान्चक्रांचनैः ॥ द्वादशादि-  
 त्कृतेजाड्यंनानारत्नप्रशोभितम् ॥ ३ ॥ सहस्रयोजनविस्तीर्णंउत्तुंगं  
 चचतुर्गुणम् ॥ तस्यशृंगेपुरीदिव्यंचित्रकम्मोपशोभितम् ॥ ४ ॥  
 अप्सरोभिःस्थापितंलिंगंपद्मरागोमयानिच ॥ पूजयंतिमहा  
 दिव्यंत्रिकालंभक्तिवत्सलम् ॥ ५ ॥ त्रिंशत्कोटिसहस्राणि  
 पूज्यंतेकन्याकोत्तमा ॥ भेरीमृदंगशब्देनशंखकोलाहलंतथा  
 ॥ ६ ॥ इंद्रभिवंदनिर्घोषैस्तालशृंगचमदलैः ॥ वंशवा-  
 दत्रयंत्रस्थदिव्यैःपुष्पैःसुशोभिता ॥ ७ ॥ चंदनागरकर्पूरैर्देव-  
 दारैःफलेस्तथा ॥ कपालैःशंखपालैश्चनानापुष्पैःप्रशोभिता ॥  
 ॥ ८ ॥ आगताचपुरस्थानेद्रारेतिष्ठंतिसाधकाः ॥ पुरमध्ये

शिवजी बोलि हे प्रिये ! आमे एक अपूर्व दृश्य दीखा कि उत्तरकी ओर ईशा-  
 नदिशामें ॥ १ ॥ पद्मरागमणिपोंसे प्रकाशित सूर्यकी समान कान्तिवान् पताका  
 नाला आदिसे भूषित रत्नोंसे शोभित एक पर्वत है ॥ २ ॥ सुवर्णमय महाकूट  
 शिखरमें सुवर्णसे बंधा हुआ और चारह मूर्यकी समान तेजयुक्त रत्नोंसे शोभा-  
 यमान ॥ ३ ॥ सहस्र योजन विस्तृत तथा चार सहस्र योजन ऊंचा उसके शिखर  
 पर चित्रविचित्र कर्मसे शोभित दिव्यपुरी विराजमान थी ॥ ४ ॥ वहां अपराग-  
 ओने पद्मरागमणि जटित लिंग स्थापित किया है. और तीनों मप्रय  
 भक्तिसहित पूजन करती हैं ॥ ५ ॥ तीस सहस्र कोटि कन्या पूजन करती  
 हैं, भेरी, मृदंग, शंखध्वनिसे कोलाहल करती हैं ॥ ६ ॥ शृंगद्वय तथा  
 वेदध्वनि बैताल, शृंग, मर्दल, वॉसुरी, आदि वाजोंसे शृंगारित दिव्य-  
 दिव्यपुष्पोंसे शोभायमान ॥ ७ ॥ चन्दन जगर कपूर तथा शंखपाल आदि  
 शोभित कपाल शंखपाल आदि अनेक पुष्पोंसे शोभित ॥ ८ ॥ उस भगवत्के  
 पर साधकगण उपस्थित हुए उस पुरके मध्यमें बालगर्भके मयायन मय गृह

गृहंतस्यवालाकैःनसमप्रभा ॥ ९ ॥ उत्तुंगशिखराकारंप्राकारं  
 तोरणान्वितम् ॥ कपाटागलसंयुक्तंवेष्टितंचपुरोत्तमम् ॥ १० ॥  
 द्वारोत्पाटितशब्देनद्वारपालेनधीमता ॥ महावीरामहातेजामहा-  
 बलपराक्रमाः ॥ ११ ॥ सकरोतिमहात्रासंसिद्धानांचमहद्भ्रूलम् ॥  
 तत्रतेचभयंदृष्टाभयंतत्रनविद्यते ॥ १२ ॥ द्वारपालस्वरूपंचदृष्ट्वा  
 भीताश्चसाधकाः ॥ प्रतिहार उवाच ॥ ॥ किमर्थंसाधकाःसर्वे  
 ह्यस्थानेचैवगम्यते ॥ १३ ॥ अघोरायभयंदृष्ट्वासर्वेतेपांपलाय  
 नम् ॥ तस्यश्रुत्वामहाशब्दमघोरमक्षरंजपेत् ॥ १४ ॥ ॐ श्रीं  
 श्रीं श्रीं हुं हुं हुं फट् स्वाहा ॥ इतिमंत्रः ॥ ॥ अघोरंचमहा  
 मंत्रंसर्वविघ्नक्षयंकरम् ॥ भीताजपित्वामहामंत्रमघोरंदेवदुर्लभम् ॥  
 ॥ १५ ॥ अघोरंजपमानश्चप्रतीहारोवदेत्ततः ॥ वदतेचशुभं  
 वाक्यंविचार्यचपुनःपुनः ॥ १६ ॥ सौम्यरूपामहामूर्तिःसर्वा-  
 लंकारभूषिता ॥ नानारत्नविचित्रैश्चबहुवस्त्रैश्चशोभिता ॥  
 ॥ १७ ॥ स्वागतंचमहासिद्धाकपाटोत्पाटनंकृतम् ॥ तस्य  
 तद्वचनंश्रुत्वाकन्यास्तुष्टाहसंतिच ॥ १८ ॥ कन्यकारुचुः ॥

शित था ॥ ९ ॥ ऊंचे शिखर पर्यन्त प्राकार बंदनवारसे भूषित कपाट मूसला-  
 आदिसे वेष्टित नगर था ॥ १० ॥ द्वारपर कहे शब्दसे बुद्धिमान् द्वारपालने जो  
 महातेजस्वी पराक्रमी साहसी था ॥ ११ ॥ बड़ा त्रास ( भय ) दिखाया तब  
 सिद्धगण महाभयको देख व्यथित न हुए ॥ १२ ॥ परन्तु साधक द्वारपालके  
 स्वरूपको देख भयभीत हुए, द्वारपाल बोला हे साधक ! किस कारण तुम सब  
 इस स्थानमें प्राप्तहुए, और कहां जाते हो ? ॥ १३ ॥ इसप्रकार उसका महाशब्द  
 सुनकर उन्होंने अघोरमंत्रको जपा ॥ १४ ॥ ॐ श्रीं श्रीं श्रीं हुं हुं हुं फट् स्वाहा  
 यह मंत्र है, यह अघोर महामंत्र सबविघ्नोंका विनाशक है ॥ १५ ॥ अघोर दुर्लभमंत्रको  
 जपकरतेहुए उन साधकोंसे द्वारपाल शुभवाक्योंको बार २ विचारकर बोला  
 ॥ १६ ॥ सौम्यरूपवती सुन्दर मूर्ति सब आभूषणोंसे तथा अनेक विचित्र रत्नोंसे  
 भूषित, बहुत वस्त्रोंसे शोभित ॥ १७ ॥ कन्या कपाटोंको खोलती हैं, उसका  
 सुन कन्या सन्तुष्ट हो हैंसती हुई ॥ १८ ॥ कन्या बोली हे सिद्धो ! कौन

कभुवनागतासिद्धाकस्थानेचैवगम्यते ॥ एतद्ब्रह्मिहाचार्यसाध-  
 कोपरिवेष्टितम् ॥ १९ ॥ साधक उवाच ॥ ॥ कथयामि-  
 महाकन्याशृणुमेवचनंमहान् ॥ आगतामृत्युलोकाच्चगंतव्यं  
 शंकरालये ॥ २० ॥ कन्यका उचुः ॥ ॥ श्रुत्वाचार्यमहा-  
 प्राज्ञरुद्रभक्त्यामहातपाः ॥ देवीपद्मावतीनामइमांभुंजंतिसापुरीम्  
 ॥ २१ ॥ प्रवेशंचपुरीरम्यांनादैःस्वभिरलंकृतम् ॥ नृत्यंगीतं  
 तथाकृत्वाआचार्यस्वागतांवदेत् ॥ २२ ॥ देवीपद्मावत्युवाच ॥  
 कभुवनागतासिद्धाकस्थानेचैवगम्यते ॥ सर्वमाख्याहितत्वेनयदि  
 कल्याणमिच्छसि ॥ २३ ॥ साधक उवाच ॥ ॥ शृणुदेवि  
 समासेन एवं कथतिसाधकाः ॥ आगतामृत्युलोकाच्च गंतव्यं-  
 शंकरालये ॥ २४ ॥ देवीपद्मावत्युवाच ॥ ॥ तिष्ठंतिसाधकाः  
 सर्वेनगंतव्यंमहापथे ॥ कामरूपीस्त्रियासर्वाजरामृत्युविवर्जिताः ॥  
 ॥ २५ ॥ देवोहरिहरोब्रह्मादृश्यतेस्मिन्पुरेसदा ॥ आगच्छंतिततु-  
 र्दृश्यांसर्वेभोक्तार्थकारणे ॥ २६ ॥ कार्तिकेचास्त्विनेमासेह्यमा-

भुवनसे आये और किसस्थानको जातेहो सो सब आप कहो ॥ १९ ॥ साधक  
 बोले हे कन्याओं !! कहते हैं सुनो, हम मृत्यु लोकसे आये हैं शंकरके स्थानको  
 जाते हैं ॥ २० ॥ कन्या बोली हे महाप्राज्ञ ! आचार्य ! शिवकी भक्ति करनेवाली  
 पद्मावती देवी इस नगरीको भोगती है ॥ २१ ॥ इस रम्यपुरीमें अपन शब्दोंसे  
 अलंकृत नृत्य गीत करती वह आचार्योंसे यह स्वागत वचन बोली ॥ २२  
 देवी पद्मावती बोली हे सिद्धो ! किस भुवनसे आते हो किस स्थानको जाते हो  
 सो सब ठीक २ कहो ? यदि कल्याणको चाहते हो ॥ २३ ॥ साधक बोले,  
 हे देवि ! संक्षेपसे कहतेहैं सुनो ! हम मर्त्यलोकसे आये और शिवलोकको जातेहैं ॥  
 ॥ २४ ॥ पद्मावती देवी बोली हेसाधको ! तुम सब यहां ठहरो महापंथको मत  
 जाओ, कामकी समान स्वरूपवती स्त्रियां यहां जरामृत्युसे वर्जितहैं ॥ २५ ॥  
 और इसनगरमें ब्रह्मा, विष्णुमहेश्वर सब चतुर्दशीको भोग करनेको जातेहैं ॥  
 ॥ २६ ॥ कार्तिक आश्विन मासकी अमावस्याके दिन शिवजी भोरे पुरमें क्रीडा



वस्यायदाभवेत् ॥ तद्दिनेशिवमायांतिमत्पुरेक्रीडनायच ॥ २७ ॥  
 येत्रजंतिचकेदारंदवानामपिदुर्लभम् ॥ मंदाकिनीमहागंगांस्नात्वा-  
 रेतःपिबंतिच ॥ २८ ॥ पश्यंति च महादेवंकैलासेहरमंदिरे ॥  
 तस्मात्तिष्ठमहाचार्यभुंजन्भोगान्यथेप्सितान् ॥ २९ ॥ यावदेवे-  
 नपश्यंति उमासार्धत्रिलोचनम् ॥ कुतोहंतत्रतिष्ठंतिआचार्य-  
 साधकैः सह ॥ ३० ॥ अवश्यंतत्रगंतव्यंकैलासेहरमंदिरे ॥  
 तदादेवोविरूपाक्षः पश्यंतिसाधकोत्तमम् ॥ ३१ ॥ प्रतिमाल-  
 क्षणोपेतंचन्द्रादित्यसमप्रभाम् ॥ कटिश्चनागवद्धाश्वकर्णौचहेम-  
 कुंडलौ ॥ ३२ ॥ ततोदृष्ट्वामहाप्राज्ञाममकन्यानरुच्यते ॥  
 तस्यतद्वचनंश्रुत्वाप्रस्थितासर्वसाधकाः ॥ ३३ ॥ संप्राप्तासा-  
 धकास्तत्रविमानानिदिशोदश ॥ विमानानिसहस्राणिआकाशश्च-  
 समाकुलम् ॥ ३४ ॥ गणगंधर्वसंयुक्तादेवगंधर्वयोपिता ॥  
 सर्वाभरणशोभाढ्यांनानावस्त्रपरिच्छदाः ॥ ३५ ॥ इंद्रकन्याब्रह्म-  
 कन्याहारिकन्यास्तथैवच ॥ कुबेरयक्षणीकन्याचंडकन्यात्रिलो-

करनेके निमित्त आतेहैं ॥ २७ ॥ जो मनुष्य देवदुर्लभ केदारको जातेहैं और  
 मन्दाकिनी महागंगामें स्नानकरके जलपान करतेहैं ॥ २८ ॥ और कैलासमें हर  
 मंदिरके विषयमहादेवका दर्शन करतेहैं, तो मनईप्सित भोगोंको भोगतेहैं इससे  
 यहां रहकर भोगोंको भोगे ॥ २९ ॥ साधक बोले जबतक पार्वतीसहित महा-  
 देवको नहीं देखतेहैं, तबतक अन्यस्थानमें हम आचार्य साधक नहीं ठहरसकतेहैं  
 ॥ ३० ॥ अवश्यही वहां हरमंदिरको जावेंगे, उससमय विरूपाक्ष देवको उन  
 साधकोंने देखा ॥ ३१ ॥ उनकी मूर्ति सुन्दर लक्षणावाली और जिनकी कान्ति सूर्य  
 चन्द्रमाके समानहै कमर सर्पकेसमान पतली कानोंमें सुवर्णके कुंडल धारण किये  
 ॥ ३२ ॥ उसे देख वह बोले हमको कन्या नहीं रुचती इसका वचन सुन सम्पूर्ण साधक  
 चलदिये ॥ ३३ ॥ फिर साधक वहां प्राप्तहुए जहांपर विमान स्थितथे सहस्रों  
 विमानोंसे आकाश व्याप्त था ॥ ३४ ॥ गण गन्धर्व सहित देवता गन्धर्वकी  
 स्त्रियां जो सम्पूर्ण आभूषणोंसे शोभित अनेकप्रकारके वस्त्रोंसे आच्छादित थीं ॥  
 ॥ ३५ ॥ इंद्रकन्या ब्रह्मकन्या तथा विष्णुकी कन्या कुबेर और यक्षोंकी कन्या चंड

चनी ॥ ३६ ॥ विमानारूढसर्वाश्च अप्सरोगणनेकधा ॥ रत्न-  
 वंधाविमानानिकामिनीसर्वकामिकाः ॥ ३७ ॥ आगताश्चततः  
 कन्याविमानैः पुष्पपूरणैः ॥ शंखदुंदुभिनिर्वापैर्भेरिकाहलमर्दलैः ॥  
 ॥ ३८ ॥ पटहावेणुवंशस्यवाद्यैतेवहुनैकधा ॥ एतैश्चसहितादेवै-  
 र्विमानारूढमागताः ॥ ३९ ॥ चामरैर्वीज्यमानस्तुच्छत्रोपरि  
 विराजितम् ॥ गीतंगायंतिगंधर्वावाणावाद्यंतिमुन्दरी ॥ ४० ॥  
 संपूर्णचन्द्रवदनारूपयौवनगर्विताः ॥ दिव्यवस्त्रपरीधानं दिव्यगंधा-  
 नुलेपनम् ॥ ४१ ॥ शोभिताः शिरसः पुष्पैर्नागवल्लीविभूषिताः ॥  
 करकंकणसंयुक्ताहारकेयूरभूषणाः ॥ ४२ ॥ अशोकपल्लवैर्हस्तै-  
 र्वंदतिकोकिलास्वरम् ॥ यौवनस्थामदोन्मत्ताः सर्वशास्त्रविशारदाः ॥  
 ॥ ४३ ॥ यत्रस्थानेमहावीराः सर्वास्तत्रसमागताः ॥ आगता-  
 चसुराः सर्वैर्गणगंधर्वयोपितः ॥ ४४ ॥ देवाञ्जुः ॥ ॥ शृणु-  
 साधोमहाप्राज्ञएकचित्तोहिमालयम् ॥ दर्शनेनत्वयासर्वे आग-  
 ताः सुरेनकथा ॥ ४५ ॥ अहंचप्रेपितः साधोब्रह्माविष्णुमहेश्वरैः ॥

कन्यात्रिलोचनी ॥ ३६ ॥ सब विमानपर चढीं और अनेक अप्सरागणोंसे शोभि-  
 तर्थां विमान रत्नजडित थे कामसे अतिक सुन्दर कामिनी थीं ॥ ३७ ॥ फूलोंसे  
 भरे विमानोंपर चढ़कर आईं शंख, दुन्दुभि, भेरिका हल, मर्दल, इनके शब्दोंसे ॥  
 ॥ ३८ ॥ तथा पटह वेन वाँसुरी आदि अनेक वाजोंसे देवी विमानोंमें प्राप्त हुई ॥  
 ॥ ३९ ॥ चंद्रोंसे चालित छत्रको धारे गंधर्व गीतगाते और सुन्दरी वीणा बजाती  
 थीं ॥ ४० ॥ पूर्णचन्द्रमाकेसमान मुखारविन्दरूप यौवनसे गर्वित, दिव्यवस्त्र धारे  
 सुन्दर संगंध लगाये ॥ ४१ ॥ शीस फूलोंसे शोभित नागवल्लीसे भूषित हाथमें  
 कंकण पहने हारवाजूबंदसे शोभायमान ॥ ४२ ॥ अशोकके पत्तोंके सदृश हाथ-  
 वाली कोपलके समान मधुरशब्द बोलतीं, यौवनसे तथा मदमें उन्मत्त सब शा-  
 स्त्रोंमें निपुण ॥ ४३ ॥ वे सब उस स्थानमें प्राप्त हुईं जहां साधक लोग उपस्थित  
 थे, सब देवतागण गन्धर्व स्त्रियोंसहित आये ॥ ४४ ॥ देवता बोलें हे  
 महाप्राज्ञ साधो ! तुमने एकचित्तहोके आपक दर्शनोंको सब देखते आये हैं ॥ ४५ ॥ हे  
 साधो ! हमको ब्रह्मा विष्णु महेश्वरने भेजा है देवदेव जगत्पति शिवके लोकको

देवदेवंजगन्नाथंशिवलोकं व्रजंति च ॥ ४६ ॥ आरूढाचविमानानि शिवलोकैव्रजाम्यहम् ॥ तेपांचवचनेनैवविमानारूढसाधकाः ॥ ४७ ॥ साधक उवाच ॥ ॥ विमानंनैवरुच्यतेसत्यंसत्यं वदाम्यहम् ॥ देवदेवंजगन्नाथं दुर्लभंतवदर्शनम् ॥ ४८ ॥ शंकरस्य प्रसादेनगुरुधर्मवलेन च ॥ वदंतिसाधकाः सर्वे पूजयित्वा प्रयत्नतः ॥ ४९ ॥ तस्यपादौनमस्कृत्यविमानानिचसर्वदाः ॥ यदाहं शंकरोयात्रासाधकोपरिवेष्टितम् ॥ ५० ॥ तदादेवस्यरुद्रेण कैलासेगम्यते ध्रुवम् ॥ विमानानिप्रणम्यंचआचार्यसाधकैः सह ॥ ५१ ॥ गतातत्रविमानानियत्रब्रह्माहरोहरिः ॥ पंथानमुद्यताः सिद्धागच्छंतिचोत्तरामुखम् ॥ ५२ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे विख्यातपुराणे श्रीश्वरकार्तिकेयसंवादे  
पंचयोगेन्द्रेच्छासिद्धिर्जाविनमुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महापथे  
शिवदर्शनेसेदहकैलासगमने देवीपद्मावती पुरीवर्णनो  
नाम त्रिंशः पटलः ॥ ३० ॥

चलिये ॥ ४६ ॥ हमारे संगे विमानोंपर चढ़के चलिए उनके यह वचन सुन साधक विमानोंपर न चढ़े ॥ ४७ ॥ साधक बोले हमको विमान नहीं रुचते सत्य २ कहतेहैं देवदेव जगन्नाथका दर्शन परमदुर्लभहै ॥ ४८ ॥ शिवके प्रसादसे तथा गुरुभक्तिसे प्राप्त होतेहैं, यह कह, सब साधकोंने उनका पूजन किया ॥ ४९ ॥ और उनके चरणोंको प्रणामकर और उन विमानोंको पूजके कहा जब हम शिवकी यात्रासे लौटें ॥ ५० ॥ तब कैलासमें रुद्रदेवके पास अवश्य जावेंगे, इस प्रकार आचार्य साधकगणोंने उन विमानोंको प्रणाम किया ॥ ५१ ॥ और विमान वहां गये जहां ब्रह्माविष्णु महेश्वरथे, वे सिद्धभी और आगोंको उत्तरकी ओर चलदिये ॥ ५२ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे भाषाटीकायां पद्मावतीपुरीवर्णनो नाम त्रिंशः पटलः ॥ ३० ॥

## एकत्रिंशः पटलः ।

श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ ॐ अग्रतोदृश्यतेतत्रपुरीघोषावतीतथा ॥  
 शोभिताचपुरंदिव्यमुदितार्किसमप्रभम् ॥ १ ॥ ईदृशीचपुरीयत्र  
 साधकास्तत्र आगताः ॥ तस्मिन्गृहाणिदिव्यानिपन्नरागमया-  
 निच ॥ २ ॥ चंद्रकांतिसमोपेतवैदूर्यमणिरश्मभिः ॥ देवतापूज-  
 यिष्यामिकामरूपामहावलाः ॥ ३ ॥ तदाचह्यतिरूपाणि  
 श्रीपतेःपुरमुत्तमम् ॥ तत्र स्थाने च ये वृक्षाःसर्वकालेफलांति च ॥  
 ॥ ४ ॥ नदीचवहतेतत्रवृत्तंक्षीरंमधुःसदा ॥ भेरीमृदंगशब्देन-  
 शंखकाहलमर्दलैः ॥ ५ ॥ महागंभीरतरलैर्वाद्यंतेवहुयंत्रिणः ॥  
 वाद्यंतेतानिनिघोषैर्वशवादित्रनादितम् ॥ ६ ॥ उत्साहंदृश्यतेतत्र  
 पदपदेमहापथे ॥ एवम्यंस्थलंदृष्ट्वाधवलगृहसंयुतम् ॥ ७ ॥ ध्वजमा-  
 लाकुलंदिव्यंपन्ननीखंडमंडितम् ॥ दिव्यशब्दंमहानादं दीर्घवर्ण-  
 निनादितम् ॥ ८ ॥ अग्रतोदृश्यतेतत्रप्रतिहारवदांतिच ॥ महा-  
 उग्रंततोदृष्ट्वा रुद्रदेवोप्रतीतिच ॥ ९ ॥ त्रिनेत्रंचदशभुजंचन्द्रार्धकृतशे-

फिर आगे घोषावतीनामक नगरी देखी वह दिव्यपुरी शोभायमान उदय हुए  
 सूर्यके समान कान्तिमान थी ॥ १ ॥ ऐसी नगरीमें साधक प्राप्त हुए जहां सुन्दर  
 पन्नराग मणि जटित घर बने थे ॥ २ ॥ चन्द्रमाकी समान कान्तिसे दीप्तिमान  
 वैदूर्य मणियोंकी कान्तिसे प्रकाशित जहां कामरूप महावली देवता शिवका पूजन  
 करते थे ॥ ३ ॥ उस समय नगर अति सुन्दर रूपसे शोभित होता था, उस  
 स्थानमें जो वृक्ष थे सो सब ऋतुओंमें फलते थे ॥ ४ ॥ और वहां जो दृष्ट शह-  
 दकी नदियां बहती थीं, भेरी, मृदंग, शंखकाहल मर्दल आदि वाजोंके शब्दोंसे  
 ॥ ५ ॥ तथा बड़े गंभीर शब्दोंसे अनेक वाजे बजते, वांसुरी आदिकी ध्वनि  
 होती ॥ ६ ॥ उन्हें उस महापथमें पद २ में उत्साह ( आनन्द ) दीख पड़ता  
 था, इस प्रकार स्वच्छ गृहोंसे व्याप्त स्थलको देख ॥ ७ ॥ जो ध्वजा मालाओंसे  
 व्याप्त, कमलनीके खंडोंसे शोभित, दिव्य व गंभीर शब्दोंसे गुंजारित था ॥ ८ ॥  
 आगे वहां द्वारपाल उनको देख बोला जो महातेजस्वी रुद्रदेवके सदृश था ॥ ९ ॥  
 तीन नेत्र, दश भुजा, तथा मस्तकपर आधे चन्द्रमाको धारण किये था. त्रिशूल

खरम् ॥ शूलपाणिवृषारूढं महाबलपराक्रमम् ॥ १० ॥ भयंकरं भया-  
 द्रीतातस्यदर्शविलोकितम् ॥ महाउग्रंततोदृष्ट्वा मुद्गरं गृह्यताडयत् ॥  
 ॥ ११ ॥ तस्यस्वरनिनादेन यथा मेघविगर्जितम् ॥ सुमेरोः सम-  
 तुल्येन भुजादृष्टानसंशयः ॥ १२ ॥ यथाभाद्रपदे मासे वपावर्षति  
 माधवौ ॥ तथाहितस्यद्वेपेन जलधाराः पतन्ति च ॥ १३ ॥ प्रति-  
 हार उवाच ॥ ॥ कभुवनागतासिद्धाक्कस्थाने चैव गम्यते ॥ एत-  
 द्बृहिसमाचार्यसाधकोपरिवेष्टितम् ॥ १४ ॥ ॥ साधक उवाच ॥  
 कथयामि महाबाहो शृणु मेवचनं हितम् ॥ आगतामृत्युलोकाच्चगं-  
 तव्यं शंकरालये ॥ १५ ॥ देवो हरिर्हरो ब्रह्मासदेहोच निरीक्ष्यते ॥  
 तत्रस्थाने महासेनमम इच्छामि प्यति ॥ १६ ॥ प्रतीहार  
 उवाच ॥ ॥ संग्रामं देहि मे वीरागमनं तत्र कारयेत् ॥ यो मामजि-  
 त्वासंग्रामे स देहो न चरक्षति ॥ १७ ॥ मुद्गरं शैलखड्गं च पूरयित्वा  
 मुहुर्मुहुः ॥ बद्धने च त्वया साधो त्यक्तो देहविवर्जितः ॥ १८ ॥  
 वज्रं च पटलं देयमग्रतो वचनंततः ॥ दैत्यमुष्टितलं चैव हुंकारं वानगा-  
 डिभिः ॥ १९ ॥ गर्जयति पुरद्वारं कं पमानं वसुंधरा ॥ सुमेरुः सहि-

हायमें धारे बेलपर चढ़े बड़े बल और पराक्रम युक्त ॥ १० ॥ भयंकर उसके  
 दर्शन करके साधक भयभीत हुए, वह बड़ी उग्र आकृति सहित मुद्गरको लेकर  
 ताडन करनेको उद्यत था ॥ ११ ॥ उस शूरका शब्द ऐसा था जैसे मेघ गर्जते  
 हों, सुमेरु पर्वतके समान उसकी भुजा थी ॥ १२ ॥ जैसे भाद्रपद मासमें भयों  
 की घोर वर्षा होती है उसी प्रकार उसके देहसे जलकी धारा गिरती थी ॥ १३ ॥  
 द्वारपाल बोला हे सिद्धो ! कौन भुवनसे आये हो ? और किस स्थानको जाते हो ?  
 सो सब कह सुनाओ ॥ १४ ॥ साधक बोले हे महाबाहो ! मैं कहता हूँ मेरा  
 वचन श्रवण करो हम मृत्युलोकसे आये हैं शिवलोकको जाते हैं ॥ १५ ॥ जहाँ  
 विष्णु शिव ब्रह्मा विराजमान हैं हे महासेन ! हम उस स्थानको जाते हैं ॥ १६ ॥  
 द्वारपाल बोला हे धीरो ! हमसे संग्राम ( युद्ध ) करो तब जाना, जो मुझे युद्धमें  
 जीतोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी ॥ १७ ॥ मुद्गर पर्वत खड्गको चारंवार पकडकर  
 फड़ताहूँ हे साधो ! तुम्हारा वध करके देह वर्जित करूंगा ॥ १८ ॥ वज्र पटल,  
 ऋद्धण कर मुष्टितल तथा हुंकार करके दैत्योंकी समान गर्जता था ॥ १९ ॥ द्वार-

तोदेवान्नह्याण्डोकंपतेसदा ॥ २० ॥ स्वर्गमृत्युश्चपातालंडोलयं  
 त्यनिलोयथा ॥ नराणांपन्नगानांचवानराह्यामरेश्वरम् ॥ २१ ॥  
 एवंद्वामहाउग्ररुद्ररूपंभयंकरम् ॥ आचार्यसाधकाःसर्वैर्मृच्छो  
 गच्छंतितत्क्षणात् ॥ २२ ॥ त्रासितापतिताभूमौयावद्गोदोहमात्र-  
 कम् ॥ उत्थिताचेतनालुब्धोदृष्टामृत्युश्चसंगिनाम् ॥ २३ ॥  
 आचार्याशंकितास्तत्रस्मरंतिपरमेश्वरम् ॥ तत्क्षणंक्षणमात्रंचह्य-  
 घोरंजपतेमहान् ॥ २४ ॥ अघोरंजपमानश्चसर्वविघ्नक्षयंकरः  
 अथमंत्रः ॥ ॐ हुं हुं नमोनमः फट्स्वाहा ॥ क्रोशमात्रंप्रमाणेन  
 ह्युत्तंगःपंचयोजनम् ॥ २५ ॥ हेमस्तंभसमालग्रंघंटाचामरभूषि-  
 तम् ॥ ध्वजाकरंशतंजाड्यसर्वरत्नविभूषितम् ॥ २६ ॥ गृहमध्ये  
 चिह्नदोलंघंठानृपुरनादितम् ॥ भूषितंदिव्यगंधैश्चादिव्यवह्नपरि-  
 च्छदाः ॥ २७ ॥ दिव्यपुष्पशिरोवध्वाहारनृपुरभूषिताः ॥ भूषितं  
 पद्मरागंचहेमस्यकंकणकरैः ॥ २८ ॥ हिंडोलयंतितेकन्या-  
 जरामृत्युविवर्जिताः ॥ संप्राप्ताःसाधकास्तत्रभाषयंतितप-

पर गर्जनसे सम्पूर्ण पृथ्वी कांप उठी, उस समय सुमेरु पर्वत सहित देवता व  
 सब ब्रह्मांड कांप गया ॥ २० ॥ स्वर्ग, मृत्यु, पाताल लोक सबही डोलके  
 समान कांप उठे, मनुष्य सर्प वानर दैत्येश्वर व्याकुल हुए ॥ २१ ॥ इस प्रकारकी  
 उग्ररूप दुर्घटनाको देखवे सब आचार्य साधक क्षणमात्रमें मूर्छाको प्राप्त हुए ॥ २२ ॥  
 भयभीतहो क्षणमात्र भूमिपर गिरपड़े फिर उठकर चेतमें आये और आगे इस  
 प्रकार मृत्युको देख ॥ २३ ॥ आचार्यगण परमेश्वरको स्मरण करनेलगे और क्षण-  
 मात्र अघोरमंत्रको जपा ॥ २४ ॥ अघोरमंत्र जपनेसे सारेविघ्न नष्टहुए, द्वारपालने  
 मार्ग देदिया हुं हुं नमो नमः फट् स्वाहा तब एक क्रोशमात्र चौड़ा, पाँच योजन  
 ऊंचा स्थान देसा उसमें ॥ २५ ॥ सुवर्णके खंभे लगे घंटाचांवरोंसे भूषित सैकड़ों  
 ध्वजाएँ और रत्नोंसे जड़ित था ॥ २६ ॥ और उस गृहके मध्यमें हिंडोला घंटा  
 छुंछुसे शब्दायमान सुन्दर सुगंधसे तथा दिव्यवस्त्रोंसे वेष्टित था ॥ २७ ॥  
 दिव्यशीस फलोंको बाँध, हार पायजेवसे भूषित पद्मरागमणि जड़ित सुवर्णके  
 कंकणोंसे अलंकृत हाथवाली ॥ २८ ॥ जरा मृत्यु रहित कन्या हिंडोलेपर झूलती

स्विनीः ॥२९॥ तपस्विन्य उचुः ॥ नाम्नाघोपवतीदेवीभुजंतिविपु-  
 लांश्रियम् ॥ शतयोजनविस्तीर्णपुरीकांचनभूषितम् ॥ ३० ॥  
 पुरीमध्येगृहादिव्या बालकैणासमप्रभाः ॥ तत्रतिष्ठंतिसादेवी  
 शंकरेणविनिर्मिता ॥ ३१ ॥ गौरीचसदृशाकारंसर्वालंकारभू-  
 पिता ॥ संप्राप्ताचगृहद्वारेप्रतीहारावदन्तिच ॥ ३२ ॥  
 प्रतीहार उवाच ॥ ॥ महावीरामहातेजादृश्यंतेचमहातपाः ॥  
 साधकाश्चप्रवक्ष्यामिसर्वपापैःप्रमुच्यते ॥ ३३ ॥ तस्यतद्ब्र-  
 नंश्रुत्वाप्रस्थितासर्वसाधकैः ॥ अभिवाद्यततोदेवीवदेद्वोप-  
 वतीतथा ॥ ३४ ॥ देवीघोपवत्युवाच ॥ ॥ क्वगताभुवना  
 सिद्धाक्स्थानेचैवगम्यते ॥ एतब्रूहिमहाचार्यसाधकापरिवेष्टि-  
 तम् ॥ ३५ ॥ साधक उवाच ॥ ॥ कथयामिमहादेवीशृणु  
 मेवचनंतथा ॥ आगतामृत्युलोकाच्चगंतव्यंशंकरालयम् ॥ ३६ ॥  
 देवीघोपवत्युवाच ॥ ॥ शृणुसाधोमहाप्राज्ञममवाक्यंसुनिश्चि-  
 तम् ॥ राजाचित्ररथोनामचक्रवर्तिमहद्बलः ॥ ३७ ॥ पुन-

थीं वहां जाकर साधक उन तपस्विनियोंसे बोले ॥ २९ ॥ तपस्विनी बोलीं  
 महाराज ! यह घोपवती नाम नगरी अधिक लक्ष्मीसे पूर्ण तथा सौयोजन विस्तृत  
 सुवर्णसे शोभायमान है ॥ ३० ॥ इस पुरीके मध्य दिव्यगृह बाल सूर्यके समान  
 कान्तिमान हैं, यहांपर वह देवी स्थित है यह पुरी साक्षात् शंकरने निर्माण की  
 है ॥ ३१ ॥ पार्वतीके समान आकारवाली देवी सब भूषणोंसे शोभित हैं, तब उस  
 गृहके द्वारपर प्राप्त हुए द्वारपालने कहा ॥ ३२ ॥ द्वारपाल बोला हे महावीर  
 महातेज ! हे महातप ! साधक आप सब पापोंसे छूटे ॥ ३३ ॥ उसका यह वचन सुन  
 साधक लोग वहां देवीके स्थानपर पहुँचे और देवी घोपवतीको प्रणाम किया ॥ ३४ ॥  
 देवी घोपवती बोली हे सिद्धो ! कहांसे आये हो और कहांको जातेहो ? हे आ-  
 चार्य ! सो सब कहो ॥ ३५ ॥ साधक बोले, हे देवि कहता हूँ मेरा वचन सुना,  
 हम मृत्युलोकसे आये और शिवलोकको जाते हैं ॥ ३६ ॥ देवी घोपवती बोली  
 हे महाप्राज्ञ ! हे साधो ! मेरा वचन सुनाओ और सत्य २ जानो यहाँका चित्ररथ-  
 नामक चक्रवर्तिराजा महाबली है ॥ ३७ ॥ तुम उसके पास जाओ तब सिद्ध-

खेततःसिद्धाआगताश्चपुरावृता॥अहमीश्वरपार्श्वेनश्वागतापृच्छ-  
याकृतम् ॥३८॥ पुरीघोपवतीनामतत्रतिष्ठंतिसाधकाः ॥ सिंहा-  
सनानिदिव्यानिहेमरत्नकृतानिच ॥ ३९ ॥ रम्यंतांकन्यकाः  
सर्वाःसर्वशास्त्रविशारदाः ॥ युवत्यस्तामदोन्मत्ताहारकेयूरभूषि-  
ताः ॥ ४० ॥ संपूर्णचन्द्रवदनाविवस्फुरतितेजसाः ॥ मत्तमात्तंग-  
गामिन्योविस्फुरंतपदेपदे ॥ ४१ ॥ नमंतिमानुभावेनजरा-  
मृत्युविवर्जिताः ॥ भुंजंतिसास्त्रियाःसर्वैरूपयौवनगर्विताः ॥४२॥  
राजभोगसमोपेतानानाभोगसमाकुलाः ॥ तिष्ठंतिसाधकाःसर्वै-  
भुंजंतिविपुलांश्रियम् ॥ ४३ ॥ साधक उवाच ॥ ॥ तस्मि-  
न्स्थानेनमेकार्यंसत्यंसत्यंवदाम्यहम् ॥ मयाचतत्रगंतव्यंयत्रदेवो-  
महेश्वरः ॥ ४४ ॥ चित्ररथ उवाच ॥ ॥ स्वर्गलोकेचयेभो-  
गाकैलाससदृशंगृहम्॥ब्रह्मलोकेविष्णुलोकेचन्द्रलोकेचसाधकाः॥  
॥ ४५ ॥ तेनभोगान्महाभोगातत्रभोगायत्रतिष्ठति ॥ तत्रस्था-  
नेमहासिद्धाकिमर्थतत्रगम्यते ॥ ४६ ॥ देवोहरिर्हरोब्रह्मादृश्यतेऽ-

वहां प्राप्त हुए और बोले हम शिवके समीप जायगे ऐसे पूछा ॥ ३८ ॥ उस घोप-  
वतीमें साधक स्थित हुए वहां दिव्य सिंहासन सुवर्णरत्नोंसे ञ्जित थे ॥ ३९ ॥  
रम्य कन्या जो संपूर्ण शास्त्रोंमें निपुण यौवनमें उन्मत्त मदवाली हार वाजूवंदोंसे  
भूषित॥४०॥सम्पूर्ण चन्द्रमाके समान मुखारविन्दवाली कन्दूरीके समान औष्ठवाली  
मतवाले हार्याके समान चलनेवाली पद २ में चलायमान होती थीं ॥४१॥ मानव-  
भावसे प्रणाम करती जरा मृत्यु वर्जित वह स्त्रियां रूपयौवनसे गर्वित भोग करती थीं  
॥४२॥उनको बताकर उसने कहा हे साधको!राजभोगसहित तथा अनेक सांसारिक  
भोगोंसमेत इसस्थानपर उहरो २ विपुलभोगोंको भोगो ॥ ४३ ॥ साधक  
बोले इस स्थानमें हमारा कार्य नहीं सो सत्य जानो, हमको वहां जाना है जहां  
महेश्वर देव हैं ॥ ४४ ॥ चित्ररथ बोले यहांपर स्वर्गलोकके समान भोग हैं और  
कैलासके सदृश गृह हैं और ब्रह्मलोक, हरिलोक, चन्द्रलोककी समान ॥ ४५ ॥  
भोगोंको भोगो और यहांपर निवास करो । हे सिद्धो ! उस स्थानपर क्यों जाते  
हो ? ॥ ४६ ॥ निरंतर यहांपरभी ब्रह्मा विष्णु महेशके दर्शन होते हैं और चतु-



स्मिन्पुरेसदा ॥ आगच्छन्तिचतुर्दश्यांसर्वेभिक्षार्थकारणे ॥ ४७ ॥  
 सर्वमेवप्रत्यक्षन्तेमैत्रस्यसाधकोत्तमम् ॥ आगताश्चततःकन्याःका-  
 वेरस्तनयोमहान् ॥ ४८ ॥ सर्वाहूढंविमानानिगजअश्वरथ-  
 स्तथा ॥ निशिवह्निर्यथातेजाउदयेशशिभास्करौ ॥ ४९ ॥  
 त्रिनेत्रंदशभुजायांचन्द्रार्द्धकृतशेखरम् ॥ दिव्यदेहमहाकायाकौवे-  
 रेनचनासिकाम् ॥ ५० ॥ दिव्यवस्त्रपरीधानंदिव्यगंधानुलेपनम् ॥  
 दिव्यपुष्पंशिरोबंध्वादिव्यदेहीस्वरूपकम् ॥ ५१ ॥ हृदयंनाभि-  
 देशेतुपद्मनीसर्वकन्यकाः ॥ संपूर्णचन्द्रवदनावदंतिकोकिलाश्वरम् ॥  
 ॥ ५२ ॥ मधुरस्वरगंभीरानागवल्लीरचन्तिच ॥ पौडशैर्दिव्यशृंगा-  
 रैस्सर्वांगेसर्वसुन्दरी ॥ ५३ ॥ हेमसूत्रैर्महारम्यैचलनेत्रैश्चशो-  
 भिताम् ॥ करकंकणसंयुक्तं हारकेयूरभूषिताम् ॥ ५४ ॥ ज्योतिवं-  
 तोशरीरस्यज्ञानध्यानार्थपारगाः ॥ शीलवत्यःसतीसर्वाशिवभ-  
 क्तिवराननाः ॥ ५५ ॥ एवंसर्वगुणैर्युक्तांराजाराजसुतानिच ॥  
 तस्यदर्शनमात्रेणसर्वपापैःप्रमुच्यते ॥ ५६ ॥ यत्रस्थानेमहा-

दंशीको सब भिक्षाके अर्थ आते हैं ॥ ४७ ॥ हे साधकोत्तम ! सब प्रत्यक्षही देखलो इतनेमें कन्या और कुवेरके पुत्र प्राप्त हुए ॥ ४८ ॥ सब विमानों और हाथी घोड़े रथोंपर चढ़े थे, जिस प्रकार रात्रिमें अग्नि चन्द्रमा और सूर्यका उदय हो तद्वत् प्रकाशित थे ॥ ४९ ॥ तीन नेत्र दस भुजा अर्ध चन्द्रमाको मस्तकपर धारण किये दिव्य देह सुन्दर नासिका ॥ ५० ॥ दिव्य वस्त्र सुन्दर सुगन्ध लिप-  
 टाये दिव्य शीशपर फूल बांधे दिव्य स्वरूपवाली ॥ ५१ ॥ हृदय और नाभि-  
 स्थानमें पद्मिनी सम्पूर्ण कन्या पूर्ण चन्द्रमाके समान मुखवाली कोयलकी समान बोलती ॥ ५२ ॥ मधुर गंभीरस्वर नागवेल चाब,सालह शृंगार किये सब अंगों-  
 में सुन्दर ॥ ५३ ॥ सुवर्णके डोरे ( तार ) परम रमणीक चंचलनेत्र हाथमें कंकण-  
 धारे हार केयूरसे भूषित ॥ ५४ ॥ कान्तिसे प्रकाशित ज्ञान तथा ध्यानमें तत्पर मुशील तथा शिवभक्तिमें परायण ॥ ५५ ॥ इसप्रकार समस्त गुणोंमें पूर्ण राजा और राजपुत्री थीं, उनके दर्शनमात्रसे सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाते हैं ॥ ५६ ॥ जिस स्थानपर साधक उपस्थित थे उनके आगे कामिनी अनेक गीत रागोंसे

सिद्धास्तत्रागंताचकामिनी ॥ अनेकैरागगीतैश्वरमंतिचपठंतिच ॥  
 ॥ ५७ ॥ अंबकंवरदेकन्यामोहनार्थेसमागताः ॥ दिव्यच्छत्र-  
 शिरस्तस्यघंटाचामरभूपितम् ॥ ५८ ॥ चन्द्रज्योतिर्यथादीतमाग-  
 तासाधकाश्चये ॥ स्वागताभोमहासिद्धाःकन्यास्तत्रवदंतिच ॥  
 ॥ ५९ ॥ कन्यका उवाच ॥ ॥ कृभुवनागतासिद्धाकस्थाने-  
 चैवगम्यते ॥ एतन्नृहिमहाचार्यसाधकोपरिवेष्टितम् ॥ ६० ॥ सा-  
 धक उवाच ॥ ॥ कथयामिमहाकन्याशृणुमेवचनंहितम् ॥  
 आगतामृत्युलोकाच्चगंतव्यंशंकरालये ॥ ६१ ॥ कन्यका  
 उवाच ॥ ॥ ममइच्छामहासिद्धावर्षविपुलवर्तते ॥ अंवरसुं-  
 दरीसर्वाअद्यमेवरआगता ॥ ६२ ॥ तपोबलयुताःसर्वामहातपा-  
 चसाधकाः ॥ उपनिषत्सुवाक्येनप्रजापतिमुखेनच ॥ ६३ ॥  
 आहुतिर्यज्ञकर्मणप्रणवेवरसुंदरी ॥ स्वरूपंचततःकन्या भोक्तव्यं-  
 साधकैः सह ॥ ६४ ॥ साधक उवाच ॥ ॥ मृत्युलोकेमहा-  
 कन्याराज्यंचविपुलंमम ॥ अश्वैर्गजरथश्चैवनानारत्नैःवसुंधरा ॥  
 ॥ ६५ ॥ मातृपितृतथाधातृचंद्रवदनीचकामिनी ॥ गर्भवासेन-

रमण करती और पाठ करती थीं ॥ ५७ ॥ शिवके भक्तोंको सम्मोहनार्थे कन्या  
 प्राप्त हुई, सिरपर दिव्य छत्र घंटा चामरसे शोभित थे ॥ ५८ ॥ जैसे चन्द्रमाकी  
 कान्ति दीप्त हो ऐसी कन्यार्थे साधकोंके पास आकर बोली हे महासिद्धो ! स्वा-  
 गतहो ॥ ५९ ॥ कन्या बोली हे साधक ! कौन भुवनसे आये और कहांको जाते  
 हो सो सब वृत्तान्त आद्योपान्त कहो ॥ ६० ॥ साधक बोले हे कन्याओ ! मेरा  
 वचन सुनो कहताहूं हम मृत्यु लोकसे आये हैं और शिवलोकको जाते हैं ॥ ६१ ॥  
 कन्या बोली हे सिद्धो ! हमारी इच्छासे यहां विपुल भोगोंको अनुभव करो, अब  
 तुमको सुन्दर अप्सरोएँ प्राप्त ई ॥ ६२ ॥ यह सब सुन्दरी तपस्विनी हैं और  
 आप तपस्वी हैं यह ब्रह्माके मुखसे उत्पन्न हुई हैं ॥ ६३ ॥ उपनिषदके वाक्य, यज्ञ  
 कर्म आहुतिदान ओंकार जपती हुई स्वरूपवर्ती कन्या भोगनी चाहिये ॥ ६४ ॥  
 साधक बोला मृत्युलोकमें बहुत कन्या तथा अधिक राज्य मेरे यहां है, घोड़े हाथी  
 रथ, तथा अनेक प्रकारके रत्न, व पृथ्वी ॥ ६५ ॥ माता, पिता, भृत्य, चन्द्र-

दुःखेनत्यक्त्वासंसारसागरात् ॥ ६६ ॥ कन्यका उवाच ॥ ॥  
 प्रसन्नोमेमहासिद्धाकिंकरिष्येत्रिलोचनः ॥ किमर्थवदतेसायोशं-  
 करस्यपुनःपुनः ॥ ६७ ॥ दिव्यवस्त्रपरीधानंदिव्यगंधानुलेपनम् ॥  
 भुक्त्वाचविपुलान्भोगाञ्जरामृत्युविवर्जिताः ॥ ६८ ॥ आचार्य  
 उवाच ॥ ॥ कैलासंप्रथमंदृष्ट्वा उमासार्धत्रिलोचनम् ॥ गर्भा-  
 वासविनिर्मुक्तौतस्यदेवेतिगच्छति ॥ ६९ ॥ चित्ररथ उवाच ॥ ॥  
 पूर्वमेवंप्रतिज्ञायांपवित्रंसाधकैःसह ॥ भुंजंतिविपुलान्भोगान्कि-  
 करिष्यतिशंकरः ॥ ७० ॥ अस्मिन्स्थानेमहाभोगान्क्रीडयंति-  
 मनेऽप्सितान् ॥ कोदेशःकःसुखंडश्चकोमंडलेकोग्रामयोः ॥ ७१ ॥  
 कस्थानेवसतेत्रुहिसाधकाश्चमहातपाः ॥ साधक उवाच ॥ ॥  
 पंचखंडदेशश्चैवमंडलग्रामयोयथा ॥ ७२ ॥ तथाभोमेनाटिका-  
 वसतव्यमममालये ॥ महाकल्पमहाशास्त्रमहापंथं ह्यनुत्तमम् ॥  
 ॥ ७३ ॥ तादृशंपटनाध्यानंत्यक्त्वासंसारसागरात् ॥ किमभूमं-  
 डलंराजाकिमित्त्वमत्र आगताः ॥ ७४ ॥ कन्यकासहितं राज्यं

वदनी कामिनी हैं इन सबको गर्भवासके दुःखके कारण संसार सागरसे त्यागा है  
 ॥ ६६ ॥ कन्या बोली है महासिद्धो ! प्रसन्न हुए शिव क्या करेंगे, हे साधो ! किस  
 लिये वारम्बार शिवर कहते हो ॥ ६७ ॥ दिव्य वस्त्र पहने दिव्यगंध लगाये जरा  
 मृत्यु वर्जित कन्याओं सहित भोगोंको भोगो ॥ ६८ ॥ आचार्य बोले प्रथम तो  
 कैलासम पार्वती सहित शिवका दर्शन करेंगे जिससे गर्भवासके दुःखको न देखें  
 ॥ ६९ ॥ चित्ररथ बोला प्रथम सम्पूर्ण साधनो सहित विपुल भोगोंको भोगो  
 शंकर क्या करेंगे ? ॥ ७० ॥ इस स्थानपर मनोभिलषित भोगों सहित क्रीडा  
 करो, हे साधको ! आपका कौन देश कौन खंड कौन मंडल कौन ग्राम है ॥ ७१ ॥  
 और कौन स्थानमें निवास है सो सब कहो, साधक बोले पंचखण्ड देशमें रहते  
 हैं ॥ ७२ ॥ जैसे इस नगरमें दीखती हैं उसी प्रकार सारी कन्या हमारे गृहमें नि-  
 वास करती हैं, महाकल्प महाशास्त्र है और महापंथ सर्वोत्तम है ॥ ७३ ॥ आप  
 संसारसागरको त्याग किस प्रकार चक्रवर्ती राजा हुए और कैसे यहांपर प्राप्त हुए  
 ७४ ॥ और कन्याओं सहित प्रतिष्ठाको प्राप्त हुए राज्य करते हो, चित्ररथ

श्रुतिष्टांकिविधिर्नृप ॥ चित्ररथ उवाच ॥ ॥ पृथिव्यां दक्षिणे  
 खंडदेशे कालिजेर तथा ॥ ७५ ॥ तत्राहंकृतवान् राज्यं नरनारी-  
 समदृशम् ॥ मया कृतं महापुण्यं मुनयोर्मठदेवलम् ॥ ७६ ॥  
 कर्तव्यं तपसा भक्तितन्मे सर्वस्य चिन्तये ॥ ध्यायंति शंकरानित्यं-  
 श्रुत्वा शास्त्रं शिवात्मकम् ॥ ७७ ॥ भावभक्तिसमायुक्ताः  
 पूजयंति शिवं परम् ॥ शिवभक्तिचसंसारे पण्मुखांतिष्ठते सदा ॥ ७८ ॥  
 अहंमतान भवस्यते महति न गम्यते ॥ यव नारिपे मया चात्र पुरुषै-  
 र्भद्र उच्यते ॥ ७९ ॥ वाञ्छितिशोभनं रूपं वासं मध्ये सुरांगनाः ॥  
 स्वप्रंचतादृशं दृष्ट्वा साधूनां च साधनम् ॥ ८० ॥ देवांगनामध्य-  
 राज्यं प्रतिष्ठां शिवशंकरम् ॥ सत्यं शान्तं क्षमायां च कन्यासर्वमनो-  
 रथा ॥ ८१ ॥ भुंजते साधका वीरा जरा मृत्युविवर्जिताः ॥  
 सत्यां शिल्पं लक्ष्मीश्च विज्ञानं यानस्य गामिभिः ॥ ८२ ॥ स्तुवंतेः  
 भर्वांसि धुंच मनवन्तास्तानि स्तथा ॥ नरो न वाञ्छिता भक्तिस्ते जो नास्ति-  
 च सुन्दरी ॥ ८३ ॥ विमानानितयोर्मध्ये एवं भक्तिसुरांगनाः ॥

बोला पृथ्वीके दक्षिण खंडमें माल राजदेशमें ॥ ७५ ॥ मैं श्री पुरुषों सहित  
 राज्य करता था, अपने पूर्वसंचित पुण्यसे मुनियोंके मठ देवालय बनाता ॥ ७६ ॥  
 भक्तिपूर्वक शिवके ध्यानमें तत्पर रहता सम्पूर्ण शिवात्मक शास्त्रोंकी पढता ॥  
 ७७ ॥ भाव भक्तिसमेत शंकरकी आराधनासे सदाही सन्मार्गमें स्थित रहता  
 था ॥ ७८ ॥ अभिमानसे रहित था महत्वपंत नहीं करता था, मैं महात्माओंमें  
 भेदभाव नहीं करता था ॥ ७९ ॥ एक समय मनमें देवांगनाओंकी वांछा की  
 और स्वप्न भी साधुओं सहित वैसाही दीक्षा ॥ ८० ॥ देवांगनाओंके मध्यमें शंकर-  
 का पूजन होरहा है, सत्य शांत क्षमायुक्त सब मनोहर कन्या हैं जागकर शिव-  
 जीकी कृपासे यह सब पाया ॥ ८१ ॥ हे साधक! वीरो यह सब जरा मृत्यु रहित  
 कन्या भोगनी चाहिये सत्य शील ज्ञान विज्ञानवान हैं ॥ ८२ ॥ यनवान इनके  
 निमित्त अनेक प्रार्थना करते हैं, मनुष्य भक्ति नहीं चाहते सुन्दरी चाहते हैं ॥ ८३ ॥  
 जौ विमानोंके मध्यमें देवताओंकी स्त्रियोंके यौवनवती हाथोंकी समान नीली-

तावत्संख्यावसायुष्ययावच्चंद्रार्कतारकाः ॥ ९३ ॥ क्रीडतिविवि-  
धाचेष्टामृत्युलोकैर्जतिच ॥ सर्वलक्षणसंयुक्तासर्वशास्त्रविशा-  
रदाः ॥ ९४ ॥ तेजस्वीचमहाप्राज्ञापूर्वजातिस्मरोभवेत् ॥  
नायक उवाच ॥ यदिपुनःमृत्युलोकैर्गंतव्यंचमहानृप ॥ ९५ ॥  
तदाकिराज्यभोगेनकैलासेत्रजाम्यहम् ॥ सर्वमेवंप्रतिज्ञायामाचा-  
र्यसाधकः सह ॥ ९६ ॥ एवंचसुन्दरीसर्वाजरामृत्युविवलिता ॥  
यदि न रुच्यतेसिद्धात्रजंतुव्यनशक्यते ॥ ९७ ॥ नानाचित्र-  
विचित्राणिपुष्पवस्त्रंचशोभितम् ॥ कन्याश्चैवततस्त्यक्ताउत्तराभि-  
सुखेगताः ॥ ९८ ॥

इति श्रीकैदारकल्पे विख्यातपुराणे श्रीश्वरकातिकेयसंवादे  
पंचयोगेन्द्रेच्छासिद्धिजीवन्मुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महापथे  
शिवदर्शने सदेहकैलासगमने गजचित्ररथपुरीवर्णनं  
नामैकत्रिंशः पटलः ॥ ३१ ॥

हैं ॥ ९३ ॥ जनेक प्रकारकी क्रीडा भोगोंको भोगकर फिर मृत्युलोकमें प्राप्त होते  
हैं, सब लक्षणोंसे युक्त सब शास्त्रमें निपुण ॥ ९४ ॥ तेजस्वी महाप्राज्ञ होतेहैं,  
फिर जातिका स्मरण होताहै. साधक बोले हममहानृप ! यदि फिरभी मृत्युलोकमें  
जानाहै ॥ ९५ ॥ तो ऐसे भोगोंसे क्या प्रयोजनहै, हम कैलासमें जातेहैं, इस  
प्रकार कहकर वचन सुन राजा बोले ॥ ९६ ॥ हे सिद्धो ! जरा मृत्यु वर्जित  
सुन्दरी यदि नहीं रुचती तो पर्येच्छित देशोंमें जाइये ॥ ९७ ॥ अनेक शोभासे  
भूषित पुष्प वस्त्रोंमें अलंकृत कन्याओंकी छोटी मायक फिर उत्तरकी  
ओरको चले ॥ ९८ ॥

इति श्रीकैदारकल्पे भाषाटीकाया चित्ररथपुरीवर्णना नामैकत्रिंशः पटलः ॥ ३१ ॥

### द्वात्रिंशः पटलः ।

श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ ॐ तदापर्यसमाहृष्टाःपश्यंतितत्रसाधकाः ॥

उत्तरश्चमहाभगेगंनव्यंयोजनत्रयम् ॥ १ ॥ तत्रस्थानेमहातीर्थं

श्रीशिवजी बोले हे महाभागे इस समय परंपर चढ़ेहुए साधक उत्तरकी ओर  
तीनयोजन आगे बटकर ॥ १ ॥ देखतेहैं कि, इस न्यानमें महातीर्थहै देवभूमि

रूपयौवनसदृशागजलीलाभिगामिनी ॥ ८४ ॥ जानुवाहुकद-  
 लीस्तंभऊरुस्थलंचमेखला ॥ डिंभंत्रिलालकिश्वेवगीततिनलि-  
 नीरसैः ॥ ८५ ॥ दृश्यंते उरस्यवंतीकनकस्थंभवासुकी ॥  
 कर्दलंशंचकामिन्यांहास्यंपुष्पप्रकाशितम् ॥ ८६ ॥ पाटपटी-  
 पृकुंकुंमेनकीरचंचितनासिकाः ॥ अशोकपल्लवौहस्तौविद्युतेजः-  
 समप्रभाम् ॥ ८७ ॥ प्रकाशंचन्द्रवदनाविम्बोष्ठीकोकिलास्वरी ॥  
 पद्मपत्रविशालाक्षीरूपयौवनगर्विताः ॥ ८८ ॥ उद्धृतंचैवतां-  
 बूलंगमनंहंसगामिनी ॥ मृगाक्षीचन्द्रवदनीअरावलीप्रवालकम् ॥  
 ॥ ८९ ॥ करकंकनसंयुक्ताःहारकेयूरभूषिताः ॥ तपस्विनी  
 महाश्रेष्ठामनोवेगामहासती ॥ ९० ॥ सर्वशास्त्रसमायुक्ताः  
 जरामृत्युविवर्जिता ॥ आगच्छंतिचतुर्दश्यांसर्वेभिक्षार्थकाक्षिणः ॥  
 ॥ ९१ ॥ साधक उवाच ॥ ॥ कियत्तद्भोगमायुष्यंपश्चात्तु-  
 किंभविष्यति ॥ तत्सर्ववदमेराजन्महातेजामहातपाः ॥ ९२ ॥  
 चित्ररथ उवाच ॥ ॥ स्वरूपचारुसंयुक्तं नानाभोगंचभुञ्जते ॥

गतिवाली ॥ ८४ ॥ जंघापर्यन्त लम्बायमान भुजा, केलेके खंभके समान जघा-  
 वाली मेखला धारण किये सुन्दर अलकों सहित मधुर गीतगान करती ॥ ८५ ॥  
 हृदयमें मुवर्णकी माला सर्पवत् विराजती कर्दल शंखकी समान कामिनी पुष्प-  
 खिलनेकी समान हास्य ॥ ८६ ॥ कुंकुमसे लिप्त हुई तोंतेकी समान रचित ना-  
 सिका, अशोकके पत्तोंके समान रक्त हाथ, विजलीकी समान कान्तिवाली ॥  
 ॥ ८७ ॥ चन्द्रमाके समान मुखवाली कन्दूरीके सदृश होंठ, कोयलकेसे वैन,  
 कमलकेतुल्य फेले नेत्र रूपयौवनमें भरी ॥ ८८ ॥ पान चाबे, हाथीके समान  
 चलतां, मृगकेसे नेत्र, चन्द्रवदनी, मृगकी माला धारे ॥ ८९ ॥ हायमें कंकण  
 पहने हार जानूवदोंसे भूषित, तपस्विनी अतिश्रेष्ठ महासती ॥ ९० ॥ सबशास्त्रों-  
 में निपुण जरामृत्यु वर्जित चतुर्दशको सब भिक्षाके कारण यहांपर आतीहैं ॥  
 ॥ ९१ ॥ साधक बोले यहां कितना भोग और आयु मिलतीहै पश्चात् क्या होता  
 है हेमहातप ! हेराजन् ! सो सब कहिये ॥ ९२ ॥ चित्ररथ बोला सुन्दर स्वरूप-  
 कन्या तथा अनेक भोग और आयु जबतक चंद्रमा तारेहैं तबतक प्राप्त होती

तावत्संख्यावसायुष्ययावच्चंद्रार्कतारकाः ॥ ९३ ॥ क्रीडन्तिविवि-  
धाचेष्टामृत्युलोकैर्नजन्ति च ॥ सर्वलक्षणसंयुक्तासर्वशास्त्रविशा-  
रदाः ॥ ९४ ॥ तेजस्वीचमहाप्राज्ञापूर्वजातिस्मरो भवेत् ॥  
साधक उवाच ॥ यदिपुनःमृत्युलोकैर्गन्तव्यंचमहानृप ॥ ९५ ॥  
तदाकिराज्यभोगेनकैलासेचत्रजाम्यहम् ॥ सर्वमेवंप्रतिज्ञायामाचा-  
र्यसाधकैः सह ॥ ९६ ॥ एवंचमुन्दरीसर्वाजरामृत्युविवर्जिता ॥  
यदि न रुच्यतेसिद्धात्रजन्तुव्यनशक्यते ॥ ९७ ॥ नानाचित्र-  
विचित्राणिपुष्पवस्त्रंचशोभितम् ॥ कन्याश्चैवततस्त्यक्ताउत्तराभि-  
मुखेगताः ॥ ९८ ॥

इति श्रीकेशरकल्पे विख्यातपुराणे श्रीश्वरकार्तिकेयसंवादे  
पंचयोगेन्द्रेच्छासिद्धिजीवन्मुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महापथे  
शिवदर्शने सदेहकैलासगमने राजचित्ररथपुरीवर्णनं  
नामैकात्रिंशः पटलः ॥ ३१ ॥

हैं ॥ ९३ ॥ अनेक प्रकारकी क्रीडा भोगोंको भोगकर फिर मृत्युलोकमें प्राप्त होते  
हैं, सब लक्षणोंसे युक्त सब शास्त्रमें निपुण ॥ ९४ ॥ तेजस्वी महाप्राज्ञ होतेहैं,  
फिर जातिका स्मरण होताहै, साधक बोले हेमहानृप ! यदि फिरभी मृत्युलोकमें  
जानाहै ॥ ९५ ॥ तो ऐसे भोगोंसे क्या प्रयोजनहै, हम कैलासको जातेहैं, इस  
प्रकार कहकर वचन सुन राजा बोले ॥ ९६ ॥ हे सिद्धो ! जरा मृत्यु वर्जित  
मुन्दरी यदि नहीं रुचती तो यथेच्छित देशोंको जाइये ॥ ९७ ॥ अनेक शोभासे  
भूषित पुष्प वस्त्रोंसे अलंकृत कन्याओंको छोड साधक फिर उत्तरकी  
ओरको चले ॥ ९८ ॥

इति श्रीकेशरकल्पे भापाटीकाया चित्ररथपुरीवर्णनो नामैकात्रिंशः पटलः ॥ ३१ ॥

## द्वात्रिंशः पटलः ।

श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ ॐ तदापथंसमारूढाःपश्यन्तितत्रसाधकाः ॥  
उत्तरश्चमहाभागेगन्तव्यंयोजनत्रयम् ॥ १ ॥ तत्रस्थानेमहातीर्थं

श्रीशिर्जी बोले हे महाभागे उस समय पथपर चढ़ेहुए साधक उत्तरकी ओर  
तीनयोजन आगे बढकर ॥ १ ॥ देखतेहैं कि, उस स्थानमें महातीर्थहै देवभूमि

देवरमणीयभूमिकाः ॥ मन्दाकिनीमहागंगाअतिरम्यामनोहरा ॥  
 ॥ २ ॥ लहरीतरंगगंभीरंफेनावर्तसमाकुलम् ॥ उभयोस्तटपार्श्वे-  
 तुसर्वलोकइदंउभा ॥ ३ ॥ तत्रहेममयाभूमौयत्रसावहतेनदी ॥  
 सुवर्णचेलुकास्तत्रपंकजाविपुलानिच ॥ ४ ॥ तस्यगंगामहातोय-  
 ममृतंचप्रवाहकम् ॥ घृतक्षीरमधुस्वादंअतिस्वादुसुशीतलम् ॥ ५ ॥  
 जलक्रीडाःप्रकुर्वतिदेवकन्याह्यनेकधा ॥ यौवनस्थामदोन्मत्ता-  
 मत्तमातंगगामिनी ॥ ६ ॥ सुरनदीतटेतीरेबहुपुष्पफलैस्तथा ॥  
 देवतावृक्षरूपेणवदंतिसाधकोत्तमम् ॥ ७ ॥ सुवर्णपक्षिकास्तत्र-  
 नदीपापप्रणाशिनी ॥ ८ ॥ वृक्ष उवाच ॥ ॥साधुसाधुमहाप्राज्ञा-  
 पुनःसाधोमहातपाः ॥ एवंचवदतेवृक्षाबुद्धिदद्यात्तुसाधकाः ॥ ९ ॥  
 इमामंदाकिनीपुण्यंपूजयित्वामहेश्वरम् ॥ अष्टोत्तरशतमंत्रमघोरं-  
 जपतेमहान् ॥ १० ॥ ॐ हुँफट्स्वाहा ॥ जपितातस्यमंत्रेण-  
 श्रूयतेशंखयोर्ध्वनिः ॥ सन्मुखंपश्यतेस्तत्रदृश्यतेपंथनिर्मलम् ॥  
 ॥ ११ ॥ अत्रैरवंचपश्यंतिईशानीदिशिसन्मुखैः ॥ अघोरंच-  
 महामंत्रंमहापातकर्नाशनम् ॥ १२ ॥ महाविघ्नहरेत्रित्यंमहासिद्धि-

अतिरमणीकहै, मन्दाकिनी महागंगा अतिमनोहरहै ॥ २ ॥ जिसकी लहरें तरंग  
 अतिगंभीरहैं, फेनवालीहैं, उस नदीके दोनों किनारोंपर दाडिम वृक्ष लहलहातेहैं ॥  
 ॥ ३ ॥ वहां सुवर्णकी भूमि थी जहाँपर वह नदी बहतीथी सुवर्णके वृक्ष व कमल  
 लगेथे ॥ ४ ॥ उस गंगाका सुन्दर जल अमृतके समान प्रवाहित था, धी दूध शहद  
 की समान स्वादिष्ट शीतल जल है ॥ ५ ॥ देवकन्यायें जलमें अनेकप्रकारकी  
 क्रीडा करतीहैं जो यौवनमें भरी मदसं पूर्ण मदवाले हाथीकी समान गमन शील  
 हैं ॥ ६ ॥ उस देवनदीके किनारे अनेकप्रकारके फूल फल खिलेंथे और देवता  
 वृक्षके रूपोंमें उन साधकोंसे बोलतेथे ॥ ७ ॥ सुवर्णके पक्षीथे नदी पारोंकी  
 नाशक थी ॥ ८ ॥ वृक्षबोला हे साधो ! हेमहातप ! महाप्राज्ञ ! इसप्रकार थे वृक्ष  
 बोलतेथे ॥ ९ ॥ सिद्धोंने-उस पवित्र मंदाकिनी नदीके तटपर महेश्वरका पूजन  
 करके एकसी आठवार अघोरमंत्र जपा ॥ १० ॥ ॐ हुँ फट् स्वाहा इस मंत्रको  
 जपकर शंखध्वनि सुनी, और सन्मुख निर्मल पंथ देखा ॥ ११ ॥ आगे ईशानकी  
 ओर चले उस अघोर मंत्रके जपनेसे महापातक नष्ट हुए ॥ १२ ॥ नित्य घंटे २



प्रदायकम् ॥ स्मृत्वातेनमंत्रेणपंथंतिष्ठंतितक्षणात् ॥ १३ ॥  
 व्रजंतितेनमार्गेणवेगेनपवनोयथा ॥ आश्रमंदृश्यतेतत्रध्वजा-  
 मालाकुलैर्महत् ॥ १४ ॥ पश्यंतिसाधकाःसर्वेत्रिपथोतत्रदृश्यते  
 संप्राप्तसाधकास्तत्रक्षणमेकंपततिच ॥ १५ ॥ ततःपश्यंति  
 मार्गेणईशानंचदिशोदिशम् ॥ सन्मुखंतत्रपश्यंतिकैलासंनामपर्व-  
 तम् ॥ १६ ॥ शंकरस्यप्रियोनित्यंसर्वदेवल्यंकृतम् ॥ श्वेतवर्णं  
 गिरिशृंगेसंधिभेदविवाजितैः ॥ १७ ॥ अध ऊर्द्धमंडलाकारमध्य  
 स्थूलोमहागिरिः ॥ मृदंगाकृतिरूपेणदृश्यतेपर्वतोत्तमम् ॥  
 ॥ १८ ॥ अशीतिशतसहस्राणिरत्तुंगोयोजनमहान् ॥ त्रिंश-  
 शतसहस्राणिअध ऊर्द्धप्रकीर्तितम् ॥ १९ ॥ पर्वतेचमहारम्ये  
 सूर्यकोटिसमप्रभा ॥ गृहाणिचसर्तांतत्रसहस्रंयोजनानिच ॥२०॥  
 नामधारणदृश्यंतेनानारत्नविभूषितम् ॥ श्वेतपीतंतथारक्तंश्याम-  
 वर्णंतथैवच ॥ २१ ॥ पंचवर्णपताकाचदृश्यतेपवनैरिता ॥  
 क्षणैःक्षणैवतिष्ठंतिदीपमालाविभूषितम् ॥ २२ ॥ स्तंभेहमम-

वित्रोके नाशक परम सिद्धिके दायक उस मंत्रके जपनेसे तक्षण सब मार्ग-  
 स्मरण हुआ ॥ १३ ॥ उस मार्गद्वारा पवनके समान चले और आगे ध्वजामाला-  
 ओंसे सुशोभित स्थान देखा ॥ १४ ॥ सब साधकोंन वहां त्रिपथ ( तिराहा )देखा  
 और वहां क्षणमात्रको बैठे ॥ १५ ॥ तब ईशानकी ओर दृष्टि दी तो सामने कै-  
 लासनामक पर्वत दीप्य पडा ॥ १६ ॥ जो शिवका प्रिय और निवासस्थान है  
 स्वच्छ श्वेतवर्ण जिसके शिखर संधिभेद रहितहैं ॥ १७ ॥ नीचे ऊपर मंडलाकार  
 तथा बीचमें स्थूलपर्वतहै ऐसा मृदंगकी समान आकारवाला दीखा ॥ १८ ॥  
 जस्सी सहस्र योजन ऊंचा तथा तीससहस्र योजन नीचे ऊपरका घेरा था ॥  
 ॥ १९ ॥ परमरमणीक पर्वतपर कोटिसूर्यको समान कान्तिथी और वहां सहस्र  
 योजनमें महात्माओंके घर बनेथे ॥ २० ॥ नामोंसे अंकित नानारत्नोंसे शोभित  
 श्वेत पीतरक्त तथा श्यामवर्ण ॥ २१ ॥ पाँचवर्णकी पताका पवनसे उड़तीहुई दीप्य  
 पडा क्षण २ में दीपमालाके समान शोभा होतीथी ॥ २२ ॥ मुखर्णके स्तंभ चन्द्र-

यासर्वचन्द्रकान्तिसमप्रभा ॥ कर्मधर्मसमायुक्तस्फुरंतिकिरणा-  
 न्वितम् ॥ २३ ॥ सुवर्णकेतकीजातितथाजायीचपाडली ॥  
 सुवर्णचंपिकास्तत्रपंकजाविपुलानिच ॥ २४ ॥ पंचपुष्पमहा-  
 मालावेष्टितंधवलगृहम् ॥ इन्द्रनीलमहानीलैध्वजमालाचवेष्टि-  
 तम् ॥ २५ ॥ यथारुद्रसमर्थस्यतथासर्वचमन्दिरम् ॥ गृहे  
 तस्मिंस्थिताकन्यादिव्याभरणभूषिता ॥ २६ ॥ त्रिनेत्रं दश-  
 भुज्यांचन्द्रार्द्धकृतशेखरम् ॥ गणगंधर्वदेवस्यसर्वशास्त्रविशा-  
 रदाः ॥ २७ ॥ मुनयःसहितादेवागंधर्वासुरपन्नगाः ॥ दश-  
 बाहुंत्रिनेत्रंचत्रिशूलंकरपल्लवैः ॥ २८ ॥ अजराअमरावृत्तां  
 कैलासस्यमहद्वलम् ॥ अतिकौतूहलस्तत्रतस्यवासोनवि-  
 द्यते ॥ २९ ॥ संप्राप्तासाधकास्तत्रकैलासस्यसमीपथे ॥ दृष्ट्वा  
 सुतद्रूपंचैवसाधकाविस्मयंगताः ॥ ३० ॥ यावद्गोदोहमात्रेण  
 मूर्च्छागच्छंतिसाधकाः ॥ आचार्यचेतितास्तत्रस्मरंतिचमहेश्वरम्  
 ॥ ३१ ॥ शिवस्मरणमात्रेणदृश्यतेपंथनिर्मलम् ॥ पुनश्चैवततो  
 चार्यअघोरमक्षरंजपेत् ॥ ३२ ॥ अघोरंचमहामंत्रंसर्वविघ्नक्षयं

माके समान कान्तियुक्तथे, धर्मकर्म सहित किरणोंसहित प्रकाशित होतेथे ॥ २३ ॥  
 सुवर्णकी केतकी जायी पाडली चंपिका अनेक कमल ॥ २४ ॥ पंचपुष्पोंकी मा-  
 लासे स्वच्छगृह वेष्टित थे, इन्द्र नील महानील मणियोंसे ध्वजा माला आदिसे  
 व्याप्त थे ॥ २५ ॥ जैसे रुद्रके मंदिरथे उसीप्रकार सबके मंदिरथे, उनमें सब  
 आभूषणोंसे भूषित कन्या विराजमान थीं ॥ २६ ॥ तीन नेत्र दस भुजा आधे  
 चन्द्रमाको मस्तकपर धारणकिये गणगन्धर्व देवता सम्पूर्ण शास्त्रोंमें पारंगत ॥  
 ॥ २७ ॥ मुनिसहित देवता, गन्धर्व, सुर, सर्प, दसभुजा तीननेत्र हाथोंमें त्रिशूल  
 धारे ॥ २८ ॥ अजर अमररूप फिरतेथे, इसप्रकार कैलास पर्वतका बल था अति  
 कौतूहलसे सब वहां निवास करतेथे ॥ २९ ॥ साधक कैलासके समीपमें गये  
 और उसका स्वरूप देखकर आश्चर्यको प्राप्त हुए ॥ ३० ॥ गोदोहनकालतक  
 साधक मूर्च्छाको प्राप्तहुए, और महेश्वरका स्मरण किया ॥ ३१ ॥ शिवके स्मरण  
 करतेही पंथ निर्मल दीखपडा, फिर आचार्योंने अघोरमंत्रको जपा ॥ ३२ ॥  
 अघोर महामंत्र समस्त विघ्नोंका नाशकहै विधिपूर्वक अष्टोत्तर शतजाप

करम् ॥ अष्टोत्तरशतंतत्रजाप्यंकृत्वायथाविधि ॥ ३३ ॥  
 ॐ हुं फट् स्वाहा ॥ अधोरंचमहामंत्रं दुर्लभं देवदानवम् ॥ दुर्लभं  
 गणगंधर्वदुर्लभं मुनिपन्नगैः ॥ ३४ ॥ दुर्लभं तत्पदं सर्वदुर्लभ्यमितरै-  
 र्जनैः ॥ सिद्धमंत्रमहामंत्रमहापंथप्रदायकम् ॥ ३५ ॥ येन मंत्र-  
 प्रभावेण सदेहं शंकरालये ॥ मोहितादेवदेवेन संप्राप्ता च त्रिपंथकम्  
 ॥ ३६ ॥ जपिता सिद्धमंत्रेण भुवंपश्यंति ते गिरिम् ॥ जयशब्दं प्रकु-  
 र्वन्ति साधका वदते ध्रुवम् ॥ ३७ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे विख्यातपुराणे श्रीश्वरकार्तिकेयसंवादे  
 पंचयोगेन्द्रेच्छासिद्धिजीवन्मुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महापथे शि-  
 वदर्शने सदेहकैलासगमने त्रिपंथदर्शनो नाम  
 द्वात्रिंशः पटलः ॥ ३२ ॥

क्रिया ॥ ३३ ॥ ॐ हुं फट् स्वाहा अधोरमंत्र देवता तथा दैत्योको परमदुर्लभहे ॥ ३४ ॥  
 परम सिद्धि महापंथका देने हाराहे ॥ ३५ ॥ जिस मंत्रके प्रभावसे साधकगण देह-  
 सहित शिवलोकमें प्राप्त हुए ॥ ३६ ॥ उस सिद्धमंत्रको जपकर पर्वतकी भूमिको  
 देखा, और सबसाधकोंने जय २ ध्वनि उच्चारण की ॥ ३७ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे भाषाटीकाया त्रिपथदर्शनो नाम द्वात्रिंशः पटलः ॥ ३२ ॥

### त्रयस्त्रिंशः पटलः ।

श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ पृच्छंति साधकाः सर्वे ह्याचार्यकथयस्व मे ॥  
 कुतश्चैव तु गंतव्यं पंथं चैव पृथक्पृथक् ॥ १ ॥ आचार्य उवाच ॥  
 ब्रह्माणंशंकरं चैव विष्णुलोकैयथोत्तमम् ॥ दृष्ट्वा तथैवेशानस्य त्रयो  
 मार्गाः प्रकीर्तिताः ॥ २ ॥ साधक उवाच ॥ ब्रह्मलोकैचये

शिवजी बोले तब सम्पूर्णसाधक कहने लगे हे आचार्य ! सबमार्ग पृथक् २  
 जाते हैं किस ओर जाय सो कहिये ? ॥ १ ॥ आचार्य बोले यह ईशानजी ओरके  
 तीनों मार्ग ब्रह्मलोक विष्णुलोक तथा शिवलोक हैं ॥ २ ॥ साधक बोले हे

भोगाआचार्यकथयस्वमे ॥ विष्णुलोकेचयेभोगाःकथनीयंत्वया  
 प्रभो ॥ ३ ॥ रुद्रलोकेचयेभोगाममात्रेकथितंत्वया ॥ ब्रह्मलो-  
 केचयेभोगारूपवन्तः प्रयत्नतः ॥ ४ ॥ कथयामिविशेषेण  
 कथयामिकथाःशृणु ॥ विष्णुलोकेचयेभोगाकथयामिप्रयत्नतः॥  
 ॥ ५ ॥ रुद्रलोकेचयेभोगाकथयायिकथामिमाम् ॥ विस्तारं  
 कुरुताचार्यसाधकं वचनं वदेत् ॥ ६ ॥ आचार्य उवाच ॥ ॥  
 ब्रह्मलोकेविष्णुलोकेशिवलोकेविशेषतः ॥ त्रिपुलोकेपुयेभोगाः  
 कथयामिशृणुतत्त्वतः ॥ ७ ॥ ब्रह्मणासदृशंरूपंमुकुटकुंडलभूष-  
 णम् ॥ ८ ॥ चतुर्वक्त्रं चतुर्बाहुं ब्रह्मणीसदृशीस्त्रियः ॥ अप्स-  
 राणांतुल्यैकं विमानारूढकामिनी ॥ ९ ॥ चतुर्वक्त्रैश्चतुर्वेदानु-  
 चरंचमुहुर्मुहुः ॥ अष्टादशपुराणानिनवव्याकरणानि च ॥ १० ॥  
 रत्नमालापुष्पमालाशिखाकंठप्रशोभिता ॥ श्वेतं पीतं तथा कृष्णं-  
 नीलं रक्तं ज्वलंति च ॥ ११ ॥ शिरोमणिसुन्दरेण कनकसूत्रेण-  
 कुण्डलाः ॥ सर्वागुणसमोपेताः वर्जन्ते ह्यजरामराः ॥ १२ ॥ भंगेन-  
 चन्द्ररेखस्य तपंति प्रचरंति च ॥ उद्गालयंति तां वृलं रूपयौवनगर्विताः ॥

आचार्य ! ब्रह्मलोकमें जो भोगहैं सो कहो और विष्णुलोकके भोगोंको बताओ ॥  
 ॥ ३ ॥ और शिवलोकमें जो भोगहैं उनको मेरे साधने वर्णन करो ॥ ४ ॥ आ-  
 चार्यने कहा मैं कथाको कहताहूँ सुनो विष्णुलोकमें जो भोगहैं उनको कहूंगा ॥  
 ॥ ५ ॥ और जो शिवलोकमें भोगहैं सोभो कहताहूँ विस्तारपूर्वक ऐसा साधकों-  
 से आचार्यने कहा ॥ ६ ॥ आचार्यबोला शिवलोक ब्रह्मलोकमें जो २ कुल भोगहैं  
 सो सब कहताहूँ ॥ ७ ॥ ब्रह्मलोकमें ब्रह्माके समान रूप मनोहर कुंडल धारण  
 किये ॥ ८ ॥ चार मुख, आठभुजाके मनुष्य तथा ब्रह्मणोंके सदृश स्त्रियाँहैं,  
 तथा एक लक्ष अप्सरा विमानोंपर चढ़ी हुई कामिनी हैं ॥ ९ ॥ चारों मुखोंसे  
 चारों वेद चारम्बार उच्चारण करती हैं और अठारहपुराण व्याकरण ॥ १० ॥  
 और रत्नोंकी माला फूलोंकी माला शिखा व कंठमें शोभित होरहीहैं, श्वेत, पीली,  
 कृष्ण नील लाल वरुणकी कान्तिवाली ॥ ११ ॥ शिरोमणि तथा कुंडल मुखर्ण-  
 सूत्रोंसे बंधे शोभा देरहेहैं सब गुणोंसे पूर्ण अजर अमर उपस्थितहैं ॥ १२ ॥  
 भोग सहित माथेपर चन्द्ररेखा धारे तप करतीं ताम्बूल चावे रूपयौवनसे गर्वित

॥ १३ ॥ हिंडोलयंतिताःकन्यासुताश्चचतुराननाः ॥ तासांदर्शन-  
 देहस्यदिव्यकांतिसमप्रभाः ॥ १४ ॥ शतयोजनाविस्तीर्णमुत्तुं-  
 गोचचतुगुणम् ॥ इन्द्रनीलमहानीलैःपद्मरागोपशोभितम् ॥ १५ ॥  
 ब्रह्मलोकेचयेभोगाब्रह्मणःसममायुपम् ॥ कस्मिन्कालेचसंप्राप्ते-  
 मृत्युलोकेत्रजंतिच ॥ १६ ॥ सर्वकामसमृद्धश्चजायतेविपुलेकुले ॥  
 सर्वगुणैःसमोपेतोराजाप्यथभविष्यति ॥ १७ ॥ चक्रवर्तीभवेद्राजा-  
 जातोजातिस्मरोभवेत् ॥ स्मरंतिपूर्वकमणिस्मरंतिचमहापथम् ॥  
 ॥ १८ ॥ पुत्रपौत्रसमायुक्तंवामावर्त्तिसुलक्षणी ॥ एवंभोगंमहा-  
 भोगान्ब्रह्मलोकेव्यवस्थिताः ॥ १९ ॥ तिष्ठंतिसाधकाःसर्वेयाव-  
 देवोप्रजापतिः ॥ स्मरंतिपूर्वचरितंस्मरंतिचमहापथम् ॥ २० ॥  
 उत्तमेचकुलेजन्मब्रह्मलोकेपुनर्जयेत् ॥ ब्रह्मलोकेपदेच्छंतेगंतव्यं-  
 पथदक्षिणे ॥ २१ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे विख्यातपुराणे श्रीश्वरकार्तिकेयसंवादे-  
 पंचयोगेन्द्रेच्छ्यासिद्धिजीवन्मुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महापथे  
 शिवदर्शने सदेहकैलासगमने ब्रह्मलोकवर्णनो  
 नाम त्रिंशः पटलः ॥ ३३ ॥

॥ १३ ॥ कन्या हिण्डोलोंपर झूलती तथा ब्रह्माकी पुत्री विहार करतीहैं देखनेमें  
 दिव्यदेह सुन्दर शोभावाली हैं ॥ १४ ॥ वह लोक सी योजन चौडा तथा चौ-  
 गुनालांघाहै, इन्द्रनील महानील पद्मराग मणियोंसे शोभितहै ॥ १५ ॥ ब्रह्मलोक-  
 के यह भोगहैं कि ब्रह्माके समान आयु होतीहै, किसीसमयमें मृत्युलोकको प्राप्त  
 होतेहैं ॥ १६ ॥ सम्पूर्ण कामोंमें सम्पन्न धनवान् श्रेष्ठकुलमें जन्म होता है. सब  
 गुणोंसे युक्त ॥ १७ ॥ चक्रवर्ती राज्य करताहै, पश्चात् जातिका स्मरण होताहै,  
 और पूर्वकर्मको तथा महापथको भी स्मरण करतेहैं ॥ १८ ॥ पुत्र पौत्र सहित  
 लक्षों स्त्रियां होतीहैं इसप्रकारके भोग ब्रह्मलोकमें विद्यमानहै ॥ १९ ॥ और सब  
 साधक तबतक स्थित रहतेहैं, जबतक ब्रह्मा रहते हैं, तथा पूर्वचरित्र और महापं-  
 थका स्मरण होताहै ॥ २० ॥ उत्तम कुलमें जन्म तथा चार २ ब्रह्मलोकमें जाते  
 ह, ब्रह्मलोकके मार्गको इच्छावाले दक्षिणमार्गसे जातेहैं ॥ २१ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे भाषाटीकाया ब्रह्मलोकवर्णनो नाम त्रयत्रिंशः पटलः ॥ ३३ ॥

## चतुस्त्रिंशः पटलः ।

श्रीसाधक उवाच ॥ ॥ ॐ ब्रह्मलोकेनमेकार्यसत्यंसत्यंवदा-  
 म्यहम् ॥ विष्णुलोकेषुयेभोगाकथयस्वमहागुरो ॥ १ ॥ आ-  
 चार्य उवाच ॥ ॥ विष्णुलोकेषुयेभोगाकथयामितवशृणु ॥  
 शंखचक्रगदापद्मशारङ्गायुधमुत्तमम् ॥ २ ॥ चतुर्बाहुंमहात्मा-  
 नंश्यामवर्णमहाद्युतिम् ॥ विजयंतिसुराःसर्वैयत्रदेवोजनार्दनः  
 ॥ ३ ॥ दशलक्षंचविस्तीर्णमुच्छ्रायोदशयोजनम् ॥ विमानं-  
 कामिनीदिव्यंपद्मरागोपशोभितम् ॥ ४ ॥ द्र्यंलक्षंसहस्रा-  
 णिकन्यासर्वाचतुर्भुजी ॥ यौवनस्तामदोन्मत्तागतिहंसग-  
 जोगतिः ॥ ५ ॥ लक्ष्मीचसदृशासर्वासर्वाभरणभूषिताः ॥  
 विष्णुलोकेमहावीराःक्रीडयन्तिमहातपाः ॥ ६ ॥ गतारूढासुखा-  
 सीनारथारूढामहाबलाः ॥ शंखचक्रगदाहस्तंयथाआयुधकेश-  
 वम् ॥ ७ ॥ विष्णुलोकेषुयेयांतिविष्णुतुल्यमहायुपम् ॥ कस्मि-  
 न्कालेचसंप्राप्तेमृत्युलोकेव्रजांतिच ॥ ८ ॥ चक्रवर्तीभवेद्राजा-

साधक बोले ब्रह्मलोकमें हमारा कार्य नहीं विष्णुलोकके भोगोंको वर्णन करो  
 ॥ १ ॥ आचार्य बोले, हे साधक ! विष्णुलोकमें जो भोगहैं उनको कहताहूँ सुनो  
 वहां शंख, चक्र, गदा, पद्म, शार्ङ्गआयुध धारण करतेहैं ॥ २ ॥ चार-भुजावाले  
 महात्मा श्यामवर्ण अतिकान्तिमान सम्पूर्ण देवता आनन्द करतेहैं जहां जनार्दन  
 देव ( विष्णु ) विद्यमानहैं ॥ ३ ॥ यह लोक दस लक्ष योजन चौड़ा तथा दस लाख  
 योजन लंबाहै, दिव्यविमान तथा पद्मरागमणियोंसे शोभायमानहै ॥ ४ ॥ दो  
 सहस्र लक्ष कन्या चतुर्भुज यौवनसे भरी मदमें उन्मत्त हंस व हार्याकी समान  
 गमन शील ॥ ५ ॥ लक्ष्मीकी समान सब आभूषणोंसे भूषितहैं इसप्रकार विष्णु-  
 लोकमें क्रीडा करतेहैं ॥ ६ ॥ गजपर तथा सुस्रपूर्वक रथपर चढ़ी शंख, चक्र, गदा,  
 पद्म हाथमें धार हैं ॥ ७ ॥ जो विष्णुलोकमें जाते हैं उनको विष्णुलोकके  
 समान आयु मिलती है, और किसी समयही मृत्यु लोकको प्राप्त होते हैं ॥  
 ८ ॥ चक्रवर्ती राजा होकर पश्चात् जातिकी स्मरण होता है, पुत्र पीत

जातो जातिस्मरो भवेत् ॥ पुत्रपौत्रसमायुक्तं धनधान्यसमाकुलम् ॥  
 ॥ ९ ॥ कामवंतो ते जवंतो जायंते विपुले कुले ॥ दीर्घायुर्विपुलान्  
 भोगान् महाबलपराक्रमम् ॥ १० ॥ दूरे च तिष्ठते सैन्यमश्वनाग-  
 ह्यनेकधा ॥ सप्तजन्मभवेद्राजा ह्यजितो नात्र संशयः ॥ ११ ॥  
 नारीचलभते पुत्रं पूर्णचन्द्रप्रभाननम् ॥ एतानि महासेनानीसत्यं-  
 सत्यं वदाम्यहम् ॥ १२ ॥ एतानि च भवेत्तस्य पुरीविष्णुगते सती ॥  
 विष्णुलोके न मे कार्यमेवं वदंति साधकाः ॥ १३ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे विख्यातपुराणे श्रीश्वरकार्तिकेय संवादे  
 पंचयोगेन्द्रेच्छासिद्धिजीवनमुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महापथे  
 शिवदर्शने सदेहकैलासगमने विष्णुलोकवर्णनो  
 नाम चतुस्त्रिंशः पटलः ॥ ३४ ॥

धन धान्य समेत ॥ ९ ॥ कामयुक्त तथा तजस्वी हो विपुल कुलमे  
 टत्पुत्र हो, बडा आयुके अधिक भोग बल पराक्रमी होते है ॥ १० ॥  
 उनके द्वारपर बडी सेना, घोडा, हाथी, अनेक निवास करते है वे सात  
 जन्मतक राजा होते है, इसमे कुछ संशय नहीं ॥ ११ ॥ चन्द्रमाके समान  
 स्त्रियां व पुत्र प्राप्त होते हैं यह विष्णुलोकके भोग कहे है ॥ १२ ॥ विष्णु-  
 पुरीमे जानेसे इतने भोग मिलते है, यह सुन साधक बोले विष्णुलोकसे हमारा  
 कुछ कार्य नहीं है ॥ १३ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे भाषाटीकाया विष्णुलोकवर्णनो नाम चतुस्त्रिंशः पटलः ॥ ३४ ॥

### पंचत्रिंशः पटलः ।

साधक उवाच ॥ ॥ ॐ विष्णुलोके महाभोगाममभोगानरुच्य-  
 ते ॥ शिवलोके च ये भोगा आचार्यकथयस्व मे ॥ १ ॥ ॥ आचार्य

साधक बोले । विष्णुलोकके महाभोग हमको नहीं रुचते अब हे आचार्य !  
 शिवलोकके भोगोंको कहां ॥ १ ॥ आचार्य बोले, हे सिद्धो ! यह हमसे कह-

उवाच ॥ एतत्तेकथितंसिद्धरुद्रलोकमतःपरम् ॥ शिवलोकेपुये-  
 भोगान्कथयामिसततंशृणु ॥ २ ॥ त्रिनेत्रंदशभुजंचैवचंद्रार्ध-  
 कृतशेखरम् ॥ विमानंकामिकादिव्यंचन्द्रादित्यसमप्रभम् ॥ ३ ॥  
 त्रिगूलंवरदंहस्तंगणगंधर्वसेवितम् ॥ कैलासपीठमध्यस्थंचत्र-  
 देवोमहेश्वरः ॥ ४ ॥ यावद्रूपमहाकायायावत्सुरगणकोटयः ॥  
 उमाशिवाग्नेक्रीडंतिह्यमराः सुखसमन्विताः ॥ ५ ॥ रमाकोटिस-  
 हस्राणिहारकेयूरभूषिताः ॥ सर्वशृंगारशोभाढयानूपुरारावलंकृताः ॥  
 ॥ ६ ॥ अक्षयंयौवनासर्वाऽमयासदृशोपमम् ॥ दिव्यवस्त्रपरी-  
 धानंमहाभोगपरिच्छदाः ॥ ७ ॥ सर्वभोगसमायुक्ताःक्रीडंति  
 शिवसन्निधौ ॥ यावत्तिष्ठतिमेदिन्यांयावन्माक्षरिसागरे ॥ ८ ॥  
 ध्रुवोहिनिश्चलोयावद्यावत्स्वर्गोत्रिलोचनः ॥ चन्द्राङ्गैर्गगने  
 यावद्बहनक्षत्रसंयुतैः ॥ ९ ॥ यावद्धिनिश्चलोमेरुर्यावल्लोकत्रय-  
 स्थितिः ॥ तावत्तिष्ठंतितेसर्वेयावदेवोमहेश्वरः ॥ १० ॥ इच्छा-  
 कालेतुसंप्राप्तेमृत्युलोकेत्रजंति च ॥ सर्वकामसमृद्धाश्चजायंतेविपु-

दिया अब शिवलोकमें जो भोग है उनको वर्णन करता हूँ ध्यान देकर सुनो ॥  
 ॥ २ ॥ तीननेत्र, दसभुजा, माथेपर आग चन्द्रमा धारे, दिय विमानोपर  
 सुन्दर कामिनी जो चन्द्रमा वा सूर्यके समान पान्तिवाली विराजती है ॥ ३ ॥  
 त्रिगुल हाथमें लिये गण गन्धर्वोंसे सेवित कैलासपर सिंहासनमें विराजमान  
 जहाँपर महेश्वर देव है ॥ ४ ॥ जबतक अनेक फोटि देयता है, तबतक रूपवाले  
 महाभाग पार्वती शिवके आंग अक्षय सुखपर्षक अमर हो ऋद्धि करते है ॥ ५ ॥  
 सहस्रो फोटि अप्सरांण हार वानूद आदिसे भूषित नूपुर ( पायजेव ) पहने  
 सम्पूर्ण शृंगारकी शोभासे युक्त ॥ ६ ॥ अक्षय यावभवती पार्वतीके सहस्र दिव्य  
 पत्र धारण किये महाभोग सहित ॥ ७ ॥ शिवके समीप ऋद्धि करती है, जव-  
 नव पृथ्वी तथा समुद्रमें जल रहता है ॥ ८ ॥ जबतक ध्रुव निश्चल है, जबतक  
 स्वर्गमें शिव है, जबतक आकाशमें चंद्रमा व सूर्य है ग्रह नक्षत्र सहित है ॥ ९ ॥  
 जबतक पवन निश्चल है अक्षय देयता सिद्ध महेश्वर ये जबतक है ये जबतक  
 रहते हैं ॥ १० ॥ इच्छा होनेपर मृत्युलोकमें जाते है, तथा सब कामना-



लेकुले ॥ ११ ॥ सर्वैर्गुणैःसमोपेताराजानोपिभवन्तिवै ॥  
 पुत्रपौत्रसमायुक्तंवनधान्यसमाकुलम् ॥ १२ ॥ द्दारेचतिष्ठते  
 सैन्याःगजैरश्वैरनेकधा ॥ ज्ञानयुक्तः तेजयुक्तः चक्रवर्तिमहानृपः  
 ॥ १३ ॥ सर्वसौभाग्यसंयुक्ताभुजंतिविपुलांश्रियम् ॥ दीर्घायु-  
 विपुलान्भोगान्पुनस्तेस्वर्गगामिनः ॥ १४ ॥ अजराश्वमहा  
 प्राज्ञापूर्णचन्द्रमुखास्त्रियः ॥ कैलासपीठमध्यस्तुयत्रदेवोमहेश्वरः  
 ॥ १५ ॥ सुवर्णगोपुराद्दालैर्मणिप्रकारवेष्टितम् ॥ इन्द्रनील-  
 महानीलैःपद्मरागोपशोभितम् ॥ १६ ॥ तत्रस्थानेमहासेनदेवा-  
 नांचमहावलम् ॥ ध्वजमालाकुलंदिव्यंदृश्यतेशिखरोपमम् ॥  
 ॥ १७ ॥ निवासं देवताःसर्वेसुरेन्द्रस्यचकोटिभिः ॥ शिवस्थाने  
 महासेनशोभितंपुरमुत्तमम् ॥ १८ ॥ निशिवह्निर्यथातेजो  
 दृश्यतेचदिशोदश ॥ तथाचन्द्रस्यतेजेनद्वाप्रितेजःसमप्रभाः ॥  
 ॥ १९ ॥ नृत्यंतिअप्सरासर्वारंभाद्याअष्टनायिकाः ॥ नित्यो-  
 त्सवसमाकीर्णंदृश्यतेचपुरेसदा ॥ २० ॥ वाटिकाःकांचना-

ओं सहित श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न होते हैं ॥ ११ ॥ सब गुणआगर राजा होते हैं,  
 पुत्र पौत्र धन धान्यसे पूर्ण ॥ १२ ॥ द्वारपर सेना उपस्थित होती है, तथा अनेक  
 घोड़े हाथी रथ आदि होते हैं, ज्ञानी, तेजस्वी, चक्रवर्ती, राज्य करता है ॥ १३ ॥  
 सब सुखपूर्वक विपुल भोगोंको भोगता है, बड़ी अवस्थासे आनन्दको अनुभव  
 करके फिर स्वर्गको जाता है ॥ १४ ॥ वहां अजर अमर हों चन्द्रमुखी स्त्रियों  
 समेत कैलासपर्वतपर विराजमान होते हैं, जहां कि महेश्वर हैं ॥ १५ ॥ सुवर्ण  
 गोपुर मणि आदि प्रकारसे व्याप्त इन्द्रनील महानील पद्मराग मणियोंसे शो-  
 भित ॥ १६ ॥ और उस स्थानमें देवताओंकी समान बड़ी सेनाहोती है, ध्वजा  
 मालाओंसे शोभित जो शिखर दीखता है ॥ १७ ॥ वहां सुरेन्द्र सहित अनेक  
 देवता निवास करते हैं, शिवके स्थानमें सुन्दर नगर शोभा देते हैं ॥ १८ ॥  
 रात्रिमं जिस प्रकार अम्बिका तेज हो उसी प्रकार दशों दिशाएँ चन्द्रके तेजसे  
 प्रकाशमान हैं ॥ १९ ॥ रम्भा आदि आठ नायिका नृत्य करती हैं तथा उस पुरमें  
 नित्य नवीन उत्सव होते हैं ॥ २० ॥ और सुवर्णकी वाटिका फल फूलोंसे

स्तत्रफलपुष्पोपशोभिताः ॥ कूष्मांडफलरूपेणह्यमृतंतत्रतिष्ठति  
 ॥ २१ ॥ चूतचंदनसंयुक्तंकदलीखंडमंडितम् ॥ एवंपुरेमहारम्ये  
 सर्वदेवादिवासितम् ॥ २२ ॥ एकविंशसहस्राणिदृश्यंतेधवला  
 गृहाः ॥ तत्रहेममयादिव्यावहुरत्नोपशोभिता ॥ २३ ॥ नदीच  
 वहतेतत्रघृतक्षीरमधुस्यदा ॥ देवगंधर्वसंकीर्णदेवकन्यासमाकु-  
 लम् ॥ २४ ॥ चन्द्रादित्यसमंतेजोदृश्यतेचपुरेसदा ॥ इन्द्र-  
 नीलैर्महानीलैःपद्मरागोपशोभितम् ॥ २५ ॥ तस्यमध्येमहारम्ये  
 ह्यग्निज्वालासमप्रभा ॥ हेम्रोवसुंधरातत्रस्फुरंतिकिरणानिच ॥  
 ॥ २६ ॥ साधकाश्चगतास्तत्रयत्रदेवोमहेश्वरः ॥ लोकद्वारे  
 गताश्चैवचंडीश्वरउवाचह ॥ २७ ॥ चंडीश्वर उवाच ॥  
 क्रभुवनागतासिद्धाकस्थानेचैवगम्यते ॥ एतद्ब्रूहिमहाचार्यसाध-  
 कोपरिवेष्टितम् ॥ २८ ॥ साधक उवाच ॥ ॥ कथयामि  
 महाचंडशृणुमेवचनंमहान् ॥ आगतामृत्युलोकाच्चंगंतव्यंशंकरा-  
 लये ॥ २९ ॥ देवा उचुः ॥ ॥ दिव्यंविमानकामिन्यांपश्यं-  
 तिसर्वसाधकाः ॥ आरूढांचभवेत्सिद्धावेष्टितासर्वसाधकाः ॥ ३० ॥

शोभित हैं, कूष्माण्डके फल रूपसे मानों वहां अमृत स्थित है ॥ २१ ॥ आम  
 चन्दनसे युक्त केलोंसे मंडित उस नगरमें सम्पूर्ण देवता निवास करत हैं ॥ २२ ॥  
 इकीस सहस्र स्वच्छ सुन्दर गृह दीखते हैं, और वहां व सुवर्णमय दिव्यरत्न-  
 जटित हॉनसे अति शोभा देते हैं ॥ २३ ॥ वहां घृत, दूध, मधुकी नदी  
 बहती है, देवता गन्धर्व सहित देवकन्याओंसे व्याप्त ॥ २४ ॥ चन्द्रमा सूर्यके  
 समान उस पुरमें प्रकाशित इन्द्रनील, महानील, पद्मराग, मणियोंसे शोभा होरही  
 है ॥ २५ ॥ परमरमणीक उसके मध्यमें अमिकी लपटकी समान प्रकाशित भूमि  
 मृवर्णसे आच्छादित होरही है ॥ २६ ॥ यह सुन साधकगण वहां पहुँचे जहां  
 महेश्वर थे उस समय द्वारपर उपस्थित चण्डीश्वर बोला ॥ २७ ॥ चण्डीश्वर  
 बोला हे सिद्धों ! कौन स्थानसे आये और कौन स्थानको जाते हो ? हे आचार्य  
 मां सावधान होकर कहो ॥ २८ ॥ साधक बोले हे चंडीश्वर ! हमारा  
 यजन सुनो जो कहते हैं कि हम मृत्युलोकसे आये और शिवलोकको जाते हैं  
 ॥ २९ ॥ देवता बोले दिव्य विमानपर चढी कामिनी उपस्थित हैं ॥ ३० ॥

दिव्यचीरपरीधानैर्दिव्यगंधानुलेपनैः ॥ दिव्यपुष्पशिरो वद्धादिव्य  
रत्नसमाकुलम् ॥ ३१ ॥ विमानारूढभोसिद्धायत्रेच्छातत्रगम्य-  
ताम् ॥ आरूढंतवविप्रेन्द्रयथोयंतत्रगच्छति ॥ ३२ ॥ इच्छावरं  
चभुक्तव्यंयावच्चन्द्रार्कतेजसा ॥ सुवर्णकेतकीजातितिष्ठंतिराज-  
चंपिकाः ॥ ३३ ॥ वकुलैःशतपत्रैश्चविल्ववृक्षैश्चपाटलैः ॥ एवं  
पुरेमहारम्येवहुगंधादिवासिते ॥ ३४ ॥ यौवनादिमहाकायंमहारूपं  
महद्भूलम् ॥ साधक उवाच ॥ ॥ तस्मिन्स्थानेनमेकार्येनमे-  
भोगप्रयोजनम् ॥ ३५ ॥ मयाचतत्रगंतव्यंयत्रदेवोमहेश्वरः ॥  
तत्रस्थानेमहासेनचंडरूपंधृतंमहान् ॥ ३६ ॥ ओष्टमेकंभुजौद्धी-  
चद्वितीयेगगनेस्थितः ॥ रत्ननेत्रंमहाक्रूरंतीक्ष्णदंष्ट्राभयानकम् ॥  
॥ ३७ ॥ तस्यासुरनिनादेनयथामेवेनगर्जिता ॥ जिह्वास्फु-  
रतिविस्तीर्णसाधकाविस्मयंगताः ॥ ३८ ॥ आचार्यशंकितास्तत्र  
ह्यधोरंजप्यतेमहान् ॥ अष्टोत्तरंशतंचैवह्यधोरंजप्यतेक्षणात् ॥  
॥ ३९ ॥ अधोरंजप्यमानस्तुह्यदृश्योजायतेभयात् ॥ ॐ हुं

दिव्य वस्त्र धारे सुन्दरसुगन्ध लगाये दिव्यपुष्पोंको सिरपर बांधे जो सुन्दर रत्नोंसे  
जड़ितहैं ॥ ३१ ॥ हेसिद्धो! विमानोंपर चढ़ो, जहां इच्छा हो वहां जाओ हेविप्रेन्द्र !  
इसपर चढके चाहै जहां जाओ ॥ ३२ ॥ और मनइच्छित भोगोंको चन्द्रसूर्यको  
स्थितितक भोगो, यहां सुवर्णकी केतकी राजचंपिका ॥ ३३ ॥ वकुल शतपत्र  
वेलपत्र, पर्वल आदिसे शोभायमान सुन्दर नगरहै, इसनगरमें अधिकसुगन्धित  
॥ ३४ ॥ यौवनोन्मत्त सुन्दर शरीरवाली कामिनीहैं, साधक बोले हमारा ऐसे  
स्थानमें कुछ काम नहींहै, न भोगोंसे कुछ प्रयोजनहै ॥ ३५ ॥ हम वहां जायेंगे  
जहां महेश्वर देवताहैं, हे महासेन ! तब उसस्थानमें चण्डीवरने बडा भयंकर  
रूप धारण किया ॥ ३६ ॥ एक आँट आठ भुजा थी लम्बाईमें मानो दूसरा  
आकाशहै लालनेत्र महाक्रूर तीव्र दृष्टि भयानक ॥ ३७ ॥ मेघकी समान गर्जन  
प्रकाशमान जतिविस्तृत जिह्वाको देख साधक विस्मयको प्राप्त हुए ॥ ३८ ॥  
और शंक्ति हुए आचार्योंने अधोरमंत्रको जपा, तत्क्षण एकसौ आठ जावृत्ति  
मंत्रजप किया ॥ ३९ ॥ अधोरमंत्रके जपनेसे भय दृष्टगये, 'हुं फट् स्वाहा' यह

फट्स्वाहा ॥ हर्षतुष्टामहासिद्धाप्रणम्यपरमेश्वरम् ॥ ४० ॥  
 तत्क्षणं दृश्यते रूपं चंडीश्वरमहाबलम् ॥ सत्यंचवदते यावत्तावच्चं-  
 डीश्वरः पुनः ॥ ४१ ॥ रत्नमालाकरेतस्य कर्णे च हेमकुंडला ॥  
 चतुर्बाहुं त्रिनेत्रं च शूलहस्तं धृतस्तदा ॥ ४२ ॥ दिव्यवस्त्रपरीधा-  
 नं दिव्यदेहस्वरूपकम् ॥ दिव्याभरणशोभाढ्यं दिव्यगंधानुलेपनम्  
 ॥ ४३ ॥ चंडीश्वर उवाच ॥ ॥ सिद्धसिद्धमहाप्राज्ञकृत  
 कर्मसुदुस्तर ॥ क्षणमेकं स्थितो वीरयावद्द्रुद्रः समागतः ॥ ४४ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे विख्यातपुराणे श्रीश्वरकार्तिकेयसंवादे पंच-  
 योगेन्द्रेच्छासिद्धिजिविनमुक्तब्रह्मप्राप्तये महापथे शिव-  
 दर्शने सदेहकैलासगमने गिरिकैलासवर्णनं चंडीश्व-  
 रदर्शनो नाम पंचत्रिंशः पटलः ॥ ३५ ॥

मंत्र है, तब वे महासिद्ध हर्षसे संतुष्ट होकर परमेश्वरको प्रणाम करने लगे ॥ ४० ॥  
 तब उसी समय चंडीश्वरने अपना पूर्वरूप धारण किया और फिर कहने लगा ॥  
 ॥ ४१ ॥ उसके हाथमें रत्नकी माला कानोंमें कुंडल चारभुजा तीन नेत्र त्रिशूल  
 हाथमें धारे था ॥ ४२ ॥ सुन्दर वस्त्र पहने दिव्यदेह स्वरूप धारण किये तथा  
 दिव्यआभरणोंकी शोभायुक्त, सुन्दर गन्ध लगाये हुए दर्शन दियाथा ॥ ४३ ॥  
 चंडीश्वर बोला हे महाप्राज्ञ ! सिद्धो ! आपने बड़ा दुष्कर मुकर्म किया हे वीरो !  
 क्षणमात्र यहां स्थित हो जबतक रुद्र आवें ॥ ४४ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे भाषाटीकायां पंचत्रिंशः पटलः ॥ ३५ ॥

## पटत्रिंशः पटलः ।

ॐ हर्षतुष्टस्ततश्चंडः साधकानां प्रबोधितः ॥ एवमुक्त्वा ततश्चंडः  
 यत्र देवो महेश्वरः ॥ १ ॥ चंडीश्वर उवाच ॥ कृतांजलि-  
 पुटो भूत्वा पृच्छति परमेश्वरम् ॥ साधकामृत्युलोकाच्च ह्यागता देव

तब चंडीश्वरने अतिप्रसन्न हो साधकोंको समझाया, और जहां महेश्वर देव  
 थे वहां मच गये ॥ १ ॥ चंडीश्वरने अंजलि बाँध परमेश्वरसे कहा कि यह सा-

दर्शने ॥ २ ॥ श्रीपरमेश्वर उवाच ॥ ॥ शृणुचंडमहा  
 प्राज्ञद्वेकचित्तोव्यवस्थितः ॥ मृत्युलोकेमहातीर्थकेदारोनामदैव  
 तम् ॥ ३ ॥ तत्रैवललितागंगाह्यर्चयित्वातुशंकरम् ॥ तत्र  
 कालेतिचंडस्यसाधकाहृदयंतथा ॥ ४ ॥ आगच्छंतुमहा-  
 चार्योविलंबंनैवकारयेत् ॥ हर्षतुष्टोमहाचंडःयत्रतिष्ठंतिसाध-  
 काः ॥ ५ ॥ चंडीश्वर उवाच ॥ ॥ युष्मत्तुष्टोमहादेवो  
 उमासार्धत्रिलोचनः ॥ उत्तिष्ठगम्यतांसिद्धतुष्टस्तेपरमेश्वरः ॥  
 ॥ ६ ॥ नंदीस्कंदमहाकाल आगता रथगामिनः ॥ त्रिनेत्रा  
 दशभुजाश्चैवत्रिशूलंकरपल्लवैः ॥ ७ ॥ तदासिद्धासमारूढास्कं-  
 दस्तत्रसमागमत् ॥ स्वागताश्चमहातेजोइच्छंतिचरथोत्तमम् ॥ ८ ॥  
 साधक उवाच ॥ ॥ प्रणम्यदेवदेवस्यआरूढं चरथोत्तमान् ॥  
 तेषुसर्वेसमारूढाःसर्वकामैःप्रपूरिताः ॥ ९ ॥ दिव्यदेहामहा-  
 कायासर्वभोगसमाश्रिताः ॥ तावत्पश्यंतितेचंडवदंतिसाधको-  
 त्तमाः ॥ १० ॥ पृच्छतेदेवदेवस्यआरूढं चरथोत्तमैः ॥ सर्व  
 कन्यासमायुक्ताआगतारथगामिनी ॥ ११ ॥ तावत्पश्यंति

यक मृत्युलोकसे देवके दर्शन करनेको आयेंहैं ॥ २ ॥ श्रीपरमेश्वर बोले हेचण्डे-  
 उबर ! हे महाप्राज्ञ ! एकचित्त होकर सुनो, मृत्युलोकमें केदारनामक परमतीर्थ हैं  
 ॥ ३ ॥ तहांही ललिता गंगाहै यह वहांपर शिवका अर्चन करे उससमय चंड  
 श्वरने साधकोंसे कहा ॥ ४ ॥ हे आचार्य ! आजोविलंब मतकरो यह कह चंड-  
 श्वर बडा प्रसन्न हुआ ॥ ५ ॥ चंडेश्वर बोला आपके समीप पार्वतीसमेत महादेव  
 हैं, उठके चलिये तुमसे परमेश्वर संतुष्ट हुएहैं ॥ ६ ॥ नंदी स्कंद महाकाल रथपर  
 प्राप्तहुएहैं, तीन नेत्र दस भुजा हस्तपल्लवमें त्रिशूल धारेंहैं, ॥ ७ ॥ तब सिद्धोंके समीप  
 रथपर चंडे स्कंद प्राप्तहुए और बोले हेमहातेजस्विन् ! स्वागतहै उत्तम रथकी  
 इच्छा करो ॥ ८ ॥ साधक बोले उत्तम रथोंपर चंडेद्वेष देवदेवोंको प्रणामहै यह  
 कह आपभी सब कामनासे पूर्णहुए उनपर चंडे ॥ ९ ॥ दिव्य महाशरीरधारे  
 सबभोगोंसे आनन्दित साधकोंत्तम चंडेश्वरसे संभाषण करते ॥ १० ॥ उत्तम  
 रथपर चंडेद्वेष देवदेवको पूछतेये, रथपर चंडी सम्पूर्ण कन्या आई ॥ ११ ॥  
 चंडेश्वर साधकोंकी ओर देखकर कहने लगा, देवों न्यगके शिवरपर कैसी शोभा

तेचंडवदंतिसाधकोत्तमाः ॥ किमेवदृश्यतेस्वर्गेशिखरेश्वरेश्वेश्वशो-  
 भितम् ॥ १२ ॥ यस्यदेवस्ययःस्थानंयादृशंस्यभूषणम् ॥  
 प्रतिबंधंचभोचंडीवदंतिसाधकोत्तमाः ॥ १३ ॥ एषांस्थानंच  
 नामानिसुस्थानंशोभनानिच ॥ तत्रस्थानंचनामानितत्सर्वकथ-  
 यामिते ॥ १४ ॥ चंडीश्वर उवाच ॥ ॥ दृश्यंतेकांचना  
 वृक्षाः पारिजातकपंकजाः ॥ तत्रहेमप्रभादिव्यंनानारत्नविभूषि-  
 तम् ॥ १५ ॥ इन्द्रनीलमहानीलैःपद्मरागोपशोभितम् ॥  
 तेषांस्थानानिदिव्यानितत्सर्वकथयाम्यहम् ॥ १६ ॥ अम-  
 रावतीपुररिभ्यापूर्वभागव्यवस्थिता ॥ सर्वदेवस्यराजोयदैत्यारिः  
 शक्रनामतः ॥ १७ ॥ आग्नेय्यांयाचदिग्भागेपुरीतेजोवती  
 चसा ॥ हुतभुग्वसतेतत्रयोमुखंपितृदेवताः ॥ १८ ॥ याम्यां  
 चैवदिशांसिद्धापुरीज्योतिष्मतीशुभा ॥ धर्माधर्मनिरीक्षार्थधर्म-  
 राजोरवेःसुतः ॥ १९ ॥ नैऋत्यांचैवदिग्भागेपुरीयक्षवती  
 शुभा ॥ निवासोयक्षरक्षानांमहादेवेननिर्मितः ॥ २० ॥ वारु-

दीखतीहै ॥ १२ ॥ जिस देवताका जो स्थान जो दिशा जो भूषणहै सो सब कह  
 नेके लिये साधकोंने चंडेश्वरको प्रेरणाकी ॥ १३ ॥ इनके स्थान नाम आभूषण  
 आदि सबमें कहताहूं यह कहकर ॥ १४ ॥ चंडीश्वर बोला, देखो यह सुवर्ण  
 के वृक्ष पारिजातक पुष्प कमल दीखतेहैं, वहांपरही सुवर्णकी कान्तिसे दिव्य अनेक  
 रत्नोंसे भूषित ॥ १५ ॥ इन्द्रनील पद्मरागसे शोभित उनके दिव्यस्थान आदिके  
 नाम सब कहताहूं ॥ १६ ॥ अमरावती रमणीक नगरी पूर्वभागमें स्थितहै, वहां  
 सबदेवताओंका राजा दैत्योंका शत्रु इन्द्र निवास करताहै ॥ १७ ॥ और आग्नेय  
 दिशाकी ओर तेजोवती पुरीहै, वहां अपिदेवता रहतेहैं, जो पितृ देवताओंके दूत  
 हैं ॥ १८ ॥ हेसिद्धो ! दक्षिणदिशामें जोतिष्मती नगरीहै तहां धर्म और अधर्म  
 के फल देनेको साक्षात् सूर्यपुत्र धर्मराज रहतेहैं ॥ १९ ॥ और नैऋत दिशाके  
 भागमें यक्षवती पुरीहै वहां यक्ष और राक्षसोंका निवासहै यह साक्षात् शिवने  
 निर्माण कीहै ॥ २० ॥ पश्चिमदिशामें वरुणकी महापुरीहै, वहां जल जन्तुओंका

णेचैवदिग्भागवरुणस्यमहापुरी ॥ पश्चिमेजलजंतूनांनाथोवरुण  
 एवच ॥ २१ ॥ वायव्येचदिग्भागेपुरीगंधर्वसेविता ॥ यै  
 रुद्रसभामध्येनृत्यंतिचहसंतिच ॥ २२ ॥ कौवेर्यादिचदिग्भागे  
 महादनीपुरीशुभा ॥ यत्ररुद्रस्यवसतिरमात्योधनदस्तथा ॥  
 ॥ २३ ॥ यशोवतीपुरीरम्याचैशान्यांचसमाश्रिता ॥ मध्येलिंगं  
 भवेदिव्यंशंखकुन्देन्दुसन्निभम् ॥ २४ ॥ कोटिद्वादशविस्तीर्णै  
 उच्छ्रायश्चतुर्गुणम् ॥ कैलासशिखरेरम्येनानारत्नविभूषितम्  
 ॥ २५ ॥ संप्राप्ताःसायकास्तत्रपश्यंतिचहिमालयम् ॥ विमानं  
 कामिकादिव्यंमणिरत्नसमाकुलम् ॥ २६ ॥ सर्ववाद्यमथो-  
 पेतंडुदुभिःपटहानिच ॥ शंखकोलाहलंपूर्णमहामर्दलसंयुतम् ॥  
 ॥ २७ ॥ वेणुवंशमृदंगानांमहानादैःसुनादितम् ॥ नृत्यंत्यप्स-  
 रसःसर्वारंभाद्याःसुमनोहराः ॥ २८ ॥ श्रुत्वाचसायकाःसर्वेहर्ष-  
 यंतिपुनःपुनः ॥ नमस्तेशिवरूपायनमस्तेब्रह्मयोगिने ॥ २९ ॥  
 शतयोजनविस्तीर्णैशोभितंहरमंदिरम् ॥ देवगंधर्वसंकीर्णमुत्तुंगो

स्वामी वरुण निवान करता है ॥ ॥ २१ ॥ और वायुकोणमें गन्धर्वोंसे  
 सेवित नगरी है जो गन्धर्व स्ट्रीकी सभामें नृत्य करते और हर्ष करते हैं  
 ॥ २२ ॥ कौवेर्य ( उत्तर ) दिशामें महादनीपुरी है जहांपर स्ट्रदेवताका  
 अमात्य कुवेर रहताहै ॥ २३ ॥ और ईशान दिशामें यशोवती नगरी  
 है, जहांके बीचमें शिखलिंग, शंख कुन्द चन्द्रमाके समान सुन्दर है ॥  
 ॥ २४ ॥ जो बारहकोटि योजन विस्तृतहै तथा इसके चौगुना ऊंचाहै, कैलास  
 पर्वतके शिखरपर अनेकप्रकारके रत्न आभायमानहैं ॥ २५ ॥ मानरुगण वहांप्रात  
 हुए और हिमालयको देखतेहैं उनके विमान दिव्यमणि रत्नजटितये ॥ २६ ॥  
 सम्पूर्ण वाजे गाजे टुन्डुभि पटह शंख जादिका शब्द गूंजता या ॥ २७ ॥ वेणु  
 वांसुरी मृदंग आदिके नादसे शब्दायमान रंभा आदि सम्पूर्ण अप्सरायें मधुर  
 ध्वनिसे गाती नृत्य करती थीं ॥ २८ ॥ यह सब सायक श्रवण करके वाग्भार  
 हर्षको प्राते हुए और बोले शिवरूप आपसो नमस्कार है ॥ २९ ॥ यहां सौ यो-  
 जन विस्तृत शिवका मंदिर शोभित है और चौगुना ऊंचा जहां देवता गन्धर्व

हिचतुर्गुणम् ॥ ३० ॥ हेमरत्नसमायुक्तंप्राकारमपिशोभितम् ॥  
 तत्रस्थानेमहारम्येद्वाग्निज्वालासमप्रभा ॥ ३१ ॥ मौक्तिकचन्द्र-  
 कान्तश्चप्रस्फुरंतिह्यनेकधा ॥ मेरुशृंगेसमाहूढानानारत्नविचि-  
 त्रिताः ॥ ३२ ॥ प्रतोलीद्वारसंयुक्तंवेष्टितंशिवशासनम् ॥  
 हेमरत्नसमायुक्तंतोरणेनप्रशोभितम् ॥ ३३ ॥ पौडशकला-  
 समायुक्तंदिव्यंज्योतिमनोहरम् ॥ लक्षयोजनविस्तीर्णंहरस्थानंच-  
 मंडपम् ॥ ३४ ॥ स्तंभाःहेममयाःसर्वेचन्द्रकांतिसमप्रभाः ॥  
 हैमेनरचिताभूमिर्नानारत्नविभूषिता ॥ ३५ ॥ क्षणेक्षणेचतिष्ठंति-  
 सूर्य्यकोटिसमप्रभा ॥ तस्यमध्येमहादेवःसभायांपरिवेष्टितः ॥  
 ॥ ३६ ॥ सिंहासनानिदिव्यानिहेमरत्नकृतानिच ॥ भूषिता-  
 कनकांताचपद्मरागंततःपरम् ॥ ३७ ॥ मुक्ताफलप्रवालैश्चचन्द्र-  
 कांतिसमप्रभम् ॥ तत्र तिष्ठतिदेवेशोजगन्नाथोमहेश्वरः ॥ ३८ ॥  
 चामरैर्व्यज्यमानैस्तुधनदोवासुकीतथा ॥ नंदीचण्डःप्रतीहारास्ति  
 ष्ण्टेद्वारसंस्थिताः ॥ ३९ ॥ सोमेनधारितंछत्रंरुद्रस्योपरिचाश्रितम् ॥

विराजमान हैं ॥ ३० ॥ सुवर्णरत्न जडित प्राकार शोभा देरहा था, उस परम  
 रमणीक स्थानमें अमिकी कान्तिकी समान चमक थी ॥ ३१ ॥ मोती चन्द्र-  
 कान्तमणि अनेक प्रकारकी शोभा देरहीहैं, और सुमेरु पर्वतपर चढ़करतहां अनेक  
 रत्नोंकी सुन्दरता देखी ॥ ३२ ॥ प्रतोली और द्वारपर शिवके शासक लोग चारों  
 ओर उपस्थित थे, सुवर्णरत्न जडित बंदरवालोंसे शोभायमान ॥ ३३ ॥ सोलह  
 कला समंत दिश्य ज्योतिसं मनोहर लक्ष योजन विस्तारवाला शिवस्थानका  
 मंडप था ॥ ३४ ॥ सम्पूर्ण संभे सुवर्णमय तथा चन्द्रमाकी कान्तिके समान थे,  
 वह भूमि स्वर्णसे आच्छादित अनेक रत्नोंसे शोभित ॥ ३५ ॥ क्षण २ में  
 कोटि सूर्यकी कान्तिके सदृश उपस्थित थी उसके मध्यमें सभाके बीच  
 साक्षात् महादेव विराजमान हैं ॥ ३६ ॥ दिव्यसिंहासन सुवर्णरचितहै चन्द्रकान्त  
 पद्मराग मणियोंसे भूषित ॥ ३७ ॥ मोती मूंगोंके रहनेसे जो चन्द्रमाकी समान  
 प्रकाशमान हैं । वहां जगत्पति महादेव विराजमान हैं ॥ ३८ ॥ कुंवर और  
 यासुकी ( संपराज ) चामर झालते, और नन्दी द्वारपाल द्वारपर स्थित हैं ॥  
 ३९ ॥ और रटके छत्रकी चन्द्रमा धारण किये तथा पवन सुन्दर ध्वनिध्वज



पवनवाद्यतेवीनामहानादादिपूरिता ॥ ४० ॥ देवदेवंसुरश्रेष्ठं सर्वा-  
भरणभूषितम् ॥ दिव्यवस्त्रपरीधानंचंदनागरुलेपनम् ॥ ४१ ॥  
नीलकण्ठमहातेजोमूर्यकोटिसमप्रभम् ॥ त्रिनेत्रं दशभुजंचैव-  
चन्द्रार्धकृतशेखरम् ॥ ४२ ॥ महादेवं वृषाहृदंगूलहस्तधरं-  
तथा ॥ सर्वाभोगसमायुक्तं भस्मगात्रविलेपनम् ॥ ४३ ॥ कपा-  
लखड्गधरं देवं पंचवक्रं पिनाकिनम् ॥ चन्द्रंचव्यालशोभाच्च देवदेवं-  
वरप्रदम् ॥ ४४ ॥ देवगंधर्वसंकीर्णरुद्रकन्यासमाकुलम् ॥ देव-  
देवं महादेवं सर्वदेवशिरोमणिम् ॥ ४५ ॥ विश्वनाथं जगन्नाथं महा-  
वानां प्रहाणकम् ॥ तिष्ठंति मुनयः सर्वे तिष्ठंते सर्वदेवताः ॥ ४६ ॥  
लोकनाथं जगन्नाथं सर्वव्यापिनमीश्वरम् ॥ जिह्वाग्रे च चतुर्वेदा-  
हृदये भुवनत्रयम् ॥ ४७ ॥ रोमाग्रे मुनयः सर्वे तिष्ठंते सर्वदेवताः ॥  
सप्तपातालपादौ च ह्याकाशे मस्तकं तथा ॥ ४८ ॥ लोचने च महा-  
सेनवह्निचन्द्रार्कतेजसा ॥ तिष्ठंते च सुराः सर्वे त्रह्णाद्यादेवतागणाः ॥  
॥ ४९ ॥ सभायां परितिष्ठंति ब्रह्मविष्णुपुरंदराः ॥ प्रेक्षणीयं प्रकृ-

वीणा वजाता है ॥ ४० ॥ इसप्रकार सब आभूषणोंसे भूषित देवदेव शिवको  
देखा, जो दिव्य वस्त्र धारे, चन्दन अगर लिपटाये ॥ ४१ ॥ नीलकण्ठ, महातेज-  
स्वी कोटि सूर्यकी समान कान्तिमान् त्रिनेत्र दशभुजा, मायेपर अर्धचन्द्रमा-  
धारण किये ॥ ४२ ॥ वैलपर चंद्र, त्रिशूल धारण किये, महादेव सब भागों  
सहित शरीरपर भस्म लेपन किये ॥ ४३ ॥ कपाल तथा खड्ग धारण किये.  
पिनाक धार, चन्द्रमा तथा सप्तको अवलम्बन दिये हैं, ऐसे देवदेव शिवको  
देखा ॥ ४४ ॥ जो देवता गन्धर्वोंसे घिरे रुद्रकन्याओं सहित सब देवोंके शिरो-  
मणि शिव हैं ॥ ४५ ॥ विश्वनाथ जगन्नाथ, बड़े पापोंको दूर करनेवाले, तथा  
जिनके समीप सब ऋषि मुनि व देवता स्थित हैं ॥ ४६ ॥ लोकनाथ जगन्नाथ,  
सर्व व्यापी ईश्वर जिनकी जिह्वाके आगे चारों वेद रहते हैं हृदयमें तीनों लोक  
हैं ॥ ४७ ॥ जिनके रोमाग्र भागमें सब मुनि व देवता हैं मात पाताल जिनके  
चरण हैं आकाश मस्तक है ॥ ४८ ॥ अग्नि चन्द्रमा सूर्य नेत्र हैं, ब्रह्मा आदि  
देवतागण समीप स्थित हैं ॥ ४९ ॥ सभाके बीचमें ब्रह्मा विष्णु इन्द्र उपास्थित

वैतिवाद्यंतेवादनंवहु ॥ ५० ॥ शंखदुंदुभिनिर्घोषैःकाहलेभै-  
 रिमर्दलैः ॥ पटहावेणुवंशस्यगर्जितैर्द्धनिनादितम् ॥ ५१ ॥  
 नृत्यंत्यप्सरसस्सर्वारंभाद्याःसर्वनायिकाः ॥ पताकातोरणानीहरं-  
 गमालातथाकृता ॥ ५२ ॥ स्वस्तिकैःपद्मशंखैश्चलिपितास्तत्र  
 कन्यकाः ॥ विद्युत्तेजसमोभूत्वाहेमरत्नविभूषिताः ॥ ५३ ॥  
 दिव्यवस्त्रपरिधानंचंदनागरुलेपनैः ॥ सर्वलक्षणसंपूर्णनूपुराद्यैरलं-  
 कृताः ॥ ५४ ॥ करकंकणसंयुक्ताहारकेयूरभूषिताः ॥ संपूर्णचन्द्र-  
 वदनाकुण्डलाभरणोज्ज्वलाः ॥ ५५ ॥ रूपयौवनसंयुक्तानागवष्टि-  
 विभूषिताः ॥ शिरपुष्पैःसुगंधाश्चवदंतिकोकिलास्वरम् ॥ ५६ ॥  
 नृत्यंतिशकंरस्याग्रेवाद्यतेवह्वनेकथा ॥ पठंतिविविधंस्तोत्रंसे-  
 वितंसुरनेकथा ॥ ५७ ॥ नानारत्नसमायुक्तंपुष्पमालाभिःशो-  
 भितम् ॥ चन्दनागरुकर्पूरत्र्यम्बकेनप्रशोभिताः ॥ ५८ ॥ रत्न-  
 पुष्पसमायुक्तंद्वारेचगणदेवताः ॥ दर्पणैःचामरैस्तत्रवासितैर्वि-  
 पुलानिच ॥ ५९ ॥ पारिजातपंकजास्तत्रनागपुष्पोपशोभिताः ॥

मंदारकल्पवृक्षस्यपुष्पावलयनेकधा ॥ ६० ॥ केतकीशतपत्रैश्व-  
विल्ववृक्षैश्चपाटलैः ॥ एवंवृक्षसमाकीर्णैर्देवदारैर्फलैस्तथा ॥ ६१ ॥  
पुष्पगंधाकुलंचैवकांचनराजचंपिका ॥ मोगरामालतिवृक्षैर्गुला-  
बैर्गुलचंदनैः ॥ ६२ ॥ चूतचंदनसंयुक्तंकदलीखंडमंडितम् ॥  
वासितंराचेतंसर्वैर्नागपुष्पोपशोभितम् ॥ ६३ ॥ संप्राप्तासाधका-  
स्तत्रपृच्छन्तिचशिवालयम् ॥ सर्वदासर्वसिद्धिश्चहृष्टपुष्टाश्व-  
साधकाः ॥ ६४ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे विख्यातपुराणे श्रीश्वरकार्तिकेयसंवादे  
पंचयोगेन्द्रेच्छासिद्धिजीवनमुक्तपरब्रह्मप्राप्तयेमहापथे शि-  
वदर्शनेसदेहकैलासगमनं नामपट्टत्रिंशः पटलः ॥ ३६ ॥

पुष्पांसे शोभायमान मंदार, कल्प वृक्षके फूलोंकी भेंट चढ़ती है ॥ ६० ॥ केतकी,  
शतपत्र, विल्ववृक्ष, पाटुल, तथा देवदारु वृक्षोंसे व्याप्त ॥ ६१ ॥ पुष्पगंध, कांच-  
नराज, चम्पिका, मोगरा, मालतीवृक्ष, गुलाब, चंदन आदि ॥ ६२ ॥ आमते  
संयुक्त कैलेके खंभांसे मंडित, सुवासित नाग पुष्पांसे शोभित हैं ॥ ६३ ॥ उस  
स्थानपर साधक गये, और शिवालयको देखने लगे और सब प्रकार हृष्ट पुष्ट  
मसत्र हुए ॥ ६४ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे भाषाटीकायां पट्टत्रिंशः पटलः ॥ ३६ ॥

### सप्तत्रिंशः पटलः ।

शौनक उवाच ॥ ॥ वदसूतमहाप्राज्ञशिवमाहात्म्यमुत्तमम् ॥  
कैलासेसाधकोगत्वाकिंचकारततःपरम् ॥ १ ॥ सूत उवाच ॥  
शृणुभार्गवयत्नेनयत्पृष्टोऽसित्वयामुने ॥ तत्सर्वकथयिष्यामि-

शौनक बोले हे सूतजी ! आप उत्तम शिवमाहात्म्यको वर्णन कीजिये, कि कैला-  
सपर जाकर साधकोंने क्या किया ? ॥ १ ॥ सूतजी बोले ! हे भार्गव ! यत्र-  
पर्वत सुनो, जो हमने सबसे पूछा है सो सब कहता हूं जिसप्रकार सेनापतिसे

यथारुद्रेणभापितम् ॥ २ ॥ श्रीशिव उवाच ॥ अतःपरंप्रवक्ष्यामि-  
 शृणुकार्तिकयत्नतः ॥ रहस्यंभुवनंदृष्ट्वासिद्धाश्चविस्मयंगताः ॥ ३ ॥  
 सर्वैदशभुजायस्तुचन्द्रार्धकृतशेखरः ॥ ब्रह्माविष्णुस्तथाशक्र-  
 ग्रहनक्षत्रसंयुतैः ॥ ४ ॥ नदीश्वंडमहाकालभृंगीकूष्मांडएव  
 च ॥ सिद्धविद्याधरानागाशूलपाणिर्महेश्वरः ॥ ५ ॥ भुजंग-  
 कंकणैश्चैवपुष्पहस्तंतथैवच ॥ वृषभोवासुकीचैवयेचान्योत्रिदशाः  
 सुराः ॥ ६ ॥ तेनदृष्ट्वामहाप्राज्ञाःसाधकाविस्मयंगताः ॥ तत्र-  
 स्थानेमहासेनकथयामितवशृणु ॥ ७ ॥ साधक उवाच ॥ पृच्छंति  
 साधकाःसर्वैकुबेदेवोमहेश्वरः ॥ दृश्यतेचसमंरूपंसर्वदेवाव्यवस्थि-  
 ताः ॥ ८ ॥ चंडीश्वर उवाच ॥ ॥ ब्रह्माचदक्षिणेभागेवामेवि-  
 ष्णुःसमाश्रितः ॥ ९ ॥ अर्धनारीश्वरोदेवासर्वाभरणभूषिता ॥  
 भस्मनाधूलितंगात्रमर्धकुंकुमचर्चितम् ॥ एवंदेवोह्युमासार्द्धत्रिदशैः  
 सुरपूजितम् ॥ १० ॥ एवंपश्यंतितेसिद्धादेवदेवं महेश्व-  
 रम् ॥ दंडवत्प्रणमन्तिचपतंतिधरणीतले ॥ ११ ॥ कृताञ्जलि-

रुद्रेण कहा है ॥ २ ॥ श्रीशिवजी बोले हे स्वामिकार्तिक ! मुनो इसके आगे  
 कहता हूँ, उस रहस्यमय भुवनको देखकर साधक विस्मयको प्राप्त हुए ॥ ३ ॥  
 नन्दी, चंड, महाकाल, भृंगी, कूष्मांडसिद्ध, विद्याधर, नागों सहित त्रिशूल धारे  
 ॥ ४ ॥ ५ ॥ साक्षात् शिवसर्पके कंकण पहने, पुष्प हाथमें लिये, वृषभ वामुकी तथा  
 और देवता आदि सहित दर्शन देते हुए ॥ ६ ॥ हे महाप्राज्ञ ! यह विचित्र वृत्त  
 देख साधक आश्चर्यको प्राप्त हुए, अब उस स्थानका वर्णन करता हूँ मुनो ॥ ७ ॥  
 साधक बोले महेश्वरदेव कहाँ हैं, क्योंकि सब देवताओंका एकसारूप था ॥ ८ ॥  
 चंडीश्वर बोला दाहिनी ओर ब्रह्मा और वामभागमें विष्णु स्थित हैं ॥ ९ ॥  
 अर्धनारीश्वर महादेव सब आभूषणोंके सहित हैं, जिनका शरीर भस्मसे धूलित  
 है, आधा तन कुंकुमसे चर्चित है, यहाँ पार्वती समेत महादेव देवताओंसे पूजित  
 हैं ॥ १० ॥ इस प्रकार सिद्ध देवदेव महेश्वरका दर्शन करके दंडवत् प्रणाम करके  
 भूमिपर गिरे ॥ ११ ॥ अंजलि बांधकर धारम्यार प्रणाम करके साधक बोले !

दुटाभृत्वाप्रणमन्तिपुनःपुनः ॥ साधक उवाच ॥ ॥ अद्यमे  
 सफलंजन्मअद्यमेसफलंतपः ॥ १२ ॥ अद्यमेसफलंजाप्यमद्य  
 मेसफलाःक्रियाः ॥ १३ ॥ अद्यमेसफलंपथमद्यमेसफलार्च-  
 नम् ॥ अद्यमेसफलंकर्ममयादृष्टःसदाशिवः ॥ १४ ॥ नमस्य  
 चरणंपूज्यंदृष्ट्वासंभाषितांशिवम् ॥ दृष्ट्वासंभाषितंशंभोःप्रसिद्धः  
 साधकोत्तमः ॥ १५ ॥ नमस्कृत्वाततोदेवंपिनाकिवृषभध्व-  
 जम् ॥ अद्यमेसफलंकृत्यंदृष्ट्वादेवमहेश्वरम् ॥ १६ ॥ नमस्कृत्वा  
 जगन्नाथंपन्नगंसपिनाधृक्क् ॥ वरदेहिमहादेवउमावचनमत्रवीत्  
 ॥ १७ ॥ श्रीपार्वत्युवाच ॥ ॥ वरदेहिमहादेवसाधकानां  
 यथोत्तमम् ॥ एवमुक्तासुरेशानांततोह्याज्ञाप्रदीयते ॥ १८ ॥  
 श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ नंदीस्कंदमहाकालःसर्वेचगणनायकाः ॥  
 जयंचविजयंचैव नर्मदाचसरस्वती ॥ १९ ॥ गंगाचयमुना  
 चैवकावेरीसागरेणच ॥ स्नात्वाहेमकुंभेनपठंतेसिद्धचारणाः ॥  
 ॥ २० ॥ जयशब्देनदेवस्यशंखतूर्यरेणच ॥ दिव्याभरण-

आज हमारा जन्म सफल हुआ आज हमारा तप सफल भया, आज हमारा जप  
 तथा समस्त क्रिया सफल हुई ॥ १२ ॥ १३ ॥ आज हमारा पंथ और पूजन  
 सफल हुआ । आज हमारा सब काम सफल हुआ, जो शिवका दर्शन क्रिया ॥ १४ ॥  
 तब साधकोंने शिवके चरणोंको नमस्कार करके संभाषण क्रिया ॥ १५ ॥  
 देवपिनाकी वृषभध्वज देवको नमस्कार करके कहा, आज शिवके दर्शन करके  
 हमारे जन्म सफल हुए ॥ १६ ॥ जगन्नाथ, सर्प, तथा पिनाक धारण करनेवाले  
 महादेवको नमस्कार है । हे देव ! वरदान दो इस प्रकार शिवजीमे पार्वती वचन  
 बोली ॥ १७ ॥ हे देव ! इन उत्तम साधकोंको वरदान दो, ऐसा कहकर देवताओं  
 को आज्ञा दी ॥ १८ ॥ इंद्रवर बोले नंदीस्कन्द महाराज तथा सबगण जयप्रिय  
 नर्मदा सरस्वती नदी ॥ १९ ॥ गंगा, यमुना, कावेरी नद समेत सहुद्र इनमें सुव-  
 र्णके फलसोसं स्नान करके सिद्ध चारण पाठ करके ॥ २० ॥ जय २ शब्द करके  
 शंख वेशु वाजने बनाते, दिव्य आभूषण वस्त्र धारण क्रिये तथा नानागर्त्रोमे विद्म-

वस्त्रस्यनानारत्नविभूषितम् ॥ २१ ॥ रत्नमालाशिरेतस्यल-  
लाटेचन्द्रशेखरम् ॥ प्रकाशसदृशोरूपंसौख्यकामरूपानिच ॥  
॥ २२ ॥ देवीस्मरणमात्रेणह्यानंदमुत्तमोत्तमम् ॥ पद्मंचदृश्यते  
रूपंसाक्षात्रैलोक्यगामिनः ॥ २३ ॥ देविसुवर्णपात्रेणदधारामृत-  
मुत्तमम् ॥ पीयंतेयेमृतंसिद्धायोनिगर्भात्रिवर्तते ॥ २४ ॥ उमया  
सहितोरुद्रंवरंदत्वातुसाधका ॥ पश्चाच्चसाधकासर्वैयत्रेच्छातत्र  
गम्यताम् ॥ २५ ॥

इति श्रीरुद्रयामले केदारकल्पे विख्यातपुराणे श्रीश्वरकार्तिकेय-  
संवादे पंचयोगेन्द्रेच्छासिद्धिजीवन्मुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महापथे  
शिवदर्शने श्रीश्वरपार्वतीदर्शनप्रातिवर्णनोनामसप्त-  
त्रिंशः पटलः ॥ ३७ ॥

पित ॥ २१ ॥ जिनके सिरपर रत्नोंकी माला और ललाटमें अर्धचन्द्र था प्रकाशके  
समान सुन्दर स्वरूपवाले जय बोले ॥ २२ ॥ जिस देवीके स्मरण मात्रसे मृत्यु-  
दुःख छूटता है, अत्यानंदप्राप्ति होती है जिनका रूप कमलके सदृश है ॥ २३ ॥  
वह देवी सुवर्णके पात्रमें अमृतको धारण किये लाई, तब सिद्धोंने उस अमृतको  
पान किया और योनि गर्भवासके दुखसे छूटगये ॥ २४ ॥ पार्वती समेत  
शिव उन साधकोंको वरदान देकर अन्तर्धान हुए, पश्चात् साधक यथेच्छित  
देशको गए ॥ २५ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे भाषाटीकाया सप्तत्रिंशः पटलः ॥ ३७ ॥

### अष्टात्रिंशः पटलः ।

श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ चण्डेश्वरसहितासिद्धाप्रेप्सितंपुरमुत्त-  
मम् ॥ पूर्वादिशिमहादिव्यापुगीशक्रस्यशोभिता ॥ १ ॥ साध-

: तब चण्डेश्वरके साथ सिद्धोंका उत्तम पुरीमें भेजा, पूर्वदिशाके शिखरपर इन्द्र-  
नी शोभायमान थी ॥ १ ॥ साधक इन्द्रपुरीको गए, जिसका विस्तार लक्ष-

काश्चगतास्तत्रयत्रइन्द्रपुरीमहान् ॥ द्वादशलक्षविस्तीर्णमुच्छ्राय-  
 श्वचतुर्गुणम् ॥ २ ॥ द्वादशादित्यतेजाढ्यहेमप्राकारवेष्टितम् ॥  
 मणिरत्नसमाकीर्णप्रासादगृहमाकुलम् ॥ ३ ॥ शतयोजनविस्ती-  
 र्णमंदिरस्यचमंडपम् ॥ प्रतोल्याद्वारसंयुक्तंदिव्यकांचनशोभि-  
 तम् ॥ ४ ॥ ध्वजमालाकुलंदिव्यतोरणैरुपशोभितम् ॥  
 नानारत्नसमायुक्तंदिव्यकांचनवेष्टितम् ॥ ५ ॥ सिंहासनानिदिव्या-  
 निहेमरत्नकृतानिच ॥ तत्रतिष्ठतिराजेन्द्रइन्द्रराजोमहानृपः ॥ ६ ॥  
 दिव्यवस्त्रपरीधानोदिव्यगंधानुलेपनः ॥ दिव्यपुष्पशिरोवध्वादि-  
 व्याभरणभूषितः ॥ ७ ॥ करेवभ्रंगृहीत्वाचसहस्रनयनोज्ज्वलः ॥  
 जटामुकुटधारीचकुंडलानिज्वलंतिच ॥ ८ ॥ निर्जरारिसभामध्ये  
 शोभितःपाकशासनः ॥ सूर्यचंद्रानिलेन्दूनायमस्यवरुणस्यच ॥  
 ॥ ९ ॥ गणगांधर्वदेवस्यऋषयोसुरपन्नगाः ॥ सभायांपरिति-  
 ष्ठतिसिद्धयक्षचयोपितः ॥ १० ॥ साधकाश्चगताद्द्वाइन्द्रराजस्य  
 सम्मुखम् ॥ इन्द्र उवाच ॥ ॥ विमानारूढभोसिद्धाइन्द्रोवचन  
 मब्रवीत् ॥ ११ ॥ विमानारूढदेवस्यदेवकन्यासमाकुलम् ॥ चा-

योजन तथा ऊंचा उसकी अपेक्षा चौगुना था ॥ २ ॥ बारह सूर्यके समान तेज-  
 युक्त सुवर्णके प्राकार वेष्टितमणि रत्नोंसे व्याप्त प्रासाद गृह थे ॥ ३ ॥ शतयोजन  
 विस्तृत उस मन्दिरका मण्डप था, प्रतोली द्वारसहित दिव्य कांचनसे शोभित  
 था ॥ ४ ॥ उत्तम पताका मालाओंसे व्याप्त, तोरण ( वेदनवार ) से शोभाय-  
 मान, अनेक रत्नोंसे समाकुल सुन्दर सुवर्णसे वेष्टित ॥ ५ ॥ तथा दिव्य सिंहासन  
 सुवर्णरत्न जटित थे, वहाँ राजा इन्द्र विराजमान थे ॥ ६ ॥ दिव्यवस्त्र धारें सुन्दर  
 सुगन्ध लगाये दिव्य पुष्प सिरपर बांधे, सुन्दर आभूषणोंसे भूषित ॥ ७ ॥ हाथमें वज्र  
 ग्रहण किये, सहस्रनेत्र समेत जटा मुकुट धारण किये कुंडलोंसे प्रकाशित ॥ ८ ॥  
 देवताओंकी सभामें राजा इन्द्र शोभित थे, सूर्य, चन्द्र, पवन, यम, वरुण ॥ ९ ॥  
 गण, गन्धर्व, ऋषि, सुर, सर्प, सिद्ध, यक्ष तथा स्त्रियाँ उस सभामें विद्यमान  
 थीं ॥ १० ॥ साधक राजा इन्द्रके सम्मुख गये, इन्द्र बोले हे सिद्धो ! विमानपर  
 चढ़ो । इस प्रकार इन्द्रेने कहा ॥ ११ ॥ विमानपर चढ़े इन्द्रदेवके चारों ओर देव-

मैत्रीज्यमानास्तुस्तुतिकुर्वतियोपितः ॥ १२ ॥ प्रेक्षणीयंप्रकु-  
 र्वतिच्छत्रचामरशोभितम् ॥ भोजनैः पूरितास्तत्रमणिवैदूर्यमौक्ति-  
 केः ॥ १३ ॥ आगताश्चततःकन्यावदंतिसाधकान्प्रति ॥ कन्य-  
 का उवाच ॥ ॥ दिव्यवस्त्रंपरीधानंदिव्यगंधानुलेपनम् ॥  
 ॥ १४ ॥ दिव्यपुष्पशिरोवध्वाहारकेयूरभूषिता ॥ करकंकण  
 संयुक्ताकिंकिणीभिरलंकृता ॥ १५ ॥ इन्द्रनीलमहानीलैःपद्मगो-  
 पशोभिता ॥ संपूर्णचन्द्रवदनासर्वाभरणभूषिता ॥ १६ ॥ सर्व-  
 लक्षणसंयुक्तानानाविद्यापरायणाः ॥ कन्यकाआगतास्तत्रह्यर्च-  
 र्यतिचसाधकाः ॥ १७ ॥ चंदनैर्कुंकुमैर्युक्तंपुष्पमालामनोहरम् ॥  
 गीतंगायतिताःकन्यावाद्यंतैवहुनेकथा ॥ १८ ॥ शंखदुन्दुभिनि-  
 वौपैर्काहलैर्भैरिमर्दलैः ॥ माधकास्तत्रसहिताजल्पन्तिचपरस्प-  
 रम् ॥ १९ ॥ इन्द्र उवाच ॥ ॥ अस्मिन्स्थानेपुरेरम्येनाना-  
 भोगसमाकुले ॥ यत्रस्थानेमहासिद्धायावच्चन्द्रार्कतारकाः ॥ २० ॥  
 यावद्गंगाचरेवाचगोदावरिसरस्वती ॥ यमुनासिंधुकावेरीयावत्री-

कन्या स्थित थीं और झूलती हुई स्तुति कर रही थी ॥ १२ ॥ इधर अधर निरी-  
 क्षण करते छत्र शोभासे सुशोभित पात्रोमें मणि वैदूर्यमौती सम्मिश्रित थे ॥ १३ ॥  
 व कन्या साधकोंके पास आईं और बोलीं, दिय वस्त्र पहने सुन्दर गन्ध लगाये ॥  
 ॥ १४ ॥ दिव्यपुष्प सिरमें बांधे, हार बाजूबंदोंसे भूषित हाथोंमें कंकण पहने किंकि-  
 णी भूषणोंसे अलंकृत ॥ १५ ॥ इन्द्रनील, महानील, पद्मराग मणियोंसे शोभित  
 सम्पूर्ण चन्द्रमाफी समान मुखारविन्द, सब आभूषणोंसे भूषित ॥ १६ ॥ सब  
 लक्षणोंसे संयुक्त अनेक विद्याओंकी पारंगत वे कन्या आईं, और साधकोंका  
 अर्चन किया ॥ १७ ॥ चंदन कुंकुम पुष्पमालाओंसे मनोहर वे कन्या गीत गायतीं,  
 अनेक वाजे बजातीं ॥ १८ ॥ शंख, दुन्दुभि, फाटल, भैरी, मर्दलके शब्दों सहित  
 माधकोंसे वहाँ इन्द्र संभाषण करने लगे ॥ १९ ॥ इन्द्र बोला । इस स्थानमें  
 नानामहारके भोग मिलतेहैं, हे सिद्धो ! जयतः चन्द्रमा सूर्य तारेहैं ॥ २० ॥  
 जवन्तः गंगा रेवा, गोदावरी, सरस्वती, यमुना, सिंधु, कावेरी, तथा समुद्रमें



रंचसागरे ॥ २१ ॥ यावत्तिष्ठंतिमेदिन्यांत्रहनक्षत्रतारकाः ॥  
 यावदस्मिन्पुरेरम्येतावत्तिष्ठंतिसाधकाः ॥ २२ ॥ साधक  
 उवाच ॥ ॥ यत्रस्थानेनरुच्यतेसत्यंसत्यंवदाम्यहम् ॥ विना-  
 रुद्रेणभोशक्रपुरीमह्यंनरुच्यते ॥ २३ ॥ इन्द्रनीलैर्महानीलै-  
 र्पद्मरागोपशोभितम् ॥ मणिरत्नसमाकीर्णमिन्द्रनगरीसुशोभिता ॥  
 ॥ २४ ॥ देवदेवजगन्नाथंदुर्लभंतवदर्शनम् ॥ पुरीध्यानंततः  
 कृत्वाशृणुशक्रमहानृपः ॥ २५ ॥ नमेभोगस्यकार्य्यैवैदर्शनार्थं  
 समागतः ॥ विष्णुसंदर्शनार्थंचतत्रगच्छामिदेवराट् ॥ २६ ॥ नम-  
 स्कारं ततः कृत्वागंतव्यंपंथमुत्तमम् ॥ साधकाश्चगतास्तत्रविष्णो-  
 पुरिमनोहरम् ॥ २७ ॥

इति श्रीकेदारकल्पेविख्यातपुराणे श्रीश्वरकार्तिकेयसंवादे-  
 पंचयोगेन्द्रेच्छासिद्धिजीवन्मुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महापथे  
 शिवदर्शने सदेहकैलासगमने शक्रपुरीन्द्रसमा-  
 गमो नामाष्टाविंशः पटलः ॥ ३८ ॥

जल है ॥ २१ ॥ जबतक पृथ्वी गृह नक्षत्रनारं उपस्थितहैं हे साधका ! इसनगर  
 में तबतक स्थित रहतेहैं ॥ २२ ॥ साधक बोले । इस स्थानमें निवास करनेकी  
 इच्छा नहींहै, यह सत्य २ कहतेहैं, विनारुद्रके यह आपकी नगरी नहीं रुचती ॥  
 ॥ २३ ॥ इन्द्रनील महानील पद्मराग मणियोंमें शोभित, मणिरत्न जडित इन्द्र  
 पुरी शोभायमान है ॥ २४ ॥ हे देवदेव ! हेजगन्नाथ ! आपका दर्शन परमदुर्लभ  
 है इन्द्रपुरीका ध्यान करके साधक बोले हे महानृपशक्र ! ॥ २५ ॥ हमें भांगसे  
 कुछ प्रयानन नहीं आपके दर्शनोंकी अभिलाषासे यहाँ आपहैं, फिर साधक  
 विष्णुके दर्शन करनेको आये ॥ २६ ॥ परस्पर नमस्कार करके साधक विष्णु  
 लोभमें प्राप्त हुए ॥ २७ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे भाषाटीकासमेतविंशः पटलः ॥ ३८ ॥

## एकोनचत्वारिंशः पटलः ।

श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ तत्पश्चात्साधकाःसर्वेगताविष्णुपुरमहत् ॥  
 दशयोजनलक्षाणिउच्छ्रायोपिचतुर्गुणम् ॥ १ ॥ विष्णुपुरीमहा-  
 दिव्यासूर्यकोटिसमप्रभा ॥ तेजोमयंद्योतितंसंततकांचनसन्नि-  
 भम् ॥ २ ॥ हैमेनरचिताभूमिःप्रासादगृहमाकुलम् ॥ ध्वजमालाकुलं-  
 दिव्यांचित्रकर्मोपशोभितम् ॥ ३ ॥ सिंहासनानिदिव्यानिहेमरत्न-  
 विभूषितम् ॥ तत्रतिष्ठतिदेवेशोजगन्नाथोजनार्दनः ॥ ४ ॥  
 अग्रतोदृश्यतेतत्रवाद्यंतेविमनेकधा ॥ शंखदुन्दुभिनिर्घोषैर्काहलै-  
 भैरिमर्दलैः ॥ ५ ॥ पटहावेषुवंशस्यवाद्यंतेविविधानिच ॥ नृत्यं-  
 त्यप्सरसस्तत्रदेवगंधर्वयोपितः ॥ ६ ॥ वशिष्टगौतमश्चैवदुर्वा-  
 साव्यासपंडिताः ॥ अनेकैर्ऋषिभिः सर्वैर्वेदयोध्वनिगीयते ॥ ७ ॥  
 साधकाश्चगतास्तत्रयत्रदेवोजनार्दनः ॥ दृष्ट्वाचसाधकाःसर्वैर्वदंति  
 स्वागतंप्रिये ॥ ८ ॥ श्रीविष्णुरुवाच ॥ ॥ अस्मिन्नेवपुरेरम्येव-

इसके पीछे साधक विष्णुलोकमें गये वह दस लाख योजन विस्तृत तथा उस  
 से चौगुना ऊंचाया ॥ १ ॥ विष्णुपुर परमदिव्य, कोटिसूर्यकी समान तेजयुक्त,  
 कान्तिमान सुवर्णके समान प्रकाशित था ॥ २ ॥ वहांकी भूमि सुवर्णसे आच्छा-  
 दित और सुन्दर गृहरत्नादिसं युक्त थे ध्वजा मालाओंसे शोभित, चित्रकर्मसे चि-  
 त्रित ॥ ३ ॥ दिव्यासिंहासन सुवर्णरत्नोंसे भूषितथे, वहांपर जगन्नाथ जनार्दन  
 देव विराजमान थे ॥ ४ ॥ जिनके आगे अनेक बाजे बजते दीखे शंख दुन्दुभि  
 काहल, भेरी, मर्दल, ॥ ५ ॥ पटह वेषु तथा वंशी आदि अनेक बाजे बजतेथे,  
 अप्सरा देव गंधर्वकी स्त्रियां नृत्य करती थीं ॥ ६ ॥ वशिष्ठ, गौतम, दुर्वासा,  
 व्यास पंडित आदि अनेक ऋषि वेदध्वनिपूर्वक गान करते थे ॥ ७ ॥ साधक वहां  
 गये जहां विष्णु देव उपस्थित थे, जब साधकोंमें स्तुतिकी तब यह देववाणी  
 कि हे प्रियजनों ! स्वागत है ॥ ८ ॥ विष्णु बोल बहुत कन्याओंसे व्यास

हुकन्यासमाकुलम् ॥ तिष्ठंतिसाधकाःसर्वेयावदिन्द्राश्चतुर्दश ॥९॥  
 श्रीसाधक उवाच ॥ ॥ देवदेवमहाविष्णोश्च्युतावचनंमम ॥  
 आगताचमयादृष्टः दुर्लभंतवदर्शनम् ॥ १० ॥ दुर्लभंसर्वभूतानां-  
 देवानामपिदुर्लभम् ॥ अद्यमेसफलंजन्मअद्यमेसफलंतपः ॥  
 ॥ ११ ॥ अद्यमेसफलंजाप्यमद्यमेसफलाःक्रियाः ॥ अद्यमेसफ-  
 लंवासअद्यमेसफलाचनम् ॥ १२ ॥ अद्यमेसफलंभाग्यंमुक्ता-  
 भेवंविधानतः ॥ आदिदृष्ट्वाचगोविंदंसर्वपापैःप्रमुच्यते ॥ १३ ॥  
 अद्यमेसफलंपंथानमस्तेस्तुजनार्दनः ॥ श्रीविष्णुरुवाच ॥ ॥  
 सिंहासनानिदिव्यानिदिव्यरत्नयुतानिच ॥ १४ ॥ अत्रतिष्ठंतु-  
 भोसिद्धामहावीरामहातपाः ॥ भुंजंतुसाधकाः सर्वेतिष्ठंतुगरुडा-  
 सने ॥ १५ ॥ दिव्यवस्त्रपरीधानंदिव्यगंधानुलेपनम् ॥ दिव्य-  
 पुष्पशिरोवध्वाचंदनागरलेपनम् ॥ १६ ॥ अस्मिन्तिष्ठंतुभो-  
 सिद्धाभुजंतुविपुलांश्रियम् ॥ आचार्यसाधकाःसर्वेभुक्ताभोगान्

इसनगरमें सम्पूर्ण साधक तुम तबतक निवास करो जबतक चौदह इन्द्रहैं ॥९॥  
 साधक बोले । हेदेवदेव ! हे विष्णो ! आपका वचन सत्य है हम आप  
 के दर्शन करनेको आयेहैं क्योंकि आपका दर्शन बड़ा दुर्लभहै ॥ १० ॥ सब  
 प्राणियों व देवताओंकोभी दुर्लभहै आज हमारा जन्म तथा तप सुफल हुआ ॥  
 ॥ ११ ॥ आज हमारा जप तथा क्रिया सुफल हुई, और आज हमारा निवास  
 तथा पूजन सब सुफल हुआ ॥ १२ ॥ आज हमारा भाग्य सुफल हुआ, और  
 वचनसे दृष्टे यह प्राणी आदिदेव गोविन्दको देखकर सबपापोंसे दूटजाताहै ॥  
 ॥ १३ ॥ आज हमारा पंथ सुफल हुआ आपके चरणफलकों नमस्कारहै,  
 विष्णु बोले ! यह दिव्यसिंहासन रत्नजटितहै ॥ १४ ॥ हेमहावीर ! हेमहातप-  
 स्विधो ! इनमें बैठो, और तुम सब साधक अनेक भोग भोगों तथा गरुडासनपर  
 बैठो ॥ १५ ॥ दिव्यवस्त्र पहनो सुगंध लगाओ, दिव्यपुष्प सिरपर धारो, चंदन  
 अगरका लेप करो ॥ १६ ॥ और यहां निवास करके सब आचार्य साधक मन-

मनेप्सितान् ॥ १७ ॥ आचार्य्य उवाच ॥ ॥ अस्मिन्स्थाने-  
नमेकार्य्यसत्यंसत्यंवदाम्यहम् ॥ नमस्कारंततःकृत्वागतास्ते-  
पंथमुत्तमम् ॥ १८ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे विख्यातपुराणे श्रीश्वरकार्तिकेयसंवादे  
पंचयोगेन्द्रेच्छासिद्धिजीवन्मुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महापथे  
शिवदर्शने सदेहकैलासगमने विष्णुपुरीश्रीविष्णु-  
दर्शनो नामैकोनचत्वारिंशः पटलः ॥ ३९ ॥

प्सित भोगोंको भोगो ॥ १७ ॥ आचार्य बोले इस स्थानमें हमारा कुछ कामनहीं  
यह सत्य २ जानो, यह कह नमस्कार करके उत्तम पंथको गये ॥ १८ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे भाषाटीकायामैकोनचत्वारिंशः पटलः ॥ ३९ ॥

## चत्वारिंशः पटलः ।

श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ पश्चाच्चसाधकाःसर्वेब्रह्मलोकेगतास्तथा ॥  
सप्तलक्षंचविस्तीर्णैब्रह्मस्थानंचपुरीमहत् ॥ १ ॥ ब्रह्मस्थानं महा-  
दिव्यमुद्गायोचचतुर्गुणम् ॥ द्वादशादित्यतेजाढ्यंसूर्य्यकोटि-  
समप्रभम् ॥ २ ॥ नानारत्नसमाकीर्णवैदूर्य्यमणिरश्मिभिः ॥  
रम्यंमनोहरंदिव्यमुदितार्किसमप्रभम् ॥ ३ ॥ अग्निज्वालासमो-  
पेतंहेमप्राकारवेष्टितम् ॥ पठंतिविविधंस्तोत्रंवाद्यंतंचपुनःपुनः ॥  
विविधानिचरंगाग्निस्तोत्रमंत्राह्यनेकधा ॥ ४ ॥ स्वराणिचमहा-

पश्चात् वे साधक ब्रह्मलोकमें गये जो सातलाख योजन विस्तृत और उससे  
चौगुना लंबा था ॥ १ ॥ ब्रह्मलोक बड़ा सुन्दर था, वारह सूर्यकी समान तेज  
युक्त ॥ २ ॥ अनेक रत्नोंसे जडित, वैदूर्यमणियोंकी कान्तिसे शोभित मनोहर  
उदय होते सूर्यकीसमान कान्तिमान् ॥ ३ ॥ अग्निकी लपटके तुल्य देदीप्तमान्,  
सुवर्णप्राकारसे आच्छादित अनेक स्तोत्रपाठतया वाजोंकी ध्वनिसे गुंजारित, विवि-  
ध-परंग तथा स्तुतिमंत्रोंसे शब्दायमान ॥ ४ ॥ दशोंदिशाओंमें स्वरांका महानाद होत-

नादं दृश्यते च दसो देशः ॥ चूतं चन्दनसंयुक्तं कदलीखंडमण्डितम् ॥  
 ॥ ५ ॥ देवगंधर्वसंकीर्णदेवकन्यासमाकुलम् ॥ ध्वजामालाकुलं-  
 दिव्यं प्रासादगृहमाकुलम् ॥ ६ ॥ वापीकूपतडागानि दृश्यंते च-  
 ननोहराः ॥ वेदध्वनिचनिर्घोषैः पठंति च द्विजोत्तमाः ॥ ७ ॥  
 नारदश्च भृगुश्चैव वसिष्ठः गौतमस्तथा ॥ कश्यपो वामदेवश्च शुक्रश्च-  
 व्यासपंडिताः ॥ ८ ॥ अन्याश्च ऋषयः सर्वे वेदयोर्ध्वनिगीयते ॥  
 ब्रह्मलोके महासेनवेष्टिता ऋषिउत्तमाः ॥ ९ ॥ सिंहासनानि दि-  
 व्यानि हेमरत्नयुतानि च ॥ तत्र तिष्ठति देवेशः देवदेवः प्रजापतिः ॥  
 ॥ १० ॥ त्रयो देवासमायुक्तं ब्रह्माविष्णुं महेश्वरम् ॥ साधकाश्च-  
 गता दृष्ट्वा वदंति स्वागतं प्रियम् ॥ ११ ॥ सन्मुखश्चागतास्तत्र-  
 देवदेवः पितामहः ॥ ततः पश्यंति ते सिद्धा ब्रह्मा वैवाक्यमब्रवीत् ॥  
 ॥ १२ ॥ ब्रह्मो वाच ॥ ॥ भो भो सिद्धामहाप्राज्ञास्थिता-  
 अस्मिन्पुरे सदा ॥ अत्र स्थाने पुरे रम्ये महाभोगसमन्विताः ॥ १३ ॥  
 इच्छा वरं च भोक्तव्यं ब्रह्मलोके च साधकाः ॥ एवं भोगामहावीरा ब्रह्मलो-  
 के व्यवस्थिताः ॥ १४ ॥ इदं पंचमहासेनया विदिन्द्राश्चतुर्दश ॥

या, आम, चंदन, खंभोसे मंडित ॥ ५ ॥ देवता गन्धर्व देवकन्याओंसे परिपूर्ण,  
 ध्वजामालाओंसे अलंकृत सुन्दर प्रासाद गृहोंसे संयुक्त ॥ ६ ॥ वापी कूप सरोवर  
 आदि दीख रहे थे, स्वरपूर्वक उत्तम ब्राह्मण वेदपाठ करते थे ॥ ७ ॥ भृगुमुनि, नारद  
 वशिष्ठ, गौतम, कश्यप, कृष्णद्वैपायन, शुक्र, व्यास, आदि पंडित ॥ ८ ॥ पर-  
 स्पर सब ऋषि वेदोंका गान करते थे हे महासेन ! ब्रह्मलोकमें उत्तम ऋषि विराज-  
 मान थे ॥ ९ ॥ दिव्यसिंहासन सुवर्णरत्न जडित थे, वहांपर देवेश प्रजापति  
 ( ब्रह्मा ) विराजमान थे ॥ १० ॥ ब्रह्मा, विष्णु, शिव, तीनों देवता विराजमान  
 थे, साधक वहां गये, उनका स्वागत हुआ ॥ ११ ॥ उनके सन्मुख साक्षात् पिता-  
 मह ब्रह्मा उपस्थित हुए और उन साधकोंने दर्शन किये, ब्रह्मा यह वचन बोले  
 ॥ १२ ॥ हे सिद्धो ! हे महाप्राज्ञ ! इस नगरमें नित्य निवास करो, और इसी  
 जगह अनेक भोगोंको अनुभव करो ॥ १३ ॥ हे साधको ! ब्रह्मलोकमें इच्छा-  
 पूर्वक वरग्रहण करो, और इस २ प्रकारके महाभोग हैं ॥ १४ ॥ हे महासेन !

साधकाश्चमहासत्यंवदंतिब्रह्मणोयदि ॥ १५ ॥ यदिपंचमहासेन-  
उपुर्ध्वचविधीयते ॥ तिष्ठन्त्वत्रपुरींरम्यांभुक्तान्भोगान्यथे-  
प्सितान् ॥ १६ ॥ शृणुसिद्धामहाप्राज्ञाभुक्तभोगाननेकवा ॥  
हेमवद्धामहास्थानमेकचित्तोव्यवस्थिता ॥ १७ ॥ त्रिसंध्यंच-  
भवेन्नित्यंकुर्वन्तिचमहाप्रभो ॥ एवंब्रह्मपुरंदिव्यंभुक्ताभोगान्म-  
नेप्सितान् ॥ १८ ॥ साधक उवाच ॥ ॥ देवदेवप्रजानाथ-  
शृणुत्वंवचनंमम ॥ आगताचमयादृष्ट्वादुर्लभंतवदर्शनम् ॥ १९ ॥  
अद्यमेसफलंजन्मअद्यमेसफलंतपः ॥ अद्यमेसफलंजाप्यमद्यमे  
सफलंक्रिया ॥ २० ॥ त्वांदृष्ट्वाचप्रजानाथसर्वपापैःप्रमु-  
च्यते ॥ अद्यमेसफलंभाग्यंमुक्तोहंभवबंधनात् ॥ २१ ॥ गर्भ-  
वासेनदुःखेनत्यक्तासंसारसागरात् ॥ गर्भगसविनिर्मुक्तौतस्य-  
दोषेतिगच्छति ॥ २२ ॥ तेनदुःखभवाद्भीताकैलासेगमनंकृतम् ॥  
विनारुद्रंमहाप्राज्ञनरुच्यतेपुरीतव ॥ २३ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ ॥  
ब्रह्मलोकसमोलोकासुरश्रेष्ठसमोसुरः ॥ ब्रह्मणीसदृशानारीकथं-

पांच आशुति जबतक चौदह इन्द्र हों तबतक यहाँकी आयु है इस प्रकार सत्य २  
ब्रह्माने कहा ॥ १५ ॥ हे भाग्यवानो ! पांच कल्पतक ऊपरके भोग भोगो,  
तबतक अत्यन्त भोगोंको सुखपूर्वक भोगो ॥ १६ ॥ हे महाप्राज्ञ ! सुवर्णसे  
आच्छादित इस स्थानमें एकाग्र चित्तसे निवास करके सुखोंको भोगो ॥ १७ ॥  
हे प्रभो ! नित्य त्रिसंध्या करो, इस प्रकार ब्रह्मपुरीमें दिव्य भोग हैं ॥ १८ ॥  
साधक बोले हे देवदेव ! हे प्रजानाथ ! आप हमारे वचनको सुनो, आपके  
दर्शनार्थ हम आये हैं आपका दर्शन परम दुर्लभ है ॥ १९ ॥ आज हमारा जन्म  
सफल हुआ, आज हमारा तप सफल हुआ, तथा आज हमारा जप और क्रिया  
सफल हुई ॥ २० ॥ आदिदेव प्रजानाथ आपका दर्शन कर सब पापोंसे छूटे,  
आज हमारा भाग्य सफल हुआ और संसार बंधनसे छूटे ॥ २१ ॥ गर्भवासके  
दुःखसे तथा संसार सागरसे छूटे ॥ २२ ॥ उस दुःखके भयसेही कैलासकी आये  
ये, हे ब्रह्मन् ! विनारुद्रके आपकी पुरी नहीं रुचती ॥ २३ ॥ ब्रह्मा बोले ब्रह्म-  
लोक और ब्रह्मलोक देवता, ब्रह्मणीसी स्त्री, यहाँकेसे भोग, हे आर्य ! आप

चार्यैरुच्यते ॥ २४ ॥ अष्टाशतसहस्राणिऋषयवेदपारगाः ॥  
 नौकुलौपत्रगाःसर्वेदेवत्रिदशकोटिभिः ॥ २५ ॥ रतिसर्वमहा-  
 श्रेष्ठदेवदेवःप्रजापतिः ॥ कथंभोगानरुच्यंतेइच्छायांचपुनःपुनः॥  
 ॥ २६ ॥ आचार्य उवाच ॥ अश्वरत्नमहाभोगास्तिष्ठतेचगृहे  
 मम ॥ रथनागसमायुक्तैर्विमानानिह्यनेकया ॥ २७ ॥ सेना-  
 कोटिसहस्राणिपूर्णचन्द्रमुखास्त्रियः ॥ सत्यंसत्यंपुनःसत्यंविना-  
 रुद्रेनरुच्यते ॥ २८ ॥ श्रुत्वाधर्मपुराणानित्यवत्वाचात्रसमा-  
 गताः ॥ नमस्कारंततःकृत्वाप्रजानाथंनमाम्यहम् ॥ २९ ॥ एव-  
 मुक्ताततःश्रुत्वावेगेनपवनोयथा ॥ धर्मराजपूरींगत्वाआचार्य-  
 साधकैःसह ॥ ३० ॥

इति श्रीकेदारकल्पेविरच्यतापुराणे श्रीश्वरकार्तिकेय संवादे  
 पंचयोगेन्द्रेच्छासिद्धिजीवनमुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महापथे  
 शिवदर्शनेसदेहकैलासगमनो नामब्रह्मपुरात्रह्म-  
 दर्शनो नाम चत्वारिंशः पटलः ॥४०॥

को क्यों नहीं रुचते ॥ २४ ॥ यहां अठारह सहस्र ऋषि वेद पारंगत हैं तीस  
 कोटि देवता और श्रेष्ठ कुलके सर्प रहते हैं ॥ २५ ॥ इसप्रकार जहां महाश्रेष्ठ  
 प्रजापति देवदेव हैं, रमणीक नगरमें रहकर इच्छा करनेपर प्राप्त होनेवाले भोग  
 क्यों नहीं रुचते ? ॥ २६ ॥ आचार्य बोले हमारे घरमें भी अनेकों भोग स्थित हैं,  
 हाथी घोडा रथ विमान आदि अनेक ॥ २७ ॥ कोटि सहस्र सेना पूर्णचन्द्रमुख-  
 बाली स्त्रियां हैं, परन्तु विना रुद्रके नहीं रुचते यह हम सत्य २ ही कहते हैं ॥२८॥  
 धर्मपुराण आदि श्रवण करके उनको छोड़ यहाँपर प्राप्त हुए हैं, तब प्रजानाथ  
 ब्रह्माको नमस्कार करके ॥ २९ ॥ वे साधक पवनके समान धर्मराजकी नगरीको  
 गये और उनके साथ आचार्य भी गये ॥ ३० ॥

इति श्रीकेदारकल्पे भाषाटीकायां चत्वारिंशः पटलः ॥ ४० ॥

## एकचत्वारिंशः पटलः ।

श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ तत्पश्चात्साधकाःसर्वधर्मराजपूरींगताः ॥  
 कैलासदक्षिणेभागेतिष्ठतिअंतिकापुरी ॥ १ ॥ द्वादशलक्ष  
 विस्तीर्णमुद्गायश्चचतुर्गुणम् ॥ शोभतेचमहादिव्ययोजनश्चपुरी  
 महान् ॥ २ ॥ हेमरत्नसमायुक्तलोहप्राकारवेष्टितम् ॥ रम्यं  
 मनोहरंदिव्यंसर्वेषांचभयापहम् ॥ ३ ॥ सिंहासनानिदिव्यानि  
 हेमरत्नजटानिच ॥ तत्रतिष्ठतिदेवेशधर्मराजोमहानृपः ॥ ४ ॥  
 तिष्ठतिकिंकराःसर्वेचित्रगुप्तश्चातिष्ठति ॥ पापंपुण्यंचलोकानांलि-  
 ख्यतेतत्रपात्रिका ॥ ५ ॥ सुकृतंदुष्कृतंकिंचित्भुंजंतिसुखं  
 दुःखम् ॥ महानर्काचभोक्तव्यकृतंकर्मशुभाशुभम् ॥ ६ ॥  
 ऊर्ध्वपादाःस्थिताःकेचित्तप्ततैलंपुनःपुनः॥केचित्तरौरवेचरेकुंभी-  
 पाकेतथैवच ॥ ७ ॥ केचित्क्रमिणःस्थानेकेचिन्मुद्गरचूर्णिताः ॥  
 हस्तिचरणस्थिताःकेचित्तांगारेपुलोहिताः ॥ ८ ॥ गण्डपाके  
 स्थिताःकेचित्ताङ्गारेसिर्भजिता ॥ आरण्येचस्थिताःकेचित्स्थि-

श्री ईश्वर बोलें तत्पश्चात् सम्पूर्ण साधक धर्मराजकी पुरीको गये, वह अच-  
 न्तिका पुरी-कैलासके दक्षिण भागमें स्थित है ॥ १ ॥ बारह लाख योजन विस्ता-  
 रवाली, उसकी अपेक्षा चौगुना लम्बाव है, इस प्रकार वह दिव्य नगरी शोभा  
 पाती थी ॥ २ ॥ सुवर्ण रत्नजटित लोह प्राकारसे वेष्टित, रमणीक दिव्य सबके  
 भय दूर करनेहारी है ॥ ३ ॥ वहां दिव्य सिंहासन सुवर्णरत्नसे जटित है, वहांपर  
 श्रीमान् राजा धर्मराज विराजमान थे ॥ ४ ॥ तथा सब किकर ( दास ) चित्र  
 गुप्त आदि उपस्थित थे, संसारके पाप और पुण्योंको पत्रपर लिख रहे थे ॥ ५ ॥  
 प्राणी जो कुछ सुकृत और दुष्कृत करते हैं, उनका सुख और दुःखरूप फल  
 भोगते हैं, तथा पापोंसे महानर्क भोगना होता है, शुभ तथा अशुभ कर्म करने-  
 वाले ॥ ६ ॥ कोई ऊर्ध्वपाद ( ऊपरको पैर किये हुए ) कोई तपाये हुए तैलमें  
 गिरे हैं, कोई धार रौरवमें पड़े हैं, तथा कोई कुंभी पाकमें पडे हैं ॥ ७ ॥ कोई  
 क्रमि फीट आदिमें स्थित हैं, कोई पैरोंसे चूर्ण २ किये हैं, कोई हाथीके पैरोंसे  
 गिरे हैं कोई तप्त अंगारोंसे लाल किये जाते हैं ॥ ८ ॥ कोई गंडपाकमें स्थित



ताःकेचिन्महार्णवे ॥९॥ केचिद्ब्रह्माश्वपाशेनकेचिद्ब्रह्मंतिअंकुशैः॥  
 पाशबद्धाःस्थिताःकेचित्केचिदण्डेनपीडिताः ॥ १० ॥ आलि-  
 ङ्गितास्ततस्तंभै रुदन्तिदुःखपीडिताः ॥ खड्गेनछेदिताःकेचि-  
 त्केचिन्मुशालपीडिताः ॥ ११ ॥ केचिल्लोहातप्तपाशैर्वज्रशक्ति-  
 प्रच्छेदिताः ॥ संस्थिताचकृतंकार्यंक्रियतेपापकर्मणा ॥ १२ ॥  
 सप्तजन्मकृतंपापंभुंजतेचपृथक्पृथक् ॥ पापाणैर्पीडिताःकेचिन्नाना-  
 दुःखैश्चपीडिताः ॥ १३ ॥ पुण्यधर्मकृतंयैस्तुभुंजतेसुकृतं  
 महान् ॥ बालुकायांचततायांकुंभीपाकेपुनपुनः ॥ १४ ॥  
 केचिन्नकंदकैस्तीक्ष्णैस्तप्तलोहकमेवच ॥ केचिक्किमिराशिस्थाने  
 केचिच्चाररुदंतिच ॥ १५ ॥ बहुधावेदनांप्राप्ताभुंशुंडीचपृथक्  
 पृथक् ॥ अस्मिन्स्थानेमहाघोरेसर्वजन्तुप्रपीडिताः ॥ १६ ॥  
 केचित्तुतैलयत्रैस्तुलौहपात्रंतथैवच ॥ केचित्तुशाल्मलिवृक्षके-  
 चिद्विकटसंकटे ॥ १७ ॥ भुंजतेदुष्कृतंकर्मकृतंयच्चशुभाशुभम् ॥  
 यैःपूर्वांनिन्दितंशास्त्रदुष्कृतंचकृतंमहान् ॥ १८ ॥ तेनरानरक्यां-

हुए, तथा कोई बड़े समुद्रमें पड़े डूबते थे ॥ ९ ॥ कोई पाशांसें बांधे गये, कोई अंकुशसे प्रहार किये गये, कोई रस्सामें बँधे, कोई दंडसे पीडित देखे ॥ १० ॥ कोई तपाये हुए खंभोंमें लिपटाये हुए दुःखी रोते थे, कोई खड्गसे काटे जाते कोई मूसलसे पीडित हो रहे थे ॥ ११ ॥ कोई तप्त लोहके पिंजरेमें बंद किये गये कोई वज्रशक्तिसे छेदित इस प्रकार पाप कर्म करने वालों की कायाको कष्टदिया जाताथा ॥ १२ ॥ सातजन्मका किया पाप पृथक् २ भोगतेथे, नानादुःखोंसे पीडित नर शिलाओंसे पीसे जातेथे ॥ १३ ॥ और जिन्होंने पुण्यकर्म कियाथा वह सुखफल भोगतेथे, कोई पापी ततरेतमें स्थित, तथा कोई कुंभीपाकमें पड़ेये ॥ १४ ॥ कोई ताँखे कांटोंमें पड़े तथा कोई तपाए लोहेसे पीडित होते, कोई कृमिके स्थानमें स्थित, कोई दुःखीहुए रोतेथे ॥ १५ ॥ अनेक प्रकारकी वेदनाओंसे अस्त पृथक् २ भुंशुंडी ( बन्दूक ) आदिसे पीडित, उस महा घोरस्थानमें सब जन्तु पीडितथे ॥ १६ ॥ कोई तैलपात्र तथा लोहपात्रमें स्थित, कोई शाल्मलीके वृक्षमें बँधे कोई विकट संकटमें पड़ेथे ॥ १७ ॥ अनेकप्रकारके शुभाशुभ कर्मोंको भोगतेथे, जिसने पूर्वमें शास्त्रोंकी निन्दाकी ॥ १८ ॥ वह मनु-

तिमहद्दुःखंपुनःपुनः ॥ अनेकनरकांश्चैवभुंजतिचपृथक्पृथक् ॥  
 ॥ १९ ॥ व्रजंतिरौरवेघोरेयत्रधर्मपुरेसदा ॥ साधकाश्चागता-  
 स्तत्रयत्रधर्मपुरीमहान् ॥ २० ॥ दृष्ट्वासमागतान्सिद्धान्धर्मो-  
 वचनमब्रवीत् ॥ धर्मराज उवाच ॥ ॥ सिद्धसिद्धंमहाप्राज्ञ  
 तुष्टोहंतवसाधकाः ॥ २१ ॥ इच्छानुरूपंसदृशंवरंयाचन्तु  
 सत्तमाः ॥ साधक उवाच ॥ ॥ यादतुष्टोसिमेधर्मश्रूयतांवचनं  
 मम ॥ २२ ॥ गर्भवासमयाद्गीतात्यक्त्वासंसारसागरम् ॥  
 तत्रस्थानेचयंयांतिमहानर्कैंप्रपीडिताः ॥ २३ ॥ यदितुष्टासि  
 मेदेवधर्मराजोमहाप्रभुः ॥ पंचवर्षशतंदिव्यंमोक्षंचकुरुदुःखतः ॥  
 ॥ २४ ॥ धर्ममोक्षंतदाकृत्वागताःस्वर्गोचयंतवः ॥ सर्वेषां  
 तुभवेन्मोक्षःस्वर्गोक्रोडापृथक्पृथक् ॥ २५ ॥ धर्मेणमोक्षणं  
 कृत्वाधर्मोवचनमब्रवीत् ॥ धर्मराज उवाच ॥ ॥ शृणुसाध-  
 कतत्त्वेनममवाक्यंसुनिश्चितम् ॥ २६ ॥ अन्तरेस्थापितःशंभुः  
 भजनीयःसुरैर्यदा ॥ सत्यंसत्यंवदाम्येतत्कुंडमस्त्यतिभैरवम् २७ ॥

प्यभी नरकमें प्राप्त हुएथे, इसप्रकार अनेक नरक पृथक् २ भोगतेथे ॥ १९ ॥ घोर  
 रौरवनरकभी महाभयानकथा, साधक वहां गये जहां महती धर्मपुरीथी ॥ २० ॥  
 धर्मपुरीमें देखकर धर्मराजने कहा, धर्मराजबोले हेसिद्धो ! हे महाप्राज्ञ ! हम  
 तुमसे संतुष्ट हुएहैं ॥ २१ ॥ अपनी इच्छाके अनुकूल उत्तम वर मांगो. साधक  
 बोले हे धर्मराज ! यदि आप प्रसन्न हुए तो हमारा वचन सुनो ॥ २२ ॥ गर्भ-  
 वासके दुःखसे भयभीतहुए संसारसागरसे डरके यहां आयेंहैं कि इसस्थानमें आने  
 वाले महानरकसे पीडितहैं ॥ २३ ॥ हेप्रभो ! हे धर्मराज ! हे महाप्रभो ! यदि आप  
 हमसे प्रसन्नहैं तो दिव्य पांचसौवर्ष पर्यंत हम कोई कूरकर्म न करें और मोक्ष हो  
 ऐसा वर दो ॥ २४ ॥ तब धमराज मोक्षप्रदान करके स्वर्गलोकको गये ॥ २५ ॥  
 धर्मपृथक् हमारी मोक्षहो यह सुनकर धर्मराजबोले धर्मबोले हे साधको ! ! तत्त्व  
 से हमारे निश्चित वचनोंको सुनो ॥ २६ ॥ इसके अन्तरमें शिवजीकी स्थापना  
 जो जगत्के कारणहैं यह हमारे वचन सत्यहैं इसके आगे महान् भयंकर

एवंचभुंजतेसर्वपापंपुण्यंपृथक्पृथक् ॥ मोक्षंभवतितस्यैवनि-  
यतीयोगमध्यगः ॥ २८ ॥ आगमंविधिसहितंविस्तरे-  
णहितण्डुलम् ॥ सुखंदुःखंहानिवृद्धिराधारंप्रतिपालयेत् ॥  
॥ २९ ॥ शतवर्षंचद्वायुष्यंमहाभोगेनसंयुतम् ॥ प्रथमं  
अविरोर्विंपितापिण्डस्यमध्यतः ॥ ३० ॥ नाडिकायांत्रिकं  
मध्यंसंचरेतेचप्राणिनः ॥ विंदुमध्येकृतंवामंलभतेचयथेप्सितम्  
॥ ३१ ॥ दशपंचचदिवसंपितापीण्डप्रपीडिताः ॥ ऋतुकाले  
कृतंभोगंरजोयुक्ताचकामिनि ॥ ३२ ॥ समयोनिंचपतितो  
विन्दुवीर्यसमंभवेत् ॥ रजंमातुःपितुर्वीर्यंउन्सीचदशमास-  
कौ ॥ ३३ ॥ तत्सर्वप्रवररूपंनारीपुरुषउच्यते ॥ चतुरस्था-  
पितेपीडावालुतरुणवालयोः ॥ ३४ ॥ वृद्धिचभवतेपश्चाद्  
वस्यास्थादृश्यमानवः ॥ सुकृतंदुष्कृतंकर्मलिख्यंततत्रपत्रिकाः  
॥ ३५ ॥ आयुष्यंसर्वभुक्तंचज्ञात्यौचिविचित्रकौ ॥ भापन्ते  
धर्मवृत्तस्यद्वायुष्यंसर्वभुक्तये ॥ ३६ ॥ भापन्तेधर्मराजस्य

कुंडहै ॥ २७ ॥ पापकरनेवाले नरक भोगते हैं और पुण्यवाले पृथक् २ पुण्य भो-  
गतेहैं, जैसे इन्द्रियोंसे पापपुण्य कियेहैं, भोगनेको वही मिलतेहैं ॥ २८ ॥ विधि  
के सहित आगम सुखदुःख हानि वृद्धि आधार इनका पालन करना चाहिये ॥  
॥ २९ ॥ यहाँ दिव्य शतवर्षकी आयु होताहै, पुण्यात्माओंको यहाँ बडे भोगहैं,  
पहले अम्बरका त्रिम्बपरदादेका पिण्डहै पीछे पितासे पहलेमध्यापीण्डदादेकाहै ॥  
॥ ३० ॥ यहाँ प्राणीजन नाडीके त्रिकस्थानमध्यमें विचरतेहैं, जो योगी विन्दु-  
नादका दर्शन करतेहैं वह यथेच्छ वरका लाभ करतेहैं ॥ ३१ ॥ दस पन्ध्र दिन-  
तक पिंड न मिलनेसे पिंडअदाताके पिताको पीडा होती है। ऋतुकालमें जिन्होंने  
रजस्वलाहोनेके पीछे भोग कियाहै ॥ ३२ ॥ जिस समय वह वीर्य उस स्थानमें  
पतितहोताहै, तो माताके रज और पिताका वीर्य मिलकर पिंड बनताहै ॥ ३३ ॥  
वही रूपवाला होकर नारी वा पुरुष होताहै, वह पिंड क्रमसे बढताहै ॥ ३४ ॥  
और वृद्धिहोकर मनुष्यादि अवस्थाको प्राप्त होताहै, सुकृत वा दुष्कृत कर्म सब  
चित्रगुप्तकी पुस्तकमें लिखाजाताहै ॥ ३५ ॥ तथा चित्रगुप्त उनकी समस्त आयु-  
षाभी लिखतेहैं, और आयुके भोग और धर्मभी सब कहे जातेहैं ॥ ३६ ॥ धर्म-

किंकराचतुप्रेपितम् ॥ किंकराःपटचतुश्चैवपृथिवीचतुमध्यतः ॥  
 ॥ ३७ ॥ रसनामंडितामायासाधकारस्यमेवच ॥ तेनजानन्ति-  
 ममाकायापितुःपिंडनचर्चितम् ॥ ३८ ॥ धर्माधर्मेणलिंगच-  
 आगतापृच्छकामया ॥ चित्रंविचित्रौव्यक्तंधर्मभापितमुत्थितौ ॥  
 ॥ ३९ ॥ दुःस्थंविचारितंमंत्रिउपदेशंचजंतवः ॥ प्रथमेकुरुते-  
 धर्मपश्चाद्धर्मप्रपीडिताः ॥ ४० ॥ पापंपुण्यंसमंकृत्वापुण्यपापौ-  
 हन्यते ॥ पापंपुण्यंफलंयुग्मंनवांच्छतियेप्राणिनः ॥ ४१ ॥  
 वाञ्छाफलसाधकस्ययत्रभवतिसिद्धये ॥ किञ्चित्प्रकाशितंपुण्यं-  
 फलंद्वयंचवाञ्छति ॥ ४२ ॥ वाञ्छितंधर्मप्रकाशंवाञ्छिताय-  
 स्वर्गपुरी ॥ सगुणंनिर्गुणंपुण्यंपदंतस्यप्रतिष्ठितम् ॥ ४३ ॥  
 एकमानात्मनोयस्यस्वर्गवासःप्रतिष्ठितः ॥ ब्रह्माविष्णुश्चरुद्रस्य-  
 ध्यायंदेवंनिरञ्जनम् ॥ ४४ ॥ द्वादशइन्द्रियाःसर्वेव्यापितेजन-

राजके भेजेहुए किकर सब कथन करते हैं वे किकर ६४ पृथिवी अन्तरिक्षके मध्यमें निवास करतेहैं वडे चतुरहैं ॥ ३७ ॥ मनुष्यमायाके बंधनमें पडेहुए साधन न करनेसे मेरी आज्ञा और पिंडार्चनको नहीं जानतेहैं ॥ ३८ ॥ धर्माधर्मके विचारसे पृच्छते यहाँ आतेहैं यहाँ धर्मकी गति चित्रविचित्र देखी जातीहै ॥ ३९ ॥ यहाँके दुःख विचारकर मंत्रीवर्य उपदेश करतेहैं, लोग पहले धर्मकरके पीछे धर्ममें पीडा करतेहैं ॥ ४० ॥ जब इसके पापपुण्य बराबर होजातेहैं, तब यह पापपुण्योसे हनन होजाते हैं, अर्थात् प्राणियोंमें पापपुण्य नहीं रहते, जो प्राणी पाप और पुण्य दोनोंकी इच्छा नहीं करते ॥ ४१ ॥ वह साधकके फलकी वांछा सिद्ध करनेको समर्थ होतेहैं जिनका पुण्य फल कुछ प्रकाशितहै, जो दोनों फलकी इच्छा करतेहैं ॥ ४२ ॥ जो धर्मका प्रकाश और धर्मपुरीकी वांछा करते हैं, सगुण निर्गुण पुण्यका फल उनको प्राप्त होताहै ॥ ४३ ॥ जो सर्वथा पुण्यात्मा हैं उनका निश्चय स्वर्गवास होताहै, जो विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र इन निरंजन देवका ध्यान करतेहैं ॥ ४४ ॥ वह परमपद पातेहैं, जो दुर्मतिइन्द्रियभोगोंमें लीनहैं,

-- दुर्मतिः ॥ शंभुनामनजानन्तिमधुर्वाणिनह्युचरेत् ॥ ४५ ॥  
 मोहितामन्मथामायारौरघोरेपतंतिते ॥ शृणुसिद्धामहावीरामहा-  
 योगीमहातपाः ॥ ४६ ॥ आगतावरमिच्छायाददातुवरमुत्तमम् ॥  
 साधकं उवाच ॥ ॥ पृच्छंतिसाधका सेनशृणुधर्मनृपस्तथा ॥  
 चित्तमनोवचोधर्मध्यायतेमननिर्मलम् ॥ ४७ ॥ हृदयंध्यानयो-  
 धर्मआवर्त्तचममालये ॥ सदातुष्टोसिमेधर्मधर्मराजप्रकाशि-  
 तम् ॥ ४८ ॥ सुंचवर्षशतंपुण्यंपंचमोक्षचक्रुधर्मयोः ॥ मोक्ष-  
 चक्रियतेसर्वेगताःस्वर्गंचजंतवः ॥ ४९ ॥ धर्म उवाच ॥ ॥  
 अस्मिन्स्थानेमहाभोगादेवदानवदुर्लभाः ॥ तिष्ठंतिसाधकासर्वे-  
 जरामृत्युविवर्जिताः ॥ ५० ॥ साधक उवाच ॥ ॥ नवयं-  
 भोगकार्यार्थीह्यागतादेवदर्शनम् ॥ नवत्तव्यंमहाराजन्धर्मराजो-  
 महानृपः ॥ ५१ ॥ वयंचतत्रगच्छामोयत्रदेवोमहेश्वरः ॥ तवपुरी-  
 ध्यानंकृत्वासत्यंसत्यंवदाम्यहम् ॥ ५२ ॥ अवश्यंतत्रगंतव्यं-

जो शिवका नाम नहीं जानते जिन्होंने मधुर वाणीसे शिवका नाम न जपा ॥ ४५ ॥  
 जो काम की मायासे मोहित हैं वह घोर रौरवमें पड़ते हैं हे वीरो ! महायोगी महा-  
 तपस्वी सिद्धो सुनो ॥ ४६ ॥ तुम वरकी इच्छासे आये हो तो मैं तुमको उत्तम  
 वर देता हूँ, साधक बोले तब सब साधक पड़ने लगे हे धर्मराज ! सुनिये, मन  
 वचनकर्मसे जो निर्मल धर्मका ध्यान करते हैं ॥ ४७ ॥ हृदयसे ध्यान धर्म कर्म-  
 वाला आपके स्थानमें आगमन करता है यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं और  
 आपने हमपर कृपाकर धर्म प्रकाशित किया है, ॥ ४८ ॥ तो पांचसौ वर्षतक जीवों  
 यहांसे छुटकारा दो अर्थात् यहांके सब प्राणी स्वर्गको चले जाय ॥ ४९ ॥ धर्मराज  
 बोले यहांके भोग देवता और दानवोंको दुर्लभ हैं यहां साधक जरामृत्युसे रहित  
 होकर स्थित रहसकते हैं ॥ ५० ॥ साधक बोले हमको भोगकी इच्छा नहीं हम  
 तो केवल आपका दर्शनकरने आये थे ॥ ५१ ॥ हम तो जहां महेश्वरदेव हैं वहां  
 जायेंगे हम सत्य कहते हैं आपकी पुरीका ध्यान करके ॥ ५२ ॥ अवश्य वहां

यत्रदेवोमहेश्वरः ॥ आचार्य्यस्यप्रसंगेनसिद्धासर्वांगतापुरी ॥  
॥ ५३ ॥ भूयश्चसाधकाःसर्वेशिवलोकेयथानिच ॥ प्रतिदृष्ट्वापुरी-  
सर्वायत्रगास्तत्रआगताः ॥ ५४ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे विख्यातपुराणे श्रीश्वरकार्तिकेयसंवादे  
पंचयोगेन्द्रेच्छासिद्धिजीवन्मुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महापथे शि-  
वदर्शने सदेहकैलासगमनो नाम धर्मपुरीवर्ण-  
नो नाम एकचत्वारिंशः पटलः ॥ ४१ ॥

जायगे जहां महेश्वरदेवहैं आचार्यके प्रसंगसे सबकोई पुरीमें आये ॥ ५३ ॥ तब  
फिर वे सब साधक शिवलोकके मार्गको उसीपुरीमें होकर चले कि जहांसे सब  
आयेथे ॥ ५४ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे धर्मपुरीवर्णनोनामैकचत्वारिंशः पटलः ॥ ४१ ॥

## द्विचत्वारिंशः पटलः ।

श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ पश्चाच्चसाधकाह्येतेआगताशिवशासने ॥  
उमयासहितोरुद्रोवरदंत्वापुनःपुनः ॥ १ ॥ सप्तकोटिस्ततः  
कन्याएकैकस्यप्रदीयताम् ॥ गौरीचसदृशामूर्तिःसर्वालंकारभूषि-  
ताः ॥ २ ॥ सर्वभोगसमोपेतास्तिष्ठतेसाधकोत्तमाः ॥ इच्छारूप-  
धरासर्वेस्त्रियः स्वच्छंदगामिनि ॥ ३ ॥ क्रीडयन्तिमहाभोगान्  
यावदेवोमहेश्वरः ॥ कैलासभुवनेचैवशिवशक्तिश्चतिष्ठति ॥ ४ ॥

इश्वर बोले पीछे वे सब साधक शिवके शासनसे वहां आये उमाकेसहित रुद्र-  
ने उनको वारंवार वरदिया ॥ १ ॥ कि एकएक को सात आठ कोटि कन्या दी  
जाय, जो गौरीकी मूर्तिकी समान सब अलंकारोंसे भूषितहों ॥ २ ॥ यह उत्तम  
साधक यहां सब भोगोंके सहित स्थित हों और यह सब स्त्रियें अपनी इच्छाकी  
समान रूपधारण करतीं और स्वच्छन्द गामिनीहैं ॥ ३ ॥ जबतक देव महेश्वर  
स्थितिहै तबतक यह महाभोगोंसे युक्त क्रीडा करतीहैं कैलासस्थानमें शिव

उत्तमंपतितं विश्वेश्रेष्ठं चतारयेच्छिवम् ॥ ससिलांस्त्रियासर्वानवसत्त-  
चनिघ्नौवने ॥ ५ ॥ सामुद्रीकलक्षणाः सर्वैयत्रगोत्रसमन्विताः ॥  
दिव्यांगवस्त्रधारिण्यादिव्यकांचनरत्नयोः ॥ ६ ॥ षोडशशृंगार-  
संयुक्ताभूपितामणिरश्मिभिः ॥ अष्टगंधोदकैस्तत्रमिश्रितं यक्ष-  
कर्दमैः ॥ ७ ॥ अष्टपुष्पासुगंधेन मुकुटैर्मस्तकैः शुभैः ॥ मुक्तरत्नां-  
चतांबूलैर्नासासुक्तिकरं वपुः ॥ ८ ॥ नेत्रखाशुचज्वालाललाटे-  
तियक्षणा ॥ मृगाक्षीहंसगामिन्योदिव्यजातिसमप्रभाः ॥ ९ ॥  
कृष्णावेनीशिरश्चैव कुंडलाभरणोज्ज्वलाः ॥ कृष्णवेनीशिरश्चैव अ-  
श्रेचरत्नरक्षका ॥ १० ॥ वपुःसुवर्णस्थंभशोभंते बहुतेजसा ॥  
शोभंते केशपृष्ठौ च चतते च भुजंगमा ॥ ११ ॥ मुखं चन्द्रकला-  
षोडश उदितौ शशिभास्करौ नासासुक्तिकरं चैव युतं तादाडमीकुले ॥  
॥ १२ ॥ रसानाह्नमृतं वाचावाचं मधुरवेणुका ॥ कोकिलासुर-  
नादेन भासयंति परंपदम् ॥ १३ ॥ करकंकणसंयुक्ताहारकेयूर-

शक्तिके सहित क्रीडा करतीहैं ॥ ४ ॥ यह समस्त ससारमें श्रेष्ठहैं यह श्रेष्ठ होने  
से शिवसे तारितहैं सब स्त्रियें सरल और सोलह सिंगार कियेहुएहैं ॥ ५ ॥ सामु-  
द्रिक लक्षणोंसे सब लक्षितहैं, सब कुलीन हैं दिव्यवस्त्र और दिव्यरत्न धारण  
कियेहैं ॥ ६ ॥ सोलह सिंगार किये मणियोंकी प्रभासे सब अलंकृतहैं जहां अष्ट  
वंधसे युक्त जलकी कर्दमहै ॥ ७ ॥ और आठ सुगंधियोंसे युक्त जिनके मुकुट हैं  
मुक्तामणिपहरे लाल तांबूलकी गंधसे नासिका वृत्त होजातीहै ॥ ८ ॥ जिनके नेत्र  
बड़े बड़े उज्ज्वलललाटे शोभायमान, मृगोंकी समान नेत्र हंसकी समान चालवाली,  
दिव्यजातिकी समान कांतिवाली ॥ ९ ॥ शिरपर शोभायमान काली वेनी कुंडल और  
आभूषणोंसे उज्ज्वल तथा कर्णभूषण माने दोनों ओरके रक्षकहैं ॥ १० ॥ सुवर्णकी  
समान शरीर माने सुवर्णका स्तंभहीहैं बहुत तेजसे शोभायमानहैं और पीठके ऊपर  
वेणी सर्पराजकी समान शोभा पातीहै ॥ ११ ॥ मुखचंद्र सूर्यकी समान है, नासा  
तिलप्रसूनकी समान दाडिमीकी समान दांत ॥ १२ ॥ रसना अमृतकी समान  
वचनोमें माने वंसी वजरहीहैं अथवा मानों कीकिला बोलकर परमपद देरहीहै  
॥ १३ ॥ हाथोंमें कंकण हैं हार और केयूरोंसे भूषित हैं, हृदयस्थान फलके

भूपिताः ॥ उरःस्थलंफलाकारंकिंकिणीउच्छ्रमेखला ॥ १४ ॥  
 गंभीरनाभिकेनमिहरंघटिकारूपा ॥ जानुवाहुंकदलीस्थंभंपंथ-  
 मानोजआसनम् ॥ १५ ॥ हिंडोलतिहंसगामिन्योपादौनृपुरलं-  
 कृतौ ॥ गुणलक्षणसंपन्नाज्ञानध्यानस्यचिन्तयेत ॥ १६ ॥  
 चिन्तामणिजनिस्वर्णेमनपेगानहासति ॥ गुह्यपृष्टतःहृदयश्रूयते-  
 भवतिद्रयम् ॥ १७ ॥ भुंजंतिचस्त्रियःसर्वाजरामृत्युविवर्जिताः ॥  
 स्थापितंपदकैलासंयोनिगर्भविवर्जिताः ॥ १८ ॥ साधकासंगम-  
 कन्यासंगतिः समउच्यते ॥ श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ देवतासम-  
 प्रीत्यंचप्रतिष्ठायत्रशेखरे ॥ १९ ॥ क्रीडंतिसाधकास्तावद्व्याव-  
 द्वेवोमहेश्वरः ॥ साधक उवाच ॥ ॥ देवदेवजगन्नाथदुर्लभंतव-  
 दर्शनम् ॥ २० ॥ मह्यंभोगानरुच्यंतेसत्यंसत्यंसदाशिव ॥  
 तवचरणेसदावासदीयतांगिरिजापति ॥ २१ ॥ देवेशपार्वती-  
 नाथसर्वदेवीवशंभरम् ॥ महाकैलासंगंतव्यंयत्रदेवोपरंशिवः॥२२॥  
 त्वंध्यानस्मरणंकृत्वापूजयित्वापुनःपुनः ॥ उमयाशंकरंदेवहृदय-

आकार किंकणी भेखला शोभायमान है ॥ १४ ॥ गंभीर नाभि हृदके आकार-  
 वाली है जानु कदलीके स्तंभ भुजा कनक लता, नाभितल मानो कामका आ-  
 सन है ॥ १५ ॥ हिंडोलकी समान गति हंसकी समान चाल चरण नृपुरोंसे  
 शोभायमान, गुणलक्षणोंसे सम्पन्न ज्ञान ध्यानसे संयुक्त हैं ॥ १६ ॥ चिन्ता-  
 मणिकी समान कामनादायक गान, हासविलासमें तत्पर हृष्ट पुष्ट शरीरसे  
 जिनकी गति शोभायमान है ॥ १७ ॥ यह सब स्त्रियें जरा मृत्युसे रहित ही  
 भोग करती हैं, यह सब ज्योति गर्भवाले कैलासमें स्थित हैं ॥ १८ ॥ यहाँ  
 साधक कन्याओंके संग निवास करे श्रीश्वर बोलें इस पर्वतके शिखरपर स्थित  
 होनामें देवताकी समान होता है ॥ १९ ॥ महेश्वरकी स्थितितक यहाँ साधकों  
 की स्थिति है साधक बोलें हे देवदेव! जगन्नाथ आपका दर्शन दुर्लभ है ॥ २० ॥  
 हे महाशिव ! यह हम सत्य कहते हैं, कि हमको भोग नहीं रुचते हैं हम यहाँ  
 चाहते हैं कि आपके चरणोंमें हमारा सदा निवास हो ॥ २१ ॥ हे नाथ ! हम  
 तो आपके समीप ही सदा स्थित रहना चाहते हैं, हम महादेवजीके समीप  
 ही रहना जाना चाहते हैं ॥ २२ ॥ आपका ध्यान स्मरणकर और पारंपार



चव्यवस्थितम् ॥२३॥ जग्माताजगत्श्रीश्वत्रैलोक्येशचराचरम् ॥  
 त्वंमातासर्वभूतेषुप्रसादंकुरुईश्वरि ॥ २४ ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ ॥  
 सिद्धसिद्धमहाप्राज्ञमहावीरामहाबलाः ॥ तुष्टाहंचमहासिद्धावणी-  
 ध्वंवरमुत्तमत् ॥ २५ ॥ हृदयेच्छायथादद्याद्भ्रूहिचसाधकः ॥  
 साधक उवाच ॥ ॥ त्वंमातासर्वलोकानांअहंचशरणंतव ॥  
 ॥ २६ ॥ महापंथेचगंतव्यंपंथंदेहिसुरेश्वरि ॥ ईश्वरस्यमहादेवि-  
 वरंदत्वाचसाधकाः ॥ २७ ॥ महापंथेचगंतव्यंनविघ्नंस्यात्कदा-  
 चन ॥ हृष्टपुष्टंमहादेवंसाधकानांपुनःपुनः ॥ २८ ॥ गच्छा-  
 चार्यमहापंथेमत्प्रसादैश्वपंथिकः ॥ जयजयप्रकुर्वन्तिगच्छंतिच-  
 महापथम् ॥ २९ ॥ अग्रेचदृश्यतेतत्रमहावैकुण्ठमंदिरम् ॥  
 महाकाशंमहादिव्यंमहाधर्मप्रवर्तते ॥ ३० ॥ द्वादशकोटि-  
 विस्तीर्णैरुच्छ्रायोचचतुर्गुणम् ॥ मणिरत्नसमाकीर्णहेमप्रकारवेषि-  
 तम् ॥ ३१ ॥ पद्माकारंसमायुक्तंअष्टदलैश्वशोभितम् ॥ कोटि-

पूजन करके उमा और शंकरको सदाही हृदयमें धारण करना चाहते हैं ॥२३॥ आप जगत्के माता पिता त्रिलोकीक पिता चराचरके पिता हैं । हे भगवती ! तुम सब प्राणियोंकी माता हमारे ऊपर कृपा करो ॥ २४ ॥ श्रीदेवी बोली, हे महापंडित सिद्धो तुम थोड़ी देर ठहरो मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुमको वर देनेको इच्छा करती हूँ ॥ २५ ॥ हे साधको ! जो तुम्हारे हृदयमें इच्छा हो सो वर मांगो ! साधक बोले, आप सब लोगोंकी माता हो हम सब तुम्हारी शरणमें हैं ॥ २६ ॥ हे महेश्वरि हम महापंथमें जाना चाहते हैं, सो आप हमको मार्ग दीजिये, हम साधक ईश्वरका महापंथ चाहते हैं ॥ २७ ॥ हम चाहते हैं महापंथ जाते समय हमको कोई विघ्न नहो यह साधक महादेवके दर्शन पर्यंत हृष्ट पुष्ट रहें ॥ २८ ॥ आचार्य भी तुम्हारे प्रसादसे आनन्दपूर्वक गमन करें, जयजय करते हुए महापंथको गमन करें ॥ २९ ॥ आगे महावैकुण्ठ मंदिर दिखाई देता है, जो महाकाश महादिव्य महाधर्म वर्तता है ॥ ३० ॥ बारह-कोटि योजन विस्तीर्ण और चौगुना इससे ऊंचा है, मणि रत्नोंसे आकीर्ण और सुवर्णके प्राकारसे वेष्टित है ॥ ३१ ॥ पद्मके आकारसे युक्त आठ दलोंसे शोभित

मध्येचवैकुण्ठदलेद्युपुरिशोभितम् ॥ ३२ ॥ अष्टद्वारंचवैकुण्ठप्रति-  
 हारंचपोडशम् ॥ जयंचविजयंचैवमहायोधस्यवोष्टितम् ॥ ३३ ॥  
 मध्यंलिंगंचवैकुण्ठतत्रगत्वाचसाधकाः ॥ हेमरत्नमपाकीर्णतोरणै-  
 र्द्वारशोभितम् ॥ ३४ ॥ इन्द्रनीलमहानीलैःपद्मरागोपशोभि-  
 तम् ॥ कोटिसूर्यप्रतिकाशंकोटिचन्द्रस्यशीतल ॥ ३५ ॥  
 प्रस्फुरन्तिमहाकाशमग्निज्वालासमप्रभा ॥ लक्षयोजनविस्तोर्ण-  
 मुच्छ्रायोचचतुर्गुणम् ॥ ३६ ॥ स्तंभहेममयाःसर्वैमणिरत्नद्युता-  
 निच ॥ सिंहासनानिदिव्यानिहेमरत्नंकृतानिच ॥ ३७ ॥ तत्र-  
 तिष्ठन्तिदेवेशपरमशिवजगद्गुरुः॥तिष्ठन्तिचसुराःसर्वैब्रह्माविष्णुःमहे-  
 श्वरम् ॥ ३८ ॥ इन्द्रवरुणवैकुण्ठधर्मराजसुशोभितम् ॥ सभायां-  
 तत्रतिष्ठन्तिवाद्यतेबहुनेकथा ॥ ३९ ॥ प्रदक्षिणंप्रकुर्वन्तिनाना-  
 विधिह्यनेकथा ॥ शंखदुन्दुभिनिर्घोषैःकाहलैर्भेरिर्मर्दलैः ॥ ४० ॥  
 पटहैर्वेषुवंशश्चगर्जितोधुनिनातितम् ॥ नृत्यंतैअप्सरारंभासर्वा-  
 भरणभूषिता ॥ ४१ ॥ हेमरत्नंभूषिताचविद्युतेजःसमप्रभाः॥

जिसकी कोटिके मध्यमें वैकुण्ठ शोभायमान है ॥ ३२ ॥ वैकुण्ठके आठ द्वार  
 और सोलह प्रतिहार हैं जय विजय महायोधा द्वारपाल स्थित हैं ॥ ३३ ॥ मध्य-  
 में वैकुण्ठ है महासाधक जाकर स्थित हुए जो सुवर्ण और रनोंसे जटित और  
 जिसके द्वार तोर्ण शोभा पाती हैं ॥ ३४ ॥ इन्द्रनील, महानील, पद्मराग  
 मणियोंसे शोभायमान कोटि सूर्यकी समान निर्मल कोटिचन्द्रमाकी समान  
 निर्मल ॥ ३५ ॥ अग्निज्वालाकी समान आकाशमें प्रकाशमान, लाखयोजनके  
 विस्तारमें और चौगुने उचाईमें स्थित ॥ ३६ ॥ मणिरत्नके जडे हुए सब सुवर्णके  
 खम्भे दिव्य सिंहासन सुवर्ण रत्नोंके बने हुए ॥ ३७ ॥ उसके ऊपर जगद्गुरु परम  
 शिव स्थित हैं, जहां ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवता महेश्वरके समीप स्थित हैं ॥  
 ॥ ३८ ॥ इन्द्र वरुण युवेर धर्मराज उस सभामें स्थित हैं अनेक प्रकारके मनोहर  
 वाजे बजतहैं ॥ ३९ ॥ अनेकप्रकारसे सब कोई शिवजीकी प्रदक्षिणा करतेहैं ।  
 शंख दुन्दुभी काहलभेरिका तथा मर्दलवाजोंका जहाँ शब्द होरहाहै ॥ ४० ॥ पटह वेषु,  
 पंशोंया शब्द होरहाहै और अप्सरायें अनेक आभूषण धारे नृत्य कररहीहैं ॥ ४१ ॥  
 सुवर्णरत्नोंके गहने पहरे विजलीके तेजकी समान कांति दिव्य चर्य पहरे दिव्य

दिव्यवस्त्रपरिधानादिव्यगंधानुलेपनाः ॥ ४२ ॥ सर्वलक्षण  
संयुक्तानुपुराभिरलंकृताः ॥ करकंकणसंयुक्ताहारकेयूरभूषिताः ॥  
॥ ४३ ॥ सम्पूर्णचंद्रवदनाकुंडलाभरणोज्ज्वलाः ॥ शिरपुष्पसुगं-  
धाश्चनागवल्लीविभूषिताः ॥ ४४ ॥ रूपयौवनसंपूर्णागायंतिको-  
किलास्वरम् ॥ पठंतिविविधास्तोत्राःसर्वशास्त्रविशारदाः ॥ ४५ ॥  
पठंतिविविधंस्तोत्रमंत्रशास्त्रमनेकधा ॥ मणिरत्नसमोपेताःपुष्प-  
माल्यैःप्रशोभिताः ॥ ४६ ॥ चंदनागुरुकपूरैर्वासितंचपुरमहत् ॥  
चूतचन्दनसंयुक्तंकदलीखण्डमण्डितम् ॥ ४७ ॥ केतकीशतपत्रै-  
श्चतिष्ठंतेयत्रगायका ॥ दृश्यंतेपुरिसर्वनानाविधमनेकधा ॥ ४८ ॥  
इति श्रीरुद्रयामले केदारकल्पे त्रिव्यातपुराणे श्रीश्वरकार्तिकेय-  
संवादे पंचयोगेन्द्रेच्छासिद्धिजीवन्मुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महापथे  
शिवदर्शने सदेहकैलासगमने महाकैलासवैकुण्ठे परम-  
शिवदर्शनोनामद्विचत्वारिंशःपटलः ॥ ४२ ॥

गंध और अनुलेपन लगाये ॥ ४२ ॥ सब लक्षणोंसे सम्पन्न नूपुरादिसे अलंकृत  
हाथोंमें कंकण और हार बाजूबंदोंसे भूषित ॥ ४३ ॥ सम्पूर्णही चंद्रमुखी कुंडल  
आभरणोंसे उज्ज्वल शिरसफूल और सुगंधिधारे पान चावे ॥ ४४ ॥ रूपयौवन-  
से सम्पूर्ण कोकिलास्वरसे गातीहुई सब शास्त्रविशारद अनेक स्तोत्रपाठ करती  
मणिरत्न और पुष्पोंकी मालासे शोभायमानहैं ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ चंदन अगर और  
कपूरसे वह पुर सुगंधितहै आम चंदनसे संयुक्त केलेके खण्डसे मंडितहैं ॥ ४७ ॥  
केतकी शतपत्रोंसे शोभायमान वह पुरी अनेक प्रकारसे शोभायमानहै ॥ ४८ ॥  
इति श्रीकेदारकल्पे भाषाटीकाया द्विचत्वारिंशः पटलः ॥ ४२ ॥

### त्रिचत्वारिंशः पटलः ।

श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ ॐ साधकास्तेगतास्तत्रदर्शतेपरमे-  
श्वरम् ॥ दंडवत्प्रणताःसर्वेपतंतिधरणीतले ॥ १ ॥ कृतांजलि-

श्रीश्वर बोले, वहां साधकोंने जाकर परमेश्वरका दर्शन किया और पृथिवीपर  
लेटकर दंडवत् प्रणाम किया ॥ १ ॥ और हाथ जोड़कर साधक प्रणाम करने

पुटाभूत्वासाधकाःप्रणमंतिच ॥ देवदेवजगन्नाथं दुर्लभं तव दर्शनम् ॥  
 ॥ २ ॥ प्राप्यते परमं धर्मं दृश्यते परमेश्वरम् ॥ साधक उवाच ॥  
 अद्य मे सफलं जन्म अद्य मे सफलं तपः ॥ ३ ॥ अद्य मे सफलं कार्यं  
 दृश्यते परमेश्वरः ॥ अद्य मे सफलं जन्म अद्य मे सफलं तपः ॥ ४ ॥  
 अद्य मे सफलं ध्यानं दृष्ट्वा च परमेश्वरम् ॥ अद्य मे सफलं विद्या अद्य मे  
 सफलं यशः ॥ ५ ॥ अद्य मे सफलं पंथाय दिदृष्ट्वा परः शिवः ॥  
 अद्य मे सफलं ज्ञानं दृष्ट्वा च परमेश्वरम् ॥ ६ ॥ त्रयो देवाश्च भाषंते  
 वरं देहि महेश्वरम् ॥ ईश्वरस्य त्रयो देवा वरं दद्याच्च साधकाः ॥ ७ ॥  
 अमृतं पिवते सिद्धा जरा मृत्युविवर्जिताः ॥ अजरा अमरं चैव योनि-  
 गर्भेन वर्जिताः ॥ ८ ॥ पुनः पुनः साधकानां मृत्युलोकेन गच्छति ॥  
 पश्चात्तु साधकानां च अजरा अमरावति ॥ ९ ॥ कस्मिन्काले सु-  
 संप्राप्ते महापंथेन गम्यते ॥ महापंथे महास्थाने देवदानव दुर्लभे ॥  
 ॥ १० ॥ गुह्याद्गुह्यतरं गोप्यं यदि स्थानं उच्यते ॥ तत्र गत्वामहा-  
 सेन पुनर्जन्म न विद्यते ॥ ११ ॥ मयावगोप्यं कृत्वा च कृत्वा ब्रह्मा-

लगे, हे देवदेव ! जगन्नाथ ! आपका दर्शन दुर्लभ है ॥ २ ॥ हे परमेश्वर ! आपके  
 दर्शनसे परमधर्म प्राप्त होता है । साधक बोले आज हमारा जन्म और तप सफल  
 हुआ ॥ ३ ॥ आज परमेश्वरका दर्शनकर सब कार्य सफल हुए आज जन्म और  
 तप सफल है ॥ ४ ॥ आज परमेश्वरको देखकर हमारा ध्यान सफल हुआ ।  
 आज विद्या और यश सफल हुआ ॥ ५ ॥ आज भाग्यसे शंकरका दर्शन कर  
 हमारा पंथ सफल हुआ, आज परमेश्वरको देख हमारा ज्ञान सफल हुआ ॥  
 ॥ ६ ॥ तीनों देवता महेश्वरसे वर देनेको कहते हैं साधकोंको ईश्वरकी कृपासे  
 तीनों देव वर देते हैं ॥ ७ ॥ हे सिद्धो ! जरा मृत्युसे रहित हो अमृतपान करो अजर  
 अमर होकर योनिगर्भसे रहित हो ॥ ८ ॥ इससे फिर साधक मृत्युलोकमें नहीं  
 जायेंगे पीछे साधकोंको अजर अमरता प्राप्त होगी ॥ ९ ॥ किसीसमय जो महा  
 पंथमें जाते हैं, यह महापंथ महास्थान देवदानवोंको दुर्लभ है ॥ १० ॥ यह गुप्तसे  
 गुप्त स्थान किसीको प्राप्त नहीं होता, हे महासेन यहाँ प्राप्त होकर फिर जन्म नहीं  
 ॥ ११ ॥ मैं ब्रह्मा हरिहर इस बातको गुप्त रखते हैं, यह महापंथ गुप्त रखना

हरोहरिः ॥ गोपनीयंप्रयत्नेननदेयंस्यकस्यचित् ॥ १२ ॥  
 दुर्लभंत्रयलोकानांतस्मिन्स्थानेषुगच्छते ॥ सिद्धसाद्धाकदेवानां-  
 केचिज्जानंतिसाधकाः ॥ १३ ॥ साधकानांवरंदत्वातिष्ठतेचयथा-  
 सुखम् ॥ महाविशालैवैकुण्ठेयत्रेच्छातत्रतिष्ठताम् ॥ १४ ॥  
 महाकल्पंमहापथंशृणुस्कंदमहातपाः ॥ कोटिमध्येषुसिद्धास्ते-  
 गच्छंतिसमहापथम् ॥ १५ ॥ चतुर्गुणैसाधकानांतस्यसंख्या-  
 विधीयते ॥ सप्तलक्षम् ॥ ७००००० कृतयुगैस्त्यंसत्यंवदाम्य-  
 हम् ॥ १६ ॥ त्रेतायांपंच ॥ ५००००० लक्षंचगच्छंतिसमहा-  
 पथम् ॥ द्वापरंचत्रयोलक्ष्यम् ॥ ३००००० ॥ कलौलक्षैक-  
 साधकाः ॥ १००००० ॥ १७ ॥ कैलासभुवनेचैवशिवशक्ति-  
 चतिष्ठति ॥ समुद्रलक्षणाःसर्वेयत्रगात्रादिसंक्षयः ॥ १८ ॥  
 दिव्यांगवस्त्रधारिण्योनानाभरणभूषिताः ॥ अष्टगंधोदकेनैवमि-  
 थ्रितंयक्षकर्दमम् ॥ १९ ॥ कुंकुमागुरुकस्तूरीकपर्पूरंचन्दनंतथा ॥  
 महासुगंधिमित्युक्तेनामतोयक्षकर्दमम् ॥ २० ॥ दिव्यपुष्पसुगंधेन-  
 कुंकुमाक्रान्तमस्तकाः॥उद्गिरंतिसताम्बूलनेत्रैस्वाचकज्जलैः २१ ॥  
 ललाटेतिलकंस्यदिव्यजातिसमप्रभाः॥मृगाक्षीहंसगामिन्यःकुं-

चाहिये जिस किसीको न देनाचाहिये ॥ १२ ॥ इस स्थानमें लोकोंका आना  
 दुर्लभहै सिद्ध साधक देवताओंमें कोईही इसको जातेहैं ॥ १३ ॥ साधक वर  
 प्राप्त होकर वहां गयासुरत बैठे और उनसे कहागया महाविशाल वैकुण्ठमें जहां  
 इच्छा हो वहां विचरो ॥ १४ ॥ हेस्कंद ! यह महाकल्प महापथ है करोड़ोंमें  
 कोई एक सिद्ध यहां पहुंचतेहैं ॥ १५ ॥ चारयुगोंमें साधकोंकी संख्या कही  
 जातीहै में सत्य कहताहूं सतयुगमें सातलाख, ॥ १६ ॥ त्रेतामें पांचलाख, द्वा-  
 परमें तीनलाख और कलमें एक लाख साधक पहुंचतेहैं ॥ १७ ॥ कैलासभुवन  
 में शिवशक्तिस्थित रहतीहैं सब सामुद्रिक लक्षणोंसे युक्त महाप्रसन्नहैं सम्पत्तिमान-  
 हैं ॥ १८ ॥ दिव्यवस्त्र धारण किये, अनेक आभरणोंसे भूषितहैं जहां अष्टगंधसे  
 युक्त जलकर्दमहै ॥ १९ ॥ कुमकुम, अगर, कस्तूरी कपूर, चंदन, यह महा  
 सुगंधियुक्त यज्ञ कर्दम कहाताहै ॥ २० ॥ दिव्यपुष्पकी सुगंध और कुमकुम  
 मस्तकपर लगाये नेत्रोंमें कज्जल लगाये ताम्बूल चावे ॥ २१ ॥ जिनके ललाटमें

डलाभरणोज्ज्वलाः । २२ । मुखे चंद्रकलाश्चैव कलाभिः शीशभास्करीः  
नासिकाचैव कीरस्य दंतदाडिमभूषणैः । २३ । रसनायामृतं चैव कोकिल-  
लास्वरनादिनी ॥ करकंकणसंयुक्ताहारकेयूरभूषिताः ॥ २४ ॥  
उरुस्तनफलाकारं ताटककटिमैखला ॥ गंभीरनाभिकूपाचकटिसिं-  
हस्यलंकृता ॥ २५ ॥ गुणलक्षणसंपूर्णज्ञानध्यानसमाकुला ॥  
जातिस्मरक्षमोपेतांगुह्यकादिसमाश्रिता ॥ २६ ॥ गुह्यं पृष्ठति  
हृदयं श्रोपिता भवसिद्धये ॥ भुंजति च स्त्रियाः सर्वा जरामृत्युर्विव-  
र्जिताः ॥ २७ ॥ स्थापितं पदकैलासं योनिमार्गनिवृत्तये ॥  
साधकासंगमे कन्यामार्गतो परिभाषणम् ॥ २८ ॥ श्रीश्वर  
उवाच ॥ ॥ देवताससमंप्राप्ता शिवस्य वचनं तथा ॥ मद्रूपा भव  
ते सिद्धासत्यं सत्यं वदाम्यहम् ॥ २९ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे विख्यातपुराणे श्रीश्वरकार्तिकेयसंवादे-  
पंचयोगेन्द्रेच्छासिद्धिजीवन्मुक्तपरब्रह्मप्राप्तये महापथेशिव  
दर्शने सदेहकैलासगमने महाकैलासोअजरामरप-  
रमशिववरप्राप्तये चतुर्वर्गसाधकपंथनिर्गमनो  
नाम त्रिचत्वारिंशः पटलः ॥ ४३ ॥

दिव्यजातिका तिलक बिजलीकी समान कांति, मृगनेत्री, हंसगामिनी, कुंडल  
आभरणोंसे उज्ज्वल ॥ २२ ॥ मुखपर चंद्रकला चंद्रभास्करकी समान मनोहर  
कीरकी समान नासिका दाडिमकी समान दांत भूषण धारे ॥ २३ ॥ रचनामें  
अमृत कोकिलाकी समान स्वर हाथोंमें कंकण हारकेयूरोंसे भूषित ॥ २४ ॥ फल-  
के आकार स्तन करणफूलधारे कमरमें मैखला नाभिगंभीर सिंहकी समान कमर  
॥ २५ ॥ सम्पूर्ण गुणलक्षणोंसे युक्त ज्ञानध्यानमें तत्पर, जातिस्मरणके ज्ञान-  
घाली गुह्यकादिसे सेवित ॥ २६ ॥ जिनका गुह्य हृदय अतिपवित्र संसारसे  
पृथक्पृथक् सिद्धिसेयुक्त ऐसी स्त्रियोंको जरामृत्युसे रहित होकर भोगतेहैं ॥  
॥ २७ ॥ यह कैलासस्थल योनिमार्गकी निवृत्तिकेलिये स्थापितहै यहाँ साधक  
कन्याओंसे सानन्द भाषण करतेहैं ॥ २८ ॥ ईश्वर बोले शिवके वचनसे यहाँ देव-  
ताओंकी समान होतेहैं सिद्ध भरे रूपको प्राप्त होतेहैं यह मैं सत्य कहताहूँ ॥ २९ ॥

इति श्रीकेदारकल्पे भाषाटीकायां साधकपंथनिर्गमो नाम त्रिचत्वारिंशः पटलः ॥ ४३ ॥

## चतुश्चत्वारिंशः पटलः ।

श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ ॐ श्रुत्वाकल्पंकृतं ध्यानं विना कल्पेन सि  
 ध्यति ॥ नानासिद्धिप्रदास्थानं सिद्धं सिद्धिचहेतवः ॥ १ ॥ पञ्चादौ सा  
 धकाः सर्वे एकविंशतिमेव च ॥ एतन्मध्ये महासिद्धाभावंतत्रैवासिध्यति  
 ॥ २ ॥ पठते च सहस्रद्रयं महापथेन गम्यते ॥ दिव्यमार्गदेवास्कंदसत्यं  
 सत्यं वदाम्यहम् ॥ ३ ॥ महादेवमहासेनमहाकल्पं महापथ ॥  
 महासिद्धमहाभोगादुर्लभं भुवनत्रये ॥ ४ ॥ महापथं महापुण्यं-  
 सत्यं सत्यं पडानन ॥ भावेन पठते नित्यं गंगास्नानं फलं भवेत् ॥  
 ॥ ५ ॥ शिवनिन्दाचये मूढाः ये च शास्त्रं शिवात्मकम् ॥ निन्दते च  
 गुरुश्चैव ते पांसिद्धिश्च दुर्लभा ॥ ६ ॥ गृहे यस्य सदा तिष्ठेत् शिवकल्पं-  
 महापथे ॥ ब्रह्महत्यादिकं पापं तस्य सर्वं व्यपोहति ॥ ७ ॥ यद्गोप्यं-  
 च सुराः सर्वे यद्गोप्यं मुनिमानवैः ॥ यद्गोप्यं गणगंधर्वाये च शास्त्रं-  
 कथितं मया ॥ ८ ॥ तेषां रुद्रपदेवासो कल्पकोटिसहस्रकम् ॥ ९ ॥  
 अन्तकाले मनुष्याणां महाकल्पं शृण्वन्ति च ॥ तेषां तुष्टो महादेवो

इंद्रवर बोले, इस बातको श्रवण और ध्यान करके जो विनाही कल्पके सिद्ध  
 होजाताहै अनेक सिद्धिके देनेवाले स्थान सिद्धिके निमित्त सिद्धहैं ॥ १ ॥ जिसमें  
 आदिमें एकही सिद्ध प्रवेश करतेहैं हे सिद्धो! इनके बीचमें भावही सिद्ध होतेहैं ॥  
 ॥ २ ॥ दो सहस्र इसके पाठ करनेसे महापथसे जायाजाताहै हेस्कंद! दिव्यदेवता  
 वहां स्थितहैं, यह मैं सत्य २ कहताहूँ ॥ ३ ॥ महादेव महासेन महाकल्प महा-  
 पथमें महासिन्धु महाभोगके देनेवालेहैं, यह मैं सत्य २ कहताहूँ त्रिभुवनमें यह  
 दुर्लभहै ॥ ४ ॥ महापथसे महापुण्य होताहै यह मैं सत्य २ कहताहूँ । जो भावसे  
 नित्य पठतेहैं उनको गंगास्नानका फल होताहै ॥ ५ ॥ जो मूढ शिवकी निन्दा  
 करतेहैं, जो शिवात्मक शास्त्रकी निन्दा करतेहैं तथा जो गुरुकी निन्दा करतेहैं  
 उनको सिद्धि दुर्लभहै ॥ ६ ॥ जिसके घरमें महापथ शिवकल्प ग्रंथ स्थित है उन  
 के ब्रह्महत्यादि पाप सब छूटजातेहैं ॥ ७ ॥ जो देवताओंमें गोपनीयहै जिन मुनि  
 मनुष्योंमें गोपनीयहै जो गणेश्वरसेभी गोपनीयहै जो गणगंधर्वांसि गुप्तहै वह  
 शास्त्र मैंने तुमसे कहाहै ॥ ८ ॥ जो अन्तकालमें महाकल्प सुनतेहैं उनका सौ  
 कोटिकल्पतक रुद्रस्थानमें वास होताहै ॥ ९ ॥ उनपर प्रसन्नहोकर महादेव शिवलोकमें

शिवलोकेवसन्ति च ॥ १० ॥ गयायां पिंडदानेन काशिदर्शनमुत्त-  
मम् ॥ दिव्ययोगेश्वरस्थानं केदारं स च दर्शनम् ॥ ११ ॥ वद्वि-  
चवद्विकास्थानं सर्वदा च शिवालयम् ॥ गवांकोटिसहस्राणि स्नानं  
भागीरथीतटे ॥ १२ ॥ यज्ञं च सहस्रैकं गवां दत्त्वा समाहिता ॥  
एते प्राप्ते भवे भक्तिमोक्षकाले तु मोक्षदा ॥ १३ ॥ एते प्राप्ते भवेत् पु-  
ण्यं कथाश्रुण्वन्ति ये नराः ॥ इच्छासिद्धिर्भवेत्तस्य सर्वपापैः प्रमुच्यते  
॥ १४ ॥ ध्रुवश्च चलते मेरुः सागरे च महार्णवे ॥ यदेवं ध्रुवं चल-  
ते कल्पेन अन्यथा भवेत् ॥ १५ ॥ ये निन्दासर्वदा सर्वैको धश्च  
मदमत्सरः ॥ ते नरानरकं यांति यावच्चन्द्रदिवाकरौ ॥ १६ ॥  
गृहे यस्य सदा कल्पं राजलीला सदा भवेत् ॥ आपदाहरते नित्यं  
ईश्वरं प्रति गच्छति ॥ १७ ॥ यज्ञं पुण्यं धार्मिकानां तीर्थस्नानं च  
यत्फलम् ॥ तस्य संख्या च जानाति कल्पसंख्याविधीयते ॥ १८ ॥  
पश्चिमे च दिशां गत्वा उदयं तां शशिभास्करौ ॥ विपरीतं भवेत्सर्वैः  
कल्पश्च नान्यथा भवेत् ॥ १९ ॥ अनेकधर्मततः कृत्वा व्रतो

निवास दंतैहै ॥ १० ॥ गयामे पिंडदान करने और काशीमे शंकरदर्शनका जो  
फल है, वह दिव्य योगेश्वरस्थान केदारेश्वरके दर्शनका फल है ॥ ११ ॥ वद्विका-  
श्रम और शिवालयका दर्शन करके महाफल होतेहै, कोटिसहस्रगायिका जो  
फल है भागीरथीके तटमें स्नानका जो फल है ॥ १२ ॥ यज्ञमे सहस्रगोदानका जो  
फल है, इन सबके करनेसे मोक्षकी भक्ति प्राप्त होतीहै ॥ १३ ॥ इनका जो पुण्य  
है वह इस कथाके सुननेसे प्राप्त होताहै उसको इच्छासिद्धि प्राप्त होतीहै और  
वह सब पापोंसे छूटजाताहै ॥ १४ ॥ निश्चयही वह संसारसागरसे पार हो  
जातेहै चाहे तुममेरु चलजाय समुद्र मर्यादा छोडदे पर कल्पका फल अन्यथा नहीं  
होता ॥ १५ ॥ जो सदा सबकी निन्दा करते बड़ा बोध और मदमत्सरता  
करतेहै, वह मनुष्य जन्तक सूर्य चन्द्रमाहै तन्तक नरकमें जातेहै ॥ १६ ॥ जि-  
सके यहाँ यह केदारकल्प है राजलीला उसके सदा होतीहै, उसकी आपत्ति सदा  
हरी जाती और वह ईश्वरके प्रति गमन करताहै ॥ १७ ॥ धर्मात्माओंको यज्ञका  
पुण्य होताहै, तीर्थस्नानका जो फल है उसकी संख्या जो जानताहै, वही कल्पके  
फलकी संख्या जानताहै ॥ १८ ॥ चाहे चंद्रसूर्य पश्चिममे जाकर उदय हो जाय  
सुपरी विपरीत होगा परन्तु कल्पका फल अन्यथा नहीं होता ॥ १९ ॥ अनेक



वावशमेवच ॥ नभवंतिसमतुल्यंकल्पंशृण्वंतियत्फलम् ॥ २० ॥  
 वह्निश्चशीतलंयातिनैवकल्पोमृपाभवेत् ॥ दानंपुण्यंवहिकृत्वाहोम  
 यज्ञस्तथैवच ॥ २१ ॥ नभवंतिसमतुल्यंकल्पंशृण्वंतियत्फ-  
 लम् ॥ सर्वतीर्थतपःकृत्वास्नात्वाचंभुवनत्रयम् ॥ २२ ॥ नभवं  
 तिसमतुल्यंकल्पंशृण्वंतियत्फलम् ॥ दानंयज्ञंतपस्तीर्थकाय-  
 क्लेशशुचिक्रियाः ॥ २३ ॥ नभवंतिसमतुल्यंकल्पंशृण्वंतिय-  
 त्फलम् ॥ दानंयज्ञंतपस्तीर्थकल्पंपठतिनित्यशः ॥ २४ ॥ हरते  
 कर्मदुःखंचभक्तानात्रनसंशयः ॥ महाकल्पंमहापंथंमहातीर्थसम-  
 न्वितम् ॥ २५ ॥ महेशान्नापरोदेवोमहिम्नोनापरास्तुतिः ॥  
 अघोरापरोमंत्रोनास्तितत्त्वंगुरोःपरम् ॥ २६ ॥ यदक्षरंपद  
 भ्रष्टंस्वरभेदविवर्जितम् ॥ तत्सर्वक्षम्यतांनाथत्वंगतिःपरमेश्वरः  
 ॥ २७ ॥ काव्यकर्तायदाव्यासोलेखकोगणनायकः ॥ तदापि  
 चलतेबुद्धिःकाकथाइतरेजनाः ॥ २८ ॥ रैन्यादिचयथास्वप्रंअ-  
 भ्रच्छायायथारविः ॥ जलेचन्द्रबुदाकारंतथासंसारिणोजनाः ॥

धर्मकरके वा व्रत करके जो फलहै वह फल कल्पसुननेकी बराबरी नहीं  
 करसकते ॥ २० ॥ चाहे अग्नि शीतल होजायपर कल्पका फल बूया नहीं होता अनेक  
 दान जप होम पुण्य करकेभी ॥ २१ ॥ कल्पकी बराबर पुण्य नहीं होता सब  
 तीर्थोंमें तप करके और सबभुवनोंमें स्नान करके ॥ २२ ॥ कल्पमाहात्म्य सुननेके  
 समान फल नहीं होता दान यज्ञ तप तीर्थ काय क्लेश शुचिक्रिया ॥ २३ ॥ कल्प  
 माहात्म्य सुननेकी बराबर फल नहीं होता, दान यज्ञ तप तीर्थसे विशेष फल  
 कल्पसुननेका होताहै ॥ २४ ॥ इन सबसे कर्मदुःख हरेजातेहैं इसमें सन्देह नहीं  
 महाकल्प महापंथ महातीर्थोंसे युक्त ॥ २५ ॥ महेशानही परमदेवहैं उनके समान  
 दूसरेकी महिमा नहींहै महिम्नकी समान स्तुति नहीं अघोरकी समानमंत्र और  
 गुरुकी समान दूसरा तत्त्व नहींहै ॥ २६ ॥ जो अक्षर पदभ्रष्ट तथा स्वरभेदसे  
 वर्जितहैं हेनाथ ! वह सब क्षमाकरो हेपरमेश्वर ! तुमही सबकी गतिहो ॥ २७ ॥  
 जैसे काव्यकर्ता व्यास वैसेही उनके लेखक गणेशजोहैं ती भी उनकी बुद्धि चलाय  
 मान होजातीहै दूसरोंकी तो चातही क्याहै ॥ २८ ॥ जैसे रात्रिका स्वप्न क्षण  
 भंगुरहै जैसे भेषके छायामें रवि क्षणमात्रको डकताहै जैसे जलमें बुदबुदे क्षणमात्र

॥ २९ ॥ जलात्तैलात्तथारक्षेत्रक्षेतशिथिलबंधनात् ॥ मूर्ख  
हस्तेनदातव्यंएवंवदंतिपुस्तकम् ॥ ३० ॥ भग्नपृष्ठंकर्टिग्री  
वाबद्धमुष्टिरधोमुखम् ॥ कष्टेनलिखितंअथयत्नेनप्रतिपालयेत् ॥  
॥ ३१ ॥ इदंकल्पंमहापुण्यंयेशृण्वंतिपठंतिच ॥ सर्वपापविनि  
मुक्ताःशिवसायुज्यमाप्नुयुः ॥ ३२ ॥ यादृशंपुस्तकंदृष्ट्वाता  
दृशंलिखितंमया ॥ यदिशुद्धमशुद्धंवाममदोषोनदीयते ॥ ३३ ॥  
इतिश्रीकेदारकल्पेविख्यातपुराणेश्रीश्वरकार्तिकेयसंवादेपंच-  
योगेन्द्रेच्छासिद्धिजीवनमुक्तपरब्रह्मप्राप्तयेमहापथे शिव-  
दर्शनेसदेहकैलासगमनेकेदारतीर्थफलश्रुतिवर्ण-  
नो नामचतुश्चत्वारिंशः पटलः ॥ ४४ ॥

कौहें वैसेही संसारीजन हैं ॥ २९ ॥ जलसे तेलसे शिथिलबंधनसे पुस्तककी स-  
रक्षा करै मूर्खके हाथमें पुस्तक न देनी चाहिये ऐसा पंडितजन कहतेहैं ॥ ३०  
नित कमर, गरदन, ट्रेडी करनी पडतीहै सुट्टी बांधनी होतीहै नीचेको मुख कर  
होताहै बहुत कष्टसे अर्थ लिखना होताहै इसकी यत्नसे रक्षा करनी चाहिये  
॥ ३१ ॥ यह कल्प महापुण्य देनेवालाहै, जो इसको पढते और सुनतेहैं वह स-  
से छूटकर शिवके सायुज्यकी पातेहैं ॥ ३२ ॥ जैसी पुस्तक मैंने देखी वैस-  
लिखी यदि शुद्ध अशुद्ध हो तो मुझे दोष न देना चाहिये ॥ ३३ ॥  
इतिश्रीकेदारकल्पे विख्यातपुराणे भाषाटीकायां केदारतीर्थफलश्रुतिवर्णनोनाम चतुश्चत्वारिंशःपटलः ४

दोहा-जगत्पिता शंकर विमल, जगन्माय सुखदान ॥  
वालक जान दया करी, सकल सुमंगल खान ॥ १ ॥  
लाभ पदारथ चारको, जो सुमिरै दिन रैन ॥  
प्रजा समान सुपालही, देत सदा सुखचैन ॥ २ ॥  
साम्बशिवहि नित ध्यानधर, टीका कियो विचार ॥  
दया भाव नित भक्तपर, करहु भक्त निस्तार ॥ ३ ॥  
उत्रिससै त्रैसठ सुभग, पौष शुक्ल शशिवार ॥  
द्वितीयाको टीका कियो, मिश्र सुमंगलचार ॥ ४ ॥  
शिव शिव रटिये प्रेमसे, मिटै सकल जंजाल ॥  
श्रीकामेश्वर नाथजी, सन्तत रहैं दयाल ॥ ५ ॥

पुस्तक मिलनेका पता-खेमराज श्रीकृष्णदास,

“श्रीविंशेश्वर” स्टोम्-पन्थालय-बंबई.